



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 181]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYASTHA 23, 1936

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जून, 2014

सं 20-21/2014-के.पं. (उत्तर) .—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23(3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उत्तर प्रदेश राज्य रजिस्टर में 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक क्रम संख्या 183159 आयुर्वेद एवं 25358 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 184261 आयुर्वेद एवं 26080 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

[विज्ञापन III/4/असाधारण/124/14]

प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार

**टिप्पणी:**— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (उत्तर प्रदेश) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को 30 दिन के अन्दर सूचित किया जाए।

भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका  
उत्तर प्रदेश  
भाग-1 आयुर्वेद

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/ पंजीयन तिथि	पता
183159	आमीर खुशीद एस.एम. खुशीद	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57680 05/10/12	ग्राम और डाकघर करजाहान देवरिया
183160	आरीफ खान अकबर अली खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57827 04/01/13	197, ग्राम सरफाबाद नोएडा, गौतम बुद्ध नगर
183161	अभा गौड़ पुरन चन्द गौड़	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57379 28/08/12	ग्राम लछमपुर पो.ऑ कालाघाटी कोटद्वार पौरी, गढ़वाल
183162	अभय चौहान सुरेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57126 13/07/12	मकान नं. 2/112, बुद्धी विहार आवास विकास कॉलोनी मझौला, मुरादाबाद
183163	अभय कुमार राणा राजाराम सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57707 12/10/12	ग्राम और डाकघर गोर्धनपुर नवका थाना अफजलगढ़, बिजनौर
183164	अभय प्रताप सिंह राजेन्द्र पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57814 24/12/12	अवधपुरी कॉलोनी सुभाष नगर, बरेली
183165	अभय सिंह लोधी जहर सिंह लोधी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57258 14/08/12	ग्राम और डाकघर बमहौरी कलौं जखलोन ब्लॉक जखोरा ललितपुर
183166	अभिजीत कुमार श्रीवास्तव रवि पी. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57111 09/07/12	7/13, बाघम्बरी गढ़ी अलापुर इलाहाबाद
183167	अभिलाष शर्मा कुंज बिहारी लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	57792 12/12/12	नई बस्ती, समथार तहसील मंथ, झांसी
183168	अभिलाषा देवी ऋषि चौरसिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57393 30/08/12	252, मलकपुरा, महोबा
183169	अभिलाषा वर्मा अजय कुमार वर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57766 30/11/12	87/16/1, त्यागी रोड़ छेहरादून, उत्तराखण्ड
183170	अभिनव कुमार आनन्द प्रकाश काका	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57789 11/12/12	मकान नं. 13, बाजार मधोदास सिकंदराबाद, बुलंदशहर

183171	अभिनव पाण्डेय सुरेश चन्द्र पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57840 16/01/12	ग्राम रसूलपुर पो.ऑ गोपीनाथ तापा बंगावन हरिया बस्ती 389, खुशीपुरा, झांसी
183172	अभिषेक मोहन कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57261 16/08/12	मकान नं. 202 बी, बशारतपुर पूर्वी पो.ऑ. गीतावाटिका, गोरखपुर
183173	अभिषेक द्विवेदी राजेश्वर द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57788 11/12/12	8/48, न्यू अशोक नगर अलीगढ़
183174	अभिषेक जादौन प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57795 13/12/12	ग्राम और डाकघर भदफर सीतापुर
183175	अभिषेक कुमार चन्द्र मोहन मिश्रा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57415 31/08/12	वाटा वाली गली जोगीपाड़ा, डिबई, बुलन्दशहर
183176	अभिषेक महेश्वरी अशोक के. महेश्वरी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57334 27/08/12	जी 1084, शकूरपुर वजीरपुर डिपो के पास, दिल्ली
183177	अभिषेक मतवानी शान्ति कुमार मतवानी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2006	56943 10/05/12	बंसीपुरा ललितपुर
183178	अभिषेक सक्सेना बलवीर बहादुर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2009	57455 04/09/12	ग्राम वालापुर थाना नवाबगंज गोंडा
183179	अभिषेक श्रीवास्तव दिनेश सी. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57484 07/09/12	द्वारा श्री तहसीलदार सिंह तिलमापुरा आशापुर, सरनाथ
183180	अभिषेक सिंह देवेन्द्र पी. सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57162 24/07/12	168 बी, हिन्द नगर कानपुर रोड़, पुरानी चुंगी, लखनऊ
183181	आदर्श प्रताप सिंह राजेन्द्र प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57902 25/02/13	गंधी मार्किट सुगर मिल के सामने, बिजनौर
183182	आदिति चौधरी नीरज चौधरी	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2009	57391 30/08/12	ग्राम जयपुर थाना मोहम्मादाबाद फर्रुखाबाद
183183	आदिति यादव राजेन्द्र सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57821 27/12/12	आइ.पी.पी लोहिया कैम्पस 2/2, आवास विकास कॉलोनी, फर्रुखाबाद
183184	आदित्या कुमार महेन्द्रा के. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57357 28/08/12	

183185	अद्वैत त्रिपाठी अच्युत कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57029 19/06/12	मकान 129, सैक्टर 41 नोएडा गौतम बुद्ध नगर
183186	अग्निवेश त्रिपाठी सुरेश सी. त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57053 28/06/12	719ए, रामानन्द नगर टलापुर, इलाहाबाद
183187	अहमद नवाज शमशीर हसन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57551 13/09/12	मोहल्ला उसमानपुर पो.ऑ. जलालपुर अम्बेडकर नगर
183188	ऐवरान सिंह मूल चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57108 06/07/12	मकान नं.20, गली नं.4, जगजीवन रामनगर नं. 6 फिरोजाबाद
183189	अजय कान्त द्विवेदी विष्णु शंकर द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57971 12/03/13	ग्राम सोनाई पो.ऑ. ओनटा, इलाहाबाद
183190	अजय कुमार रघुवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56944 10/05/12	ग्राम और डाकघर औरंगाबाद सदर मथुरा
183191	अजय कुमार महेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2012	57887 15/02/13	मोहल्ला मकबरा गुरुद्वारा नाजिबाबाद, बिजनौर
183192	अजय कुमार कुशवाहा जिउट वंघन सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57094 12/12/12	ग्राम और डाकघर अवजापुर चन्दौली
183193	अजय कुमार बृजेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57409 31/08/12	सकलडीहा बाजार चन्दौली
183194	अजय कुमार देव नन्दन पी. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	57628 27/09/12	ग्राम चन्धासी थाना एवं पो.ऑ. मुगलसराय चन्दौली
183195	अजय कुमार पवन कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57025 14/06/12	इजिस्ट गौरा चौकी बमनान रोड़ गोंडा
183196	अजय कुमार जयसवाल शिब्वन लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57496 10/09/12	रत्सिया मोर भटपार रानी देवरिया
183197	अजय प्रताप सिंह चन्द्र भान सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2008	57627 27/09/12	ग्राम राजेपुर मालोली पो.ऑ. जहांगिरवा गोंडा
183198	अजय रावत राम किशोर रावत	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57822 27/12/12	एस.एस. 3/626, रूची खंड एल.डी.ऐ कॉलोनी, लखनऊ

183199	अजय शर्मा पन्ना लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57587 19/09/12	जी 1, 562, कालिन्दी पुरम राजरूप पुर, इलाहाबाद
183200	अजित कुमार राय राम चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57209 07/08/12	ग्राम बरेहाता पो.ऑ. फरसाद, गोरखपुर
183201	अजित पाल सिंह केपी सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56914 23/04/12	33/1ए/4टी, राधा नगर बुलकेशवर, अलीगढ़
183202	अजित सिंह अवदेश यादव	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2012	57855 28/01/13	ग्राम और डाकघर गंधुवाई आजमगढ़
183203	अजित सिंह मारकण्डे सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57246 13/08/12	ग्राम रबनगवा पो.ऑ. अलेया तहसील मछली शहर जौनपुर
183204	आकाशदीप साहू रामसेवक साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57768 30/11/12	मकान नं. 182, मुंह मिलन पो.ऑ. बरुआ सागर झांसी
183205	अखंड प्रताप सिंह हरिद्वार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57293 22/08/12	ग्राम और डाकघर मिरपुर चिलुआ ताल, ब्लॉक जंगल कोदिया, गोरखपुर
183206	अखिलेश कुमार अनिरुद्ध मिश्रा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57546 12/09/12	ग्राम गंवारिया खुर्द पो.ऑ. महुआ बुर्जुग सिद्धार्थ नगर
183207	अखिलेश कत्यायन देवव्रत शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57021 08/06/12	आनन्द क्लिनिक ग्राम बिनोली, बागपत
183208	अखिलेश कुमार मौर्या अरविंद कुमार मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57313 23/08/12	ग्राम मलका पो.ऑ. गारापुर इलाहाबाद
183209	अखिलेश कुमार गुप्ता भगवान दास गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57489 10/09/12	ग्राम पकरिया गाँव पो.ऑ. हरिहरपुर काया स्थान फैजाबाद
183210	अखिलेश कुमार सतगुरु प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57355 28/08/12	ई 4/92, अम्रपाली आवास विकास कॉलोनी हरदोई रोड़ लखनऊ
183211	अखिलेश कुमार सिंह विरेन्द्र बी. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	57534 12/09/12	4/792, शास्त्री चौक पुराना राम नगर वाराणसी
183212	अल्का गुप्ता राजीव कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57781 07/12/12	वाई नं. 13, भिखमपुर रोड़ शास्त्री नगर देवरिया

183213	आलोक जैन आनन्द पी. जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	57040 22/06/12	भगवती क्लिनिक मोह कायासतान पो.ऑ. रामपुर मनिहरण सहारनपुर
183214	आलोक कुमार नरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2012	57819 27/12/12	शिवानी गारमेन्ट्स कोटना रोड़ बडौत बागपत
183215	आलोक कुमार सोने लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57450 04/09/12	ग्राम और डाकघर बरोर कानपुर देहात
183216	आलोक कुमार जायसवाल कृपा शंकर जायसवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57330 27/08/12	ग्राम कलना पो.ऑ. हरिपुर मारो तहसील हाड़िया इलाहाबाद
183217	आलोक कुमार सिंह नरसिंह बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57010 28/06/12	ग्राम और डाकघर मेहरीकाला बहराईच
183218	आलोक कुमार वर्मा सुखराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57461 05/09/12	ग्राम भकुरहिया पो.ऑ. दसिया बस्ती
183219	आलोक कुशवाहा लालाराम कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56930 02/05/12	प्रताप नगर जलालाबाद शाहजहांपुर
183220	आलोक पाण्डेय अशोक पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57514 11/09/12	मोहल्ला कशभारा पुवायन शाहजहांपुर
183221	आलोक शर्मा शारदा शरण शर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	57813 21/12/12	हर्ष नगर कचहरी रोड़ विधायक नौरंगाबाद इटावा
183222	आलोक सिंह प्रहलाद सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57005 06/06/12	ग्राम गुरसैल पो.ऑ. सादेमाऊ तहसील फतेहपुर बाराबांकी
183223	अल्ताफ हुसैन मजहर हुसैन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57681 05/10/12	ग्राम और डाकघर चोकिया गाजीपुर
183224	आमिर अब्बास मोहम्मद हसन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57692 08/10/12	हसन अस्पताल मिरानपुर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर
183225	अमित दीक्षित अवधेश दीक्षित	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57568 18/09/12	सिंधी कॉलोनी के सामने रेलवे रोड़ फारूखाबाद
183226	अमित कुमार मानसिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57749 20/11/12	ग्राम पहाड़पुर पो.ऑ. बेलहर मैनपुरी

183227	अमित कुमार कन्हैया प्रसाद	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57064 28/06/12	ग्राम और डाकघर रानीगंज बाजार बलिया
183228	अमित कुमार मिश्रा श्रवण कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57823 27/12/12	मकान नं. 62, बाजार उत्तरी मकान नं. 162 से 331 फतेहपुर
183229	अमित कुमार मौर्या बांके लाल मौर्या	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57034 20/06/12	एफ 1/96, सैक्टर 1 राजाजीपुरम लखनऊ
183230	अमित कुमार राय अरुण कुमार राय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57185 30/07/12	मकान नं. 339, मोहल्ला भैरोगंज, चरखरी महोबा
183231	अमित कुमार राम आनन्द राम	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57300 22/08/12	ग्राम और डाकघर गौरा थाना रामपुर कारखना देवरिया
183232	अमित कुमार साहू अमित कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57067 28/06/12	जुबली सिनेमा के पास साहूजी टोला, बक्शीपुर गोरखपुर
183233	अमित कुमार शुक्ला सुरेश कुमार शुक्ला	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57698 11/10/12	मकान न. 666, आलुथोक हरदोई
183234	अमित कुमार सिंह रामजी सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57969 12/03/13	मकान नं. एस2/509ए सिकरोल, थाना कैन्ट वाराणसी
183235	अमित कुमार सिंह गरुड़ प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57582 19/09/12	मकान नं. 46, मोहल्ला कटरा, पो.ऑ. अयोध्या फैजाबाद
183236	अमित कुमार सोनी हीरालाल सोनी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57666 03/10/12	मकान नं. 46, मोहल्ला सिविल लाइन गन्दा नाला सुल्तानपुर
183237	अमित कुमार यादव श्याम कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57947 12/03/13	नई बस्ती, दिधार ग्राम और डाकघर मझोवां बलिया
183238	अमित शुक्ला कृष्ण एस. शुक्ला	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57479 07/09/12	289/ए, पोखरपुर विश्व बैंक कॉलोनी जाजमऊ कानपुर
183239	अमित सिंह सुरेन्द्र बी. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57236 13/08/12	ग्राम फिरोजपुर पो.ऑ. रामपुर कलां सरेनी लालगंज बेसवारा प्रतापगढ़
183240	अमित सिंह यादव चरण सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57727 30/10/12	ग्राम चकला पूर्वा पो.ऑ. पोहर बाँदा

183241	अमित वर्मा अमित महेश्वरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57729 30/10/12	ग्राम खेरी थाना बिलसी बदायूं
183242	अमरेश सिंह कुशवाहा बाबू सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57069 28/08/12	115/1, गांधी ग्राम पो.ऑ. हरजिन्द्र नगर, कानपुर
183243	अमृता पाण्डेय आशुतोष पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57190 30/07/12	ग्राम भिखिनी चक पो.ऑ. हरिहरपुर संत कबीर नगर
183244	अमृता सिंह बृजेश कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57444 03/09/12	134, आगा कॉलोनी सिविल लाईन्स सीतापुर
183245	अमजद अली बाबू खान	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57285 31/12/12	मकान नं. 492, ग्राम दबकी जुनारदार सहारनपुर
183246	अनामिका कुमारी रामनारायण लाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57959 12/03/13	बी 32/113बी, बी.एच.यू नारिया, वाराणसी
183247	आनन्द कुमार पाण्डेय चन्द्र भान पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56908 20/04/12	ग्राम गोपरी चांदपुर पो.ऑ. तिघरा अम्बेडकर नगर
183248	आनन्द कुमार पटेल शान्ति प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57487 10/09/12	ग्राम सिसुआर अंदुपुर पो.ऑ. विशुपुर बेरिया गोंडा
183249	आनन्द कुमार सिंह मेवा लाल सिंह	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2009	56941 09/05/12	ग्राम और डाकघर चौबेपुर, वाराणसी
183250	आनन्द प्रकाश द्विवेदी श्रीकान्त द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57119 13/07/12	ग्राम बिरपुर तहसील हान्डिया इलाहाबाद
183251	आनन्द प्रकाश तिवारी गोवर्द्धन तिवारी	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	56964 21/05/12	वार्ड नं. 11, संजय नगर चौरसिया के सामने चन्दौली
183252	अनिकेश कुमार पारस नाथ गुप्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57549 13/09/12	चन्दौली पुरानी बाजार वार्ड नं. 6, इन्द्रा नगर चन्दौली
183253	अनिल कुमार बदले सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57206 06/08/12	ग्राम तुसयाना, ग्रेटर नोएडा एक्स. गौतम बुद्ध नगर
183254	अनिल कुमार हरिश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57136 16/07/13	ग्राम कुदिहार थाना बरदाह लालगंज आजमगढ़



183255	अनिल कुमार विश्वकर्मा राजेन्द्र पी. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2008	57761 27/11/12	ग्राम करमा पो.ऑ. सुरतानीपुर वाराणसी
183256	अनिल कुमार राजदेव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	52138 16/07/12	मकान नं. 395, ग्राम छपिया पो.ऑ. भिंगारी बाजार देवरिया
183257	अनिल कुमार गयादीन सरोज	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57639 28/09/12	मकान नं. सी 15, अवास विकास कॉलोनी अमेठी
183258	अनिल कुमार पाल जगदीश पाल	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56980 29/05/12	पो.ऑ. कामाहरिया पो.ऑ. बदरी बाजार देवरिया
183259	अनिल कुमार पटेल चुन्नी लाल पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57654 01/10/12	ग्राम वदोवा पो.ऑ. शीतलगंज, तहसील मड़ीयाहूँ जोनपुर
183260	अनिल कुमार सोनी श्याम किशोर सोनी	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2013	57907 27/02/13	मकान नं. 432, मदवारा 2 तहसील महरोनी ललितपुर
183261	अनिल कुमार तिवारी घनश्याम तिवारी	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2009	57478 07/09/12	तिलक नगर कॉलोनी महुआ बाग गाजीपुर
183262	अनिल कुमार त्रिपाठी सत्य एन. त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56904 18/04/12	220/14, जे.एल. चक निरातुल जगमाल हाता राजरूप पुर इलाहाबाद
183263	अनिल कुमार त्रिपाठी राम नयन त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57520 11/09/12	ग्राम रहीमपुर पो.ऑ. कतधरमुसा अम्बेडकर नगर
183264	अनिल कुमार वर्मा मुशी लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57150 19/07/12	मकान नं. 173/9, बेलनापारा थाना केसरगंज बहराईच
183265	अनिल कुमार यादव राम स्वार्थ यादव	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57155 20/07/12	मकान नं. 120 मोहल्ला पाण्डेपुर कॉलोनी जलालपुर देहात अम्बेडकर नगर
183266	अनिरुद्ध अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57443 03/09/12	ग्राम और डाकघर मूंगमास मऊ
183267	अनिता उपाध्याय राम बहल उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57771 03/12/12	वार्ड नं. 14 मकान नं. 70 नगर पालिका परिषद बंसी सिद्धार्थ नगर

183268	अनिता यादव दिनेश चन्द्र यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57085 02/07/12	ई 574, सहोदरा सदन भूजोली कॉलोनी देवरिया
183269	अंजलि पाण्डेय अशोक कुमार पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57081 02/07/12	सी 4420, सैक्टर 12 राजाजीपुरम लखनऊ
183270	अंजलि श्रीवास्तव प्रमोद के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57302 22/08/12	मोहल्ला तेढी बाजार गुरुद्वारा के पास बलरामपुर
183271	अंजना सिंह सत्यपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2011	57794 12/12/12	ग्राम मेरती कलां पो.ऑ. बमहोटी कलॉ ललितपुर
183272	अंजनी कुमार सिंह विजय बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	56916 26/04/12	ग्राम जलालपुर पो.ऑ. बिकापुर फैजाबाद
183273	अंजु राय रोहित राय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57472 06/09/12	पुराना कतेहारा रोड दादरी गौतम बुद्ध नगर
183274	अंकज कुमार पवन कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2013	57911 01/03/13	ग्राम खानापुर पो.ऑ. दुर्गापुर अमेठी
183275	अंकेश कुमार सक्सेना मुनीष चन्द्र सक्सेना	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56924 02/05/12	रामबाघ कॉलोनी मुजफ्फर नगर
183276	अंकित जयसवाल ओम प्रकाश जयसवाल	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2013	57999 22/03/13	मकान नं. 81, कसाई टोला तहसील सागड़ी आजमगढ़
183277	अंकित शर्मा दया शंकर शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57696 08/10/12	ग्राम और डाकघर गधेरा बाजार महाराज गंज
183278	अंकिता गर्ग अनिल कुमार अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57919 05/03/13	120/42, बेलदारी लेन लालबाग लखनऊ
183279	अंकुर सत्य प्रकाश बाजपेयी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57156 20/07/12	ग्राम सकतापुर पो.ऑ. फरधान लखीमपुर खीरी
183280	अंकूर गौतम आशा राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57295 22/08/12	ग्राम कोहरेन पो.ऑ. नेदुला पारसराम पुर हरैया चन्दौली
183281	अंकुर खरे मुकेश कुमार खरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57463 05/07/12	बस स्टैण्ड के पास खरे क्लीनिक कुलपहाड़ महोबा

183282	अंकुर पति तिवारी बच्चा पति तिवारी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57353 28/08/12	एल/2, 476 विनितखण्ड गोमती नगर लखनऊ
183283	अंकुर शर्मा राकेश के. शर्मा	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	56896 17/04/12	300, दक्षिणी भोपा रोड़ नई मंडी मुजफ्फर नगर
183284	अंकुर त्यागी ओम दत्त त्यागी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2007	56958 18/05/12	मोहल्ला अतराड़ा तहसील सदर मेरठ
183285	अनमोल वर्मा शंकर लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57433 31/08/12	अथाई टोला, मेन रोड़ सिरसागंज फिरोजाबाद
183286	अन्नापुर्णा कुमारी अनिरुद्ध पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57202 06/08/12	पुरानी चौक गोपालगंज थाना, गोपालगंज बिहार
183287	अंशू पटेल अशोक कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56898 17/04/12	151, दादरा, तहसील मदीहान मिर्जापुर
183288	अंशुल चान्दक राजीव के. चान्दक	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57572 18/09/12	मोहल्ला बजरिया पो.ऑ. साहसवान बदायूं
183289	अंशुल विश्वकर्मा अशोक के. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57339 28/08/12	मकान नं. 5/139, मोहल्ला खेड़ा अजमत खान पाली रोड़ शाहबाद हरदोई
183290	अंशुमन चौहान बलराम एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57183 30/07/12	मकान नं. 704, राजेन्द्र नगर कारमर रोड़, ऊरई जला
183291	अंशुमन मिश्रा सुरेश सी. मिश्रा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57286 21/08/12	ग्राम और डाकघर मालीपुर ग्राम जलालपुर अम्बेडकर नगर
183292	अंतर प्रीत सिंह बलवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57519 11/09/12	डॉ. वोहरा क्लिनिक के पास नैनीताल रोड़ बहेरी बरेली
183293	अंतरिक्ष पाल गिरिश चन्द्र पाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	56989 31/05/12	केशोपुर बजेबर इटावा
183294	अनू मिश्रा शशिकांत मिश्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57665 03/10/12	6 दुपरापौर ऊन्नाव
183295	अनुबंध त्रिपाठी अशोक कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57853 23/01/13	84, सहसापुर ग्राम और डाकघर सहसापुर सीतापुर

183296	अनुभा चौधरी दिगपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57304 23/08/12	एच 331 गोविंदपुरम एच ब्लॉक गाजीपुर गाजियाबाद
183297	अनुभा पाण्डेय सुशील कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57739 08/11/12	मकान नं. 178/99, संजय गांधी नगर नौबस्ता कानपुर
183298	अनुभा सिंह आनन्द कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57961 12/03/13	सी 4/14, सराई गोवर्द्धन, चेतगंज वाराणसी
183299	अनुभा यादव मोहित देशवाल	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2008	56948 17/05/12	27/80/2ए, अशोक नगर लोहा मण्डी आगरा
183300	अनुप सिंह अशोक कुमार चौरसिया	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	57043 27/06/12	ग्राम और डाकघर ताजपुर देहमा गाजीपुर
183301	अनुप कुमार प्रजापति रंगीला प्रसाद प्रजापति	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56822 04/04/12	ग्राम टोला अहिबारन राय पो.ऑ. बंकुल देवरिया
183302	अनुप कुमार अधिकारी गणेश सी. अधिकारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57178 26/07/12	ग्राम और डाकघर शिवली चौराहा रायबरेली
183303	अनुप कुमार गुप्ता हरि वरात गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57129 13/07/12	ग्राम और डाकघर खैरगढ़ फिरोजाबाद
183304	अनुप कुमार गुप्ता अरुण कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2009	56988 31/05/12	133, नीम टोला खागा फतेहपुर
183305	अनुप कुमार मिश्रा उमेश चन्द्र मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57966 12/03/13	प्लेट नं. 67, नगर निगम कॉलोनी, शिवपुर वाराणसी
183306	अनुप कुमार सिंह शिव बलौ सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57942 12/03/13	ओरन रोड़, कृष्ण नगर अत्तारा बौदा
183307	अनुपम कुमार वर्मा अमरेश राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57844 21/01/12	ग्राम मोहनापुर पो.ऑ. धुसवान कलां महाराज गंज
183308	अनुपम त्रिवेदी शिवतिर्थ त्रिवेदी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57360 28/08/12	ग्राम और डाकघर जहांगंज फारूखाबाद
183309	अनुपमा शर्मा राजकुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57320 27/08/12	131, हरि एन्कलेव चांदपुर रोड़ बुलंदशहर

183310	अनुपमा सिंह रविशंकर सिंह	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57252 13/08/12	ग्राम बरडीहा दलपत पो.ऑ. बरडीहा परशुराम देवरिया
183311	अनुराधा मिश्रा सरोज कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 2011	57786 11/12/12	ग्राम कौरिया पो.ऑ. नवलपुर देवरिया
183312	अनुराधा मौर्या बाल मुकुन्द मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57398 30/08/12	69 सी/1, तिलक नगर अलापुर इलाहाबाद
183313	अनुराग गुप्ता कृष्ण कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57269 16/08/12	जलालाबाद शाहजहाँ पुर
183314	अनुराग मिश्रा अनिल कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57376 28/08/12	रेलवे रोड के पास ब्लॉक कायममंज फारूखाबाद
183315	अनुराग सक्सेना रामासरे दास सक्सेना	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2003	57445 03/09/12	330/5, अशरफी भवन जी.जी.आइ.सी रोड बरेली
183316	अनुराग सिंह चन्देल जगदीश सिंह चन्देल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57240 13/08/12	ग्राम अलावलपुर पो.ऑ. खिमसेपुर फारूखाबाद
183317	अपूर्वा कंठ श्रीनाथ	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57466 06/09/12	मकान नं. 81, रेलवे कॉलोनी दिबियापुर फफूंद औरैया
183318	अर्चना लालता प्रसाद	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57048 28/06/12	90, इटोरा गुरु का कालपी जालौन
183319	अर्चना कुमारी बिरेन्द्र बहादुर	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2012	57891 19/02/13	61के/3जे, पुष्पांजलि नगर भव्यापुर करेली इलाहाबाद
183320	अर्चना पंवार राजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57674 05/10/12	ग्राम कताई अमरोहा ज्योतिबा फुलेनगर
183321	अर्चना सरोज जागेश्वर प्रसाद सरोज	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57343 28/08/12	560/24, सिविल लाइन ऊन्नाव
183322	अर्चना शिवाजी राव टोन्चे विनय शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57124 13/07/12	मोहल्ला हाता बुजुर्ग गगाहा पो.ऑ. शिवपुर गोरखपुर
183323	अर्चना सिंह विषेन योगेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57312 23/08/12	339/70, पी.टी.पी.पी कॉलोनी टाइप II, परीक्षा झांसी

183324	अर्चना वर्मा मनोहर लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57011 07/06/12	676, शिवाजी नगर कानपुर रोड़ झांसी
183325	अरेन्द्र सिंह महेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57695 08/10/12	ग्राम सिकरी कलॉ पो.ऑ. चिलकाना सहारनपुर
183326	अर्पण दवे शशि कान्त दवे	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57281 21/08/12	सिद्धि सदन ग्राम गोरैया चन्दौली
183327	अर्पित स्वतंत्र एम. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57796 13/12/12	मोहल्ला भटनागर कस्बा इस्लाम नगर बदायूं
183328	अर्पित द्विवेदी त्रिमोहन द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57745 09/11/12	685, सुशील नगर राजकीय कॉलोनी जालौन
183329	अर्पित गुप्ता अशोक कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	56982 30/05/12	34, पीपल टोला कुंचा परमेश्वरी दास
183330	अरुण कुमार कुंजी लाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57939 12/03/13	ग्राम और डाकघर ककरी सोनभद्र
183331	अरुण कुमार जनार्दन तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57723 25/10/12	मोहल्ला सेमरा नं. 1 पो.ऑ. चारगावन गोरखपुर
183332	अरुण कुमार फेकराम	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2010	56984 30/05/12	ग्राम सत्तारपुर पो.ऑ. रेड़ा तहसील फूलपुर आजमगढ़
183333	अरुण कुमार अवस्थी अशोक कुमार अवस्थी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57691 08/10/12	ग्राम प्रताप पुर लक्ष्मी पो.ऑ. मदरौली शाहजहां पुर
183334	अरुण कुमार विश्वास अनाथ कुमार विश्वास	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57793 12/12/12	ग्राम गुलरा पो.ऑ. हेमपुर थाना सिरसिया शरावस्ती
183335	अरुण प्रताप सिंह चौहान सत्येन्द्र एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57548 13/09/12	मकान नं. 197, गली नं. 7 अशोक नगर इटावा
183336	अरुण उपाध्याय विशेष कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57113 09/07/12	ग्राम और डाकघर संजारपुर बदायूं
183337	अरविंद कुमार शाक्य शेर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57285 21/08/12	मोहल्ला नं. 8, साहबगंज बॉर्डपास रोड़, बिलसी बदायूं

183338	अरविंद कुमार उपाध्याय रामजी उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57715 15/10/12	एस.7/40, के 3, आर बेनीपुर सारनाथ वाराणसी
183339	अरविंद कुमार कुंज बिहारी	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57065 28/06/12	मकान नं. 123, गांधी नगर सिधोली लखनऊ
183340	अरविंद कुमार गुप्ता बृन्दा गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56963 21/05/12	ग्राम और डाकघर गौरी जगदीश थाना सेवराही खुशी नगर
183341	अरविंद कुमार जैन विमलेश कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57544 12/09/12	129-बी कटरा तेक चन्द्र इटावा
183342	अरविंद कुमार सिंह विरेंद्र कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57983 18/03/13	लक्ष्मी विहार मिभरोलिया रोज़ा गाजीपुर
183343	अरविंद सिंह नरवारिया भगीरथ एस. नरवारिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57893 21/02/13	ग्राम गुरसोरा थाना जखोरा तहसील ललितपुर ललितपुर
183344	आशा यादव एच.एस यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57308 23/08/12	जय नारायण वर्मा रोड़ सोराकथी, फतेहगढ़ फारूखाबाद
183345	आशीष गुप्ता इन्द्रकुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57166 25/07/12	मोहल्ला थान सिंह पीलीभीत
183346	आशीष कुमार मिश्र उदय नारायण मिश्र	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2010	57642 28/09/12	मिश्रा टायरस् पक्का बाग इटावा
183347	आशीष कुमार मिश्र राम स्वरूप मिश्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56997 01/06/12	नदीपार स्टेशन नई बस्ती मौरानीपुर झांसी
183348	आशीष कुमार मिश्र कृष्ण कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2009	56906 19/04/12	ग्राम तिलनापुर गाजीपुर रोड़ पो.ऑ. सारनाथ वाराणसी
183349	आशीष कुमार मिश्र वशिष्ठ मिश्र	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57024 14/06/12	मकान नं. ए-126 अवास विकास कॉलोनी महुआ बाग
183350	आशीष कुमार मिश्र छविनाथ मिश्र	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	56968 23/05/12	234, नरोत्तम नगर सिद्धोली सीतापुर
183351	आशीष कुमार सिंह विश्व नाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57490 10/09/12	सी. 1051/7, इन्द्र नगर लखनऊ

183352	आशीष कुमार सोनी ओम प्रकाश सोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57118 10/07/12	48, मऊथाना ललितपुर
183353	आशीष कुमार वर्मा बिंद्रा प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57967 12/03/13	532 ए/4के.एच/3 चौधरी टोला अलीगंज लखनऊ
183354	आशीष मलिक विजेंद्र सिंह मलिक	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57176 26/07/12	ग्राम और डाकघर बसेदा (रानिका) मुजफ्फर नगर
183355	आशीष प्रताप सिंह चन्द्र वीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56913 23/04/12	ग्राम और डाकघर नगला राम सुन्दर जसवंत नगर इटावा
183356	आशीष शुक्ला अश्वनी कुमार शुक्ला	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57920 05/03/13	बी. 768, एम.आइ.जी अवास विकास हंसापुरम, नौबसता कानपुर
183357	आशीष तिवारी बृज मोहन तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57872 04/02/13	ग्राम और डाकघर सैरामायू दक्षिणी शाहजहांपुर
183358	अशोक कुमार राजेन्द्र राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57233 13/08/12	ग्राम सरफुद्दीनपुर पो.ऑ. खोरीपाकर बलिया
183359	अशोक कुमार कुशवाहा बंशी प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57137 16/07/12	ग्राम तरैया बैकुंठ तमकुही राज खुशी नगर
183360	अशोक कुमार संतोष कुमार	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2012	57805 19/12/12	ग्राम अजरोई पो.ऑ. कन्या गुरुकुल हाथरस
183361	अशोक कुमार राय क्षीतीश चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2012	57832 09/01/13	ग्राम और डाकघर जखलोन ललितपुर
183362	अशोक कुमार सिंह कन्हैया लाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	57640 28/09/12	ग्राम जलिलपुर पो.ऑ. कुष्ठ सेवा आश्रम पड़ाव चन्दौली
183363	आशू बंसल लखी चन्द्र बंसल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57579 18/09/12	सी10/1, यमुना विहार दिल्ली
183364	आशुतोष धर दुबे सुरेश प्रसाद दुबे	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57373 28/08/12	ग्राम होरिलापुर पो.ऑ. गोरी बधाई पुरवा सिसवा बाजार महाराज गंज
183365	आशुतोष कुमार मिश्र राम लखन मिश्र	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57337 27/08/12	195/1, पीताम्बर नगर तेलियारगंज इलाहाबाद



183366	आशुतोष कुमार गुप्ता अवधेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57148 18/07/12	मोहल्ला सिद्धेश्वरी नगर पो.ऑ. तेतरी बाजार सिद्धार्थ नगर
183367	आशुतोष कुमार पटेल राम अवधेश पटेल	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57542 12/09/12	पटेल मेडिकल स्टोर अस्पताल रोड़ सिसवा बाजार महाराज गंज
183368	आशुतोष कुमार राय गंगा प्रसाद राय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	56929 02/05/12	ग्राम मोयुना पो.ऑ. दुर्वाशा थाना फूलपुर आजमगढ़
183369	आशुतोष कुमार राय दया शंकर राय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57774 03/12/12	ग्राम और डाकघर गौरा थाना रामपुर कारखना देवरिया
183370	आशुतोष मिश्र गुलाब चन्द्र मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57227 13/08/12	ग्राम परवा पो.ऑ. मदरा मुकुन्दपुर इलाहाबाद
183371	आशुतोष पाण्डेय रूप नारायण पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56890 13/04/12	ग्राम और डाकघर सुखी बजगढ़ जामो सुल्तानपुर
183372	आशुतोष शुक्ल विरिजा प्रसाद शुक्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57041 22/06/12	मकान नं. 732/1, गायत्री कुंज सिविल लाइन 1 सुल्तानपुर
183373	आशुतोष विश्वकर्मा ओ.पी. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2012	57829 07/01/13	ग्राम और डाकघर चौबेपुर कानपुर
183374	अश्वनी कुमार सुभाष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2009	56995 01/06/12	मोहल्ला अफगानां कस्बा नाकुद सहारनपुर
183375	अश्वनी कुमार कैलाश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57208 06/08/12	ग्राम और डाकघर साकीपुर ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद
183376	अश्वनी कुमारी अजित सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2010	57684 08/10/12	ग्राम रेदीमलाकपुर पो.ऑ. सहारनपुर
183377	अश्वनी सिंह विजय प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57474 06/09/12	तारापुर कॉलोनी जौनपुर
183378	अश्वनी कुमार पाण्डेय हरिहर पी. पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57222 09/08/12	95 121 ए/1, न्यू कॉलोनी सोहाबातिया बाग इलाहाबाद
183379	अश्वनी कुमार सिंह सुभाष सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57396 30/08/12	ग्राम भिखारीपुर पो.ऑ. डी.एल.इब्ल्यू वाराणसी

183380	अतहर हुसैन अंसारी इंतजार अली	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56886 11/04/12	सुल्तान आजमपुर बानी गणेश पो.ऑ. हरगनपुर नगीना बिजनौर
183381	अतिउर रहमान सिद्धीकी फैजुर रहमान सिद्धीकी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57002 05/06/12	ग्राम और डाकघर धनेवा धनेई महाराज गंज
183382	अतुल अग्रवाल गोवर्द्धन अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57962 12/03/13	गणेश किराना स्टोर नसिराबाद रोड़, जयास रायबरेली
183383	अतुल चौधरी शिव सेवक चौधरी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57345 28/08/12	ग्राम जालौन खुर्द पो.ऑ. शेखपुर अहिर जालौन
183384	अतुल उपाध्याय राजेन्द्र एन. उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	57655 01/10/12	57, लक्ष्मी निवास न्यू चोगरजी इटावा
183385	अविनाश चौधरी कै.एस. चौधरी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57869 01/02/13	फ्लैट नं. 12315, सैक्टर 29 जी.बी नगर नोएडा
183386	अविनाश कुमार तिवारी रमेश कुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56897 17/04/12	ग्राम और डाकघर कुरेभर सुल्तानपुर
183387	अविनाश कुमार यादव पारस नाथ यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57661 03/10/12	शिव मेडिकल स्टोर स्टेशन रोड़, भदोही
183388	अविनाश तिवारी शशि कान्त तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2012	57816 26/12/12	4, तलियापुरा ललितपुर
183389	अवलोक कुमार सिंह राज बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57770 03/12/12	ग्राम मुझा कलां पो.ऑ. पुरानपुर पीलीभीत
183390	अवनिन्द्र अवस्थी संजय अवस्थी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57901 25/02/13	319 बी, हमीरपुर रोड़ नौबस्ता कानपुर
183391	अवनिश कुमार किशोन सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57500 10/09/12	ग्राम दोहरी पो.ऑ. शिवपुर तहसील चुनार मिर्जापुर
183392	अवनिश कुमार राजेश्वर प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57882 14/02/13	ग्राम संदाहा मजगावन पो.ऑ. मजगावन अलापुर अम्बेडकर नगर
183393	अवनिश कुमार राय रमेश राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	56973 24/05/12	ग्राम आर्या पो.ऑ. नसिरुद्दीनपुर आजमगढ़

183394	अवनिश कुमार सिंह झुल्लुर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	56932 02/05/12	रैनागर पो.ऑ. एवं थाना कादिपुर सुल्तानपुर
183395	अवनिश पाण्डेय कन्हैया लाल पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57335 27/08/12	भूषण भवन टन्दनपुरी कॉलोनी बथुआ मिर्जापुर
183396	अवनिश शुक्ल जगदेव शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57513 11/09/12	8/4/176, शिल भवन झारखंडी, धनीराम का पुरवा फैजाबाद
183397	अजिम कुमार बालिक राम सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57471 05/09/12	ग्राम और डाकघर वैना अलीगढ़
183398	बलदेव सिंह सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57014 07/06/12	एकताधपुरा गोंडा अलीगढ़
183399	बलवीर सिंह राम सुमन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57369 28/08/12	मकान नं. सी 667, श्रीनगर सिविल लाईन्स देवा रोड़ बाराबांकी
183400	बलवीर सिंह राजपूत शंकर लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57593 20/09/12	ग्राम नगला तेजा पो.ऑ. रिटोरी कटरा खेरा गढ़ आगरा
183401	बनवारी लाल विश्वकर्मा कृष्ण के. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57038 22/06/12	ग्राम और डाकघर बधया बुजुर्ग साधु टोला देवरिया
183402	भानू प्रकाश सिंह जय प्रकाश एन. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57298 22/08/12	विंध्या वासिनी कॉलोनी भारूहाना रोड़ मिर्जापुर
183403	भानू प्रताप कटियार महेन्द्र के. कटियार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57787 11/12/12	2-बी-सी/40, अवास विकास फारूखाबाद
183404	भारत भूषण प्रहलाद सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57417 31/08/12	जी 493 गोविंदपुरम गाजियाबाद
183405	भारत लाल यादव बीरबल यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56876 02/04/12	ग्राम चकरबियां पो.ऑ. मड़ीयाहँ जौनपुर
183406	भूपेन्द्र कुमार चौधरी विनोद कुमार चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	56965 22/05/12	112बी/18के, ईमाम नगर फुलवारिया रोड़, दारागंज इलाहाबाद
183407	भूपेन्द्र सिंह प्रदीप कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2012	57978 15/03/13	मकान नं. 220, 14/4, विकास नगर नीमघ कैन्ट मध्य प्रदेश

183408	भूपेश कुमार यादव राम यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57237 27/08/12	ग्राम उन्वानी खुर्द पो.ऑ. रामदयाल गंज जौनपुर
183409	बिंरेश कुमार आशा राम	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57686 08/10/12	ग्राम भोजपुर पो.ऑ. जंजालपुर बिजनौर
183410	बिसलेश कुमार राजपूत रामलाल	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57066 28/06/12	किला मोहामदी नगर पो.ऑ. भदरूख थाना आशियाना लखनऊ
183411	ब्रिजेन्द्र पाल सिंह संतराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56892 16/04/12	500/3, दतिया गेट बाहर पथौरिया झांसी
183412	बृजेन्द्र उपाध्याय कौशल के. उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	57746 09/11/12	मकान नं. 617, सिया हाऊस नई बस्ती, गांधी नगर ललितपुर
183413	बृजमोहन राजपूत हरिराम राजपूत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57257 14/08/12	ग्राम रिवारिया पो.ऑ. वीरगोन थाना बड़गांव झांसी
183414	चंचल अग्निहोत्री महेश सी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	57702 11/10/12	32, सुरेश शर्मा नगर नवादा, जोगयान बरेली
183415	चन्द्र चूड़ मिश्र विनोद कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57229 13/08/12	ग्राम अवरोध पो.ऑ. कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़
183416	चन्द्रहास मिश्र लालमणि मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57833 09/01/13	मकान नं. 4, गली नं.5 दुकना मोड़, गाजियाबाद
183417	चन्द्र सिंह ई. प्रवीण कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57453 04/09/12	नेरिपचवान अदलहात मिर्जापुर
183418	चारु गाबा तरुण गाबा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 2002	57679 05/10/12	मकान नं. 1083 सैक्टर 69 मोहाली पंजाब
183419	चारु यादव ऋषि प्रकाश यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57356 28/08/12	ग्राम एन. गढ़ पो.ऑ. नानामऊ कुरावली मेनपुरी
183420	चेतन शर्मा विनोद कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2007	57250 13/08/12	जी11ए, सैक्टर 9 विजय नगर गाजियाबाद
183421	चेतना बृज भूषण गौड़	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2011	57998 22/03/12	मकान नं. 529/2, मोहल्ला कल्याण सिंह, मवाना मेरठ

183422	चेतना चौधरी सचिन चौधरी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57809 20/12/12	मकान नं. 188, कोटला ए तहसील चांदपुर बिजनौर
183423	छवि यादव आशुतोष यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57504 10/09/12	बी. 38/62 मेहमूर गंज वाराणसी
183424	छाया योगेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57569 18/09/12	ग्राम मुबारकपुर मंसूरपुर मुजफ्फर नगर
183425	चौधरी संदीप सिंह दलवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57613 25/09/12	ग्राम दीवाना कलां पो.ऑ. सिरिया की नगरिया मथुरा
183426	दयावती प्रेम बिहारी सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56946 11/05/12	566, ग्राम पोरा, पो.ऑ. बोरी महामाया नगर हाथरस
183427	दीपक चौधरी राजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57114 09/07/12	ग्राम इलाहपुर पट्ट जाट पो.ऑ. ताड़ा अफजल मुरादाबाद
183428	देश दीपक गौड़ दीन दयाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57501 10/09/12	चीफ पोस्ट ऑफिस के पास सिविल लाईन्स, साउथ पीलीभीत
183429	देव दत्त मिश्र वासुदेव मिश्र	बी.ए.एम.एस. बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1989	57042 27/06/12	ग्राम सहजोर पो.ऑ. मुगलसराय चन्दौली
183430	देवेन्द्र सुखवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57380 22/08/12	ई-1/173, उत्तरांचल कॉलोनी लोनी गाजियाबाद
183431	देवेन्द्र कुमार राम प्रकाश जाटव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57336 27/08/12	ग्राम छोलापुर पो.ऑ. जालौन जालौन
183432	देवेन्द्र कुमार यादव दीनानाथ यादव	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57199 03/08/12	ग्राम और डाकघर अंजीरपुर बलिया
183433	देवेन्द्र सिंह जसवंत सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57000 05/06/12	ग्राम और डाकघर पीपलीनायक टाण्डा बादली रामपुर
183434	देवेश शुक्ल राजेश कुमार शुक्ल	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	57646 14/02/13	मकान नं. 208, ऊंचा थोक हरदोई
183435	देवराज पटेल किशोर कुमार	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57949 12/03/13	मकान नं. 438/2, बिछड़ी अलीनगर मुगलचक, मुगलसराय चन्दौली

183436	धनंजय कुमार बारी रामायण कुमार बारी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57159 23/07/12	ग्राम कौंदी, बरियापुर पो.ऑ. तमकुही राज खुशी नगर
183437	धर्मेन्द्र नारायण सिंह संत बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57274 16/08/12	176, चंगेरी ए पो.ऑ. चंगेरी थाना उमरी बेगमगंज गोंडा
183438	धर्मेन्द्र चेतराम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57926 07/03/13	पो.ऑ. बलोनी बागपत
183439	धर्मेन्द्र कुमार राजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57656 01/10/12	ग्राम हैजराबाद तहसील नगीना बिजनौर
183440	धर्मेन्द्र कुमार वर्मा चुन्नी लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57074 29/06/12	टाऊन एरिया जांगीपुर पो.ऑ. जांगीपुर गाजीपुर
183441	धर्मेन्द्र सरोज फूल चन्द्र राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57438 03/09/12	ग्राम बस्ती पो.ऑ. रानी की सराय आजमगढ़
183442	धिरेन्द्र कुमार मिश्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57688 08/10/12	मिश्र मेडिकल स्टोर कौंधियारी जरी बाजार इलाहाबाद
183443	धिरेन्द्र कुमार द्विवेदी हरि मोहन द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57782 07/12/12	ग्राम और डाकघर जैतपुर तहसील कुलपहाड़ महौबा
183444	धिरेन्द्र सिंह राजेन्द्र बी. सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57059 28/06/12	मकान नं. 837, राजेन्द्र नगर ऊर्ई जालौन
183445	ध्रुव शंकर यादव श्यामलाल यादव	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57121 13/07/12	ग्राम फुलवारी खुर्द पो.ऑ. होलीपुर सादीपुर गाजीपुर
183446	दिग्विजय सिंह पुष्पेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57778 04/12/12	ग्राम पथकारका पो.ऑ. बंगरा, तहसील मौरानीपुर झांसी
183447	दिक्षा तिवारी राज नारायण तिवारी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57857 28/01/13	मकान नं. 106, मिरखपुर कस्बा बिंदकी फतेहपुर
183448	दिलीप कुमार यादव राम राज यादव	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57988 18/03/13	63/1के/6सी, शिव कुटी पो.ऑ. तेलियार गंज इलाहाबाद
183449	दिलनवाब अहमद शाह अब्दुल वहाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57755 21/11/12	मकान नं. 536/2/64, न्यू मेदरा गंज खदरा लखनऊ

183450	दिलशाद अली अबाद अली	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57865 30/01/13	ग्राम रामपुर कुर्मीपन पो.ऑ. ताला बाजार प्रतापगढ़
183451	दिनेश कुमार सत्य नारायण	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57348 28/08/12	ग्राम सदुल्लापुर पो.ऑ. दोड़ी जौनपुर
183452	दिनेश कुमार भारद्वाज जगदीश प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1980	57557 17/09/12	नया शिवाजी रोड नगर निगम मेरठ मेरठ
183453	दिनेश कुमार यादव सूर्यभान यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57084 02/07/12	538के/180, सैन्ट्रल बैंक के पीछे त्रिवेणी नगर 2, लखनऊ
183454	दिनेश राम रामफल राम	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57830 07/01/13	बी. 1/13, अस्सी पी/एस लंका वाराणसी
183455	दीपक चौहान राम पूजन चौहान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	57610 24/09/12	ग्राम सुरही बुजुर्ग पो.ऑ. सरायमीर आजमगढ़
183456	दीपक कुमार प्रेम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57405 31/08/12	ग्राम और डाकघर मठिया श्रीराम वाया तरया सुजान खुशी नगर
183457	दीपक कुमार कुशावाहा सत्य एन. कुशावाहा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57531 12/09/12	ग्राम माठिया भोकारिया थाना सेवराही एवं धरमपुर पर्वत खुशी नगर
183458	दीपक कुमार सिंह त्रिभुवन नाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57523 11/09/12	ग्राम बरेन्दा थाना मरदाह मऊ
183459	दिपांजलि गुप्ता शिव मूर्ति गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57076 29/06/12	मध्य अचकावापुर आदर्श विद्या मन्दिर के पास संत कबीर नगर
183460	दिपांकर मण्डल भारतोष मण्डल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57193 31/07/12	ग्राम चांदिया हजारा बंगाली कॉलोनी पुरनपुर पीलीभीत
183461	दीपिका शर्मा योगेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57643 28/09/12	ग्राम और डाकघर निमका जेवर गौतम बुद्ध नगर
183462	दीप्ति कौशल राजेश कुमार आर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57505 10/09/12	बर्तन विक्रेता चौक बाजार शोहरत गढ़ सिद्धार्थ नगर
183463	दीप्ति सिंह रामकुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57958 12/03/13	खुशहाल नगर सैक्टर ए प्लॉट नं. 817, पो.ऑ. लमही वाराणसी

183464	दीप्ति सिन्हा अजय कुमार विस्वास	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57142 17/07/12	मोहल्ला झासपुर थाना रोड बिसलपुर पीलीभीत
183465	दिव्या सिंह अमित किशोर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57634 27/09/12	प्लॉट नं. 221, साकेत नगर कॉलोनी संकट मोचन वाराणसी
183466	दिव्या वर्मा अमित चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57925 07/03/13	मकान नं. 1922, बंजारन 2 नुकुड़ सहारनपुर
183467	दिव्या वर्मा बाबूराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57110 09/07/12	ग्राम मलेथु, इमामपुर पो.ऑ. चानईपुर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर
183468	दिव्याभ ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57870 01/02/13	एस 5/176, पी3, चित्रगुप्त नगर रामरेपुर पहाड़िया वाराणसी
183469	दृष्टि जयसवार संत लाल जयसवार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57328 27/08/12	2सी/59, सौराष्ट्र सदन एम.आइ.जी सैक्टर 2 वृन्दावन कॉलोनी लखनऊ
183470	दुर्गा प्रसाद सिंह शिव कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57101 05/07/12	मकान नं. 180 गॉव इरनी थाना बरदाह आजमगढ़
183471	दुर्गेश कुमार मिश्र महेश प्रसाद मिश्र	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57174 26/07/12	रेलवे क्रॉसिंग के पास टोला बाँके बाराबंकी
183472	दुर्गेश नन्दिनी सोरान सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57831 08/01/13	64 के, मोहल्ला धनपाल काशीराम नगर फिरोजाबाद
183473	दुर्गेश सिंह रणजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	57647 01/10/12	ग्राम और डाकघर महेनगर आजमगढ़
183474	एसरार अहमद हकीम शाई	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2010	57601 21/09/12	ग्राम रामपुर लिटिहा पो.ऑ. भटपार रानी वार्ड नं. 2 देवरिया
183475	गगन दीप सिंह दिलिप सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57262 16/08/12	ग्राम सालावट नगर पो.ऑ. मेलानी लखीमपुर खीरी
183476	गजेन्द्र सिंह खमानी सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57175 26/07/12	बी-7/59 सैक्टर 5 रोहिणी दिल्ली
183477	गरिमा गौतम सुधीर गौतम	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2008	57201 03/08/12	एस 5/40, एस 5 संजय नगर पहाड़िया पाण्डेपुर वाराणसी
183478	गरिमा निरवान रनपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57596 21/09/12	903, मोहल्ला काबली गेट मवाना कलॉ मेरठ



183479	गौरव चौधरी मेहर सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57581 19/09/12	मकान नं. ई 252, गली नं. 6 प्रेम नगर लाईन पार मुरादाबाद
183480	गौरव दीक्षित राममूर्ति दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57368 28/08/12	ग्राम और डाकघर सिधनापुर सीतापुर
183481	गौरव गर्ग राकेश गर्ग	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2012	57863 30/01/12	गॉधी रोड़ बागपत
183482	गौरव गोयल अशोक कुमार गोयल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56900 17/04/12	मोहल्ला पंसारियान जलेसर ईटाह
183483	गौरव गुप्ता अनिल कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57361 28/08/12	417, गुप्ता मेड़ि स्टोर ककरतला नवलपुरा खुर्जा बुलंदशहर
183484	गौरव जैन योगेश चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57091 04/07/12	छोटा बाजार भोगाँव मेनपुरी
183485	गौरव कुमार शर्मा राजेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57498 10/09/12	ग्राम और डाकघर कमल नयनपुर कोट्ट शाहजहांपुर
183486	गौरव कुमार कत्यायन रामलखन अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2005	57810 31/12/12	हरदोई रोड़ सयावाजपुर हरदोई
183487	गौरव शर्मा राजनाथ शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2009	56911 20/04/12	199, ग्राम झंझोली महमूदपुर, पो.ऑ. सहारनपुर
183488	गौरव शर्मा बंगाली बाबू शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57615 25/09/12	जी 3, बाँदारी बाँईपास के पास चौराहा आगरा
183489	गौरव शर्मा प्रदीप कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57251 13/08/12	वस्ती गजरोला ज्योतिबा फूले नगर
183490	गौरव सिंह सिसोदिया राधे एस. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56953 17/05/12	क्वार्टर नं. ए 5, वी.एच.ई.एल. कॉलोनी झांसी
183491	गौरव सिंह यादव सूरज सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57475 06/09/12	ग्राम हरदुआ पो.ऑ. जखोली जालौन
183492	गौरव त्रिपाठी अशोक कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57297 22/08/12	कुमार मेड़िकल स्टोर खुटार शाहजहां पुर
183493	गौरव वैश्य महेश प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57709 12/10/12	मकान नं. 187 मोहल्ला मिश्राना लखीमपुर खीरी

183494	घनश्याम मिश्र जयदेव मिश्र	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	57725 26/10/12	ग्राम सिहोरा पो.ऑ. बेनिगौरा आजमगढ़
183495	गिरिश चन्द्र पाल अमृत लाल पाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57408 31/08/12	ग्राम और डाकघर पीपलगाँव इलाहाबाद
183496	गिरिश कुमार मिश्र गिरजा शंकर मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56979 29/05/12	ग्राम पंडितपुर हरिनाहपुर पो.ऑ. रानीगंज प्रतापगढ़
183497	गीता सिंह निशान सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57651 01/10/12	मकान नं. 6, जवाहर नगर गजरोला, अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर
183498	गितिमा शुक्ल गणेश प्रसाद शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57585 19/09/12	ग्राम और डाकघर बरवालिया लखनऊ
183499	गोपाल जी मिश्र रामसेवक मिश्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57087 03/07/12	मकान नं. 523, 1डी-4के तेलवारिया चौकाघाट थाना जैतपुरा वाराणसी
183500	गोपाल सिंह भादौरिया झब्बू एस. भादौरिया	आयुर्वेद भिषक निखिल भारतवर्षीय आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1969	57866 30/01/13	675 ए, थाना विधणु कुंज विहार, कानपुर
183501	गौर दत्त मिश्र गोविन्द मिश्र	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57964 12/03/13	ग्राम और डाकघर बारीगंज तखवा बाजार थाना सिकरीगंज गोरखपुर
183502	गौरव आर्या आनन्द स्वरूप	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57877 07/02/13	मोहल्ला इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी शाहबाद रोड़, चक्की के पास बुद्धराज रामपुर
183503	गोविन्द राय शम्भू नाथ राय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2009	57735 05/11/12	ग्राम और डाकघर गोपालपुर अनुमण्डल गोपालगंज, गोपालगंज विहार लखनऊ
183504	गुलाब चन्द्र त्रिलोकी गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57062 28/06/12	ग्राम और डाकघर सारावन सुल्तानपुर
183505	गुंजन अग्रवाल नवीन अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57200 03/08/12	मोहल्ला महल कुमेदन नाग मन्दिर के पास रामपुर
183506	ज्ञान प्रकाश सोनी पन्ना लाल सोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57636 27/09/12	बी3/17, वर्ल्ड बैंक कॉलोनी नैनी इलाहाबाद
183507	ज्ञान शंकर जिया राम	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57056 28/06/12	ग्राम और डाकघर वीरभान पुर राजतलाब वाराणसी

183508	हफीज अहमद जहीर अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57854 28/01/13	50, सराय थाक पूर्वी भाग 5 मोहल्ला मोमिनाबाद हरदोई
183509	हनुमंत लाल मिश्र सिद्धनाथ मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57555 13/09/12	ग्राम गहरोला पो.ऑ. ऊतरोला बलरामपुर
183510	हनुमंत शरण सिंह शोभा सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57145 17/07/12	ग्राम कतार पो.ऑ. चेतिया मुरार थाना गिरलोला शरावस्ती
183511	हरि कृष्ण दुबे लज्जा राम दुबे	जी.ए.एम.एस. स्टेट फ़ैक. आफ आयु. एण्ड यूनानी मेडि., पटना बिहार 1998	57738 07/11/12	अराजी नं. 1700, सुखदेव प्रसाद के पास प्रेम नगर कानपुर
183512	हरि मोहन शिव प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2012	57910 01/03/13	मोहल्ला तिहार थाना विवर हमीरपुर
183513	हरि शंकर यादव पंचु राम यादव	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57991 18/03/13	गणेशीपुरा वमानिया तारा दमदमा, हांडिया इलाहाबाद
183514	हरिनिवास रामप्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56884 10/04/12	ग्राम और डाकघर देहगावन सहसवान बदायूं
183515	हरिश चन्द्र पाण्डेय हीरा प्रसाद पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57131 13/07/12	ग्राम कोटिया पाण्डेय पो.ऑ. कुदजा सिद्धार्थ नगर
183516	हरिश कुमार शर्मा माणिक चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57600 21/09/12	रामलीला मैदान ग्राम और डाकघर शेरगढ़ मथुरा
183517	हरिश कुमार राजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57079 29/06/12	ग्राम और डाकघर चंदक बिजनौर
183518	हर्ष कमल किशोर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57687 08/10/12	मकान नं. 2/1406/90ई नवीन नगर सहारनपुर
183519	हर्ष प्रकाश ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57550 13/09/12	द्वारा डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक पो.ऑ. मारकिनगंज मिर्जापुर
183520	हसन अशरफ एहतेशाम सिद्धीकी	बी.ए.एम.एस. नोर्थ उड़ीसा वि.वि., बारीपाड़ा 2011	57077 29/06/12	सी 19/1 जी.सी-3-1 लालापुरा वाराणसी
183521	हसन नवाज शमशीर हसन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57552 13/09/12	मोहल्ला उस्मानपुर पो.ऑ. जलालपुर अम्बेडकर नगर

183522	हिमानी वर्मा प्रेम प्रकाश वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57310 23/08/12	बी 115, गंगा धाम गंगा नगर मवाना रोड़ मेरठ
183523	हिमांशु राज चौहान हरिराज सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57776 04/12/12	हुकमतपुर रोड़ मोहल्ला शाहिद नगर नूरपुर बिजनौर
183524	हिमांशु सक्सेना राजीव सक्सेना	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57720 19/10/12	जोहरी क्लिनिक, ब्लॉक के पास बिलसंदा पीलीभीत
183525	हितेन्द्र पुरोहित जुगल किशोर पुरोहित	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2009	57744 09/11/12	गोविन्द गंज पत्तापुरा दातिया ललितपुर
183526	हनी भारद्वाज जितेन्द्र के. भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57856 28/01/12	एम.आइ.जी. 50, बदा ए.डी. ए. कॉलोनी विकास नगर अलीगढ़
183527	ईतेफात अहमद खान इम्तियाज खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57188 30/07/12	107, कजियाना फतेहपुर
183528	इन्द्रजीत वर्मा सती राम वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57265 16/08/12	ग्राम सददीपुर पो.ऑ. मुबारकपुर टांडा अम्बेडकर नगर
183529	इन्द्र मोहन सिंह बृज मोहन	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2010	56878 04/04/12	मकान नं. 59 धोकारन टोला इटावा
183530	इन्देश कुमार बलराम अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57757 22/11/12	ग्राम दहलिया पो.ऑ. गांधी फारूखाबाद
183531	इन्दू भारद्वाज ज्ञान प्रकाश भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57267 16/08/12	मोहल्ला पूर्वी लखपेड़ा पो.ऑ. मोहम्मदी लखीमपुर खीरी
183532	इन्दू कुमारी जगदीश प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56945 11/05/12	मकान नं. 12, ग्राम अजनोथ थाना नोहझील मथुरा
183533	इन्दू शेखर सिन्हा नेमिश कुमार सिन्हा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57543 12/09/12	नेमिश सदन बहादुर नगर लखीमपुर खीरी
183534	इन्दू त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57275 16/08/12	117/एन./99 नगर, काकादेव कानपुर
183535	इरशाद अहमद सिद्धीकी गुलाम वारिस सिद्धीकी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57806 20/12/12	ग्राम असाधा पो.ऑ. बैशाकोटी कौशाम्बी

183536	इशितयाक अहमद अदालत हुसैन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57237 13/08/12	ग्राम पोखरभिंदा पो.ऑ. जोरा बाजार खुशी नगर
183537	इश्मत रेहाना मोहम्मद अबिद एहसान	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57151 19/07/12	200, गंम मोहल्ला अवास विकास गोरखपुर सदर लखनऊ
183538	जय कृष्ण पाण्डेय रतीश चन्द्र पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2005	56923 01/05/12	ग्राम धेलगढ़वा पो.ऑ. बेलवा बधयानाला बस्ती
183539	जय प्रकाश सुद्विराज	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57224 13/08/12	मेघपुर पुरेवाम जलालपुर जौनपुर
183540	जय प्रकाश वर्मा तिरथ राज वर्मा	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2010	57518 11/09/12	10के, मोहल्ला मझगावा ग्राम अनापुर जौनपुर
183541	जय प्रकाश यादव सत्य नारायण यादव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57220 09/08/12	ग्राम चाकलुत्ती पो.ऑ. दशरथपुर संत रविदास नगर
183542	जय वर्द्धन कृष्णानन्द सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57657 01/10/12	ग्राम सिकिया पो.ऑ. नारायणपुर मिर्जापुर
183543	जयबीर सिंह अत्तर सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2001	57648 01/10/12	टी 3/23, शाहिबाबाद दौलतपुर दिल्ली
183544	जन्मेजय शाक्य महेन्द्र शाक्य	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2011	57826 01/01/13	216/22बी, ग्राम रितोर पो.ऑ. विथोली इटाहा
183545	जसवीर सिंह सोलंकी देवेन्द्र सिंह सोलंकी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57279 21/08/12	ग्राम और डाकघर कागारौल, बांदा थोक आगरा
183546	जया सिंह जय चन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57578 18/09/12	हनुमान कॉलोनी सुफीपुरा बहराईच
183547	जयन्ती आर्या दिलिप कुमार	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	57994 21/03/13	राजेन्द्र नगर ऊरई जालौन
183548	जितेन्द्र गुप्ता योगेन्द्र नाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57189 30/07/12	कृष्ण नगर बहुआ थाना लालौली फतेहपुर
183549	जितेन्द्र कुमार राजबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57517 11/09/12	218, पुरानी गुड़ मण्डी के पीछे मुराद नगर ाजियाबाद
183550	जितेन्द्र कुमार नरेश कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57340 28/08/12	मकान नं. 80, अवास वकास कॉलोनी शिव मंदिर के पास शाहजहां पुर

183551	जितेन्द्र कुमार निरंजन जगदीश सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57259 16/08/12	ग्राम और डाकघर बिरगुवन बुजुर्ग वैरागढ़ इटा जालौन
183552	जितेन्द्र कुमार चौबे देव प्रसन्न चौबे	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2007	57580 19/09/12	ग्राम हरिहर रिहरा पो.ऑ. कोचस, रोहतास
183553	जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव हरि एस.पी. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57916 05/03/13	पश्चिम दहियावन छपरा बिहार
183554	जितेन्द्र कुमार कमला प्रसाद मौर्या	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56990 31/05/12	ग्राम और डाकघर पकौली बाजार थाना जैतपुर सिद्धार्थ नगर
183555	जितेन्द्र कुमार राम कैवल द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57437 03/09/12	ग्राम मदनपुर पनियार पो.ऑ. शाहपुर हरिवंश लम्बुवा सुल्तानपुर
183556	जितेन्द्र कुमार बाबूराम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57271 16/08/12	103, अम्बिकापुरम आनन्द नगर सीतापुर
183557	जितेन्द्र कुमार वर्मा जगदीश प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57016 07/06/12	ग्राम राजापुर मण्डी गेट के सामने पो.ऑ. लखीमपुर खीरी
183558	जितेन्द्र कुमार निर्मल नन्द किशोर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57248 13/08/12	साकेत नगर लालगंज रायबरेली
183559	जितेन्द्र शुक्ल गुलाबधर शुक्ल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57538 12/09/12	ग्राम बसहारा पो.ऑ. सोतीपुर जौनपुर
183560	ज्योति विनोद कुमार	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57928 11/03/13	ग्राम गंगाधारी पो.ऑ. खतौली मुजफ्फर नगर
183561	ज्योति आशीष कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2009	57097 04/07/12	112 ए, मोहल्ला चौकगली शिकारपुर बुलंदशहर
183562	ज्योति मौर्या महेन्द्र के. मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57708 12/10/12	मकान नं. 47, फतेहनूरपुर थाना हंसवार अम्बेडकर नगर
183563	कैलाश प्रसाद यादव राम नवल यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57102 05/07/12	ग्राम और डाकघर बारामदपुर जरियारी अम्बेडकर नगर
183564	काकुली राय तारक नाथ राय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57898 22/02/13	बी-4/11, रेल विहार इन्द्रापुरम गाजियाबाद

183565	कल्पना शिशोदिया सुवीर सिंह शिशोदिया	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57927 11/03/13	390 के, मुलहेड़ा सरधाना मेरठ
183566	कमल चन्द गुप्ता तुलसी राम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57135 16/07/12	ग्राम और डाकघर सहसन इलाहाबाद
183567	कमल किशोर सिंह जगन्नाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56881 04/04/12	ग्राम मिशरौली कुर्मी टोला पो.ऑ. बंकुल देवरिया
183568	कमल कुमार सरकार शंकर कुमार सरकार	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57090 03/07/12	मकान नं. 20, नगला कारा सिंह कोटला रोड़ फिरोजाबाद
183569	कमलदीप जायवाल राजेन्द्र पी. जायवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57344 28/08/12	65 ए, अगा कॉलोनी सिविल लाइन्स सीतापुर
183570	कमलेन्द्र सिंह राम सिंह शाक्य	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56957 18/05/12	मोहल्ला इन्द्रा नगर अस्पताल रोड़ छिबरामऊ कन्नौज
183571	कमलेश कुमार यादव विग्गू सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57719 18/10/12	ग्राम सूजाबाद, पो.ऑ. कुष्ट पादव थाना रामनगर वाराणसी
183572	कंचन अग्रवाल मथुरा पी. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57512 11/09/12	मकान नं. 449-ए, नारायणपुरी धौली प्याऊ मथुरा
183573	केशरी नन्दन शुक्ल श्रीदत्त शुक्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	57256 14/08/12	ग्राम शुक्लपुरा पो.ऑ. महुई थाना सिकरीगंज गोरखपुर
183574	खुशबू नुरुद्दीन	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2012	57899 25/02/13	मोहल्ला गोपाल गंज कस्बा मौरानीपुर झांसी
183575	किरण गुप्ता प्रकाश एन. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2012	57851 23/01/13	159, सिविल लाइन ललितपुर
183576	किरण सिंह समर बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57399 30/08/12	किरण पोली चिकित्सालय सरोखानपुर बदलापुर जौनपुर
183577	कीर्तिदेव गौतम रामतिरथ गौतम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57332 27/08/12	ग्राम धनिया भिती पो.ऑ. परसरामपुर बस्ती
183578	कृतिका जायवाल जगदीश प्रसाद जायवाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57957 12/03/13	181/490 ए, कच्ची सड़क फुलवरिया रोड़ इलाहाबाद

183579	कोमल चौधरी हितेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57192 31/07/12	मकान नं. 28, फेस 2 मयूर विहार ई ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ
183580	कौशलेन्द्र सिंह केशव दयाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57226 13/08/12	ग्राम किंदरपुरा पो.ऑ. होलीपुरा थोक बह आगरा
183581	कौशलेश पाण्डेय कृष्ण देव पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57207 06/08/12	मकान नं. 153, उमंग पार्ट II, महानगर बरेली
183582	कृष्ण देव जिन्दल बी.एस. जिन्दल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57742 09/11/12	जिन्दल हाऊस, मण्डी धनौरा अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर
183583	कृष्ण गोपाल रुद्र प्रताप	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57970 12/03/13	ग्राम नियामतपुर कलां पो.ऑ. पुरशोत्तम पुर मिर्जापुर
183584	कृष्ण कुमार जगदीश सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57280 21/08/12	ग्राम भूपतिपुर पो.ऑ. जगीर मेनपुरी
183585	कृष्ण कुमार चौहान संकटा एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57395 30/08/12	ग्राम बेवता पो.ऑ. रायपुर गाजीपुर
183586	कृष्ण कुमार गुप्ता सुरेश प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57439 03/09/12	ग्राम नन्दपुर पो.ऑ. हल्दी बलिया
183587	कृष्ण पाल नागर सीताराम नागर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57172 26/07/12	ग्राम और डाकघर धुरत तेजपुरा मौरानीपुर झांसी
183588	कृति द्विवेदी हरेराम द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57071 28/06/12	11/98, विकास नगर लखनऊ
183589	कुलदीप कुमार भास्कर मनीराम भास्कर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57347 28/08/12	ग्राम गोरा पो.ऑ. चेररइया मजिथ जालोन
183590	कुलदीप पाण्डेय जगमोहन प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2005	57123 13/07/12	57, एम.आई.जी. इन्दिरा नगर बांदा
183591	कुमार अभिषेक शेषधर पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57731 01/11/12	मुह सुभाष नगर पो.ऑ. पुरानी नौगढ़ बाजार सिद्धार्थ नगर
183592	कृमुद प्रताप सिंह एम. सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57726 30/10/12	79, न्यू एम.आई.जी.बी बर्बा 2 कानपुर



183593	कुमुद उपाध्याय सुशान्त उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57317 24/08/12	ग्राम और डाकघर भीमापर नौगढ़ सिद्धार्थ नगर
183594	कुणाल साहू रामजी साहू	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57235 13/08/12	मकान नं. 389-जी, हरकोली कालोनी सिविल लाईन्स सीतापुर
183595	कंवर कौशल सिंह शिव शरण सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	56969 23/05/12	के. 225 ए, के.के. पुरी कॉलोनी अवास विकास झांसी
183596	कुसुम मौर्या श्याम सुन्दर मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57751 20/11/12	502 बी/1, प्रयागपुरा चकदौंदी नैनी इलाहाबाद
183597	ललित कुमार कृष्ण पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57216 08/08/12	ग्राम और डाकघर कछहौली, ब्लॉक चारथावल सदर मुजफ्फर नगर
183598	ललित कुमार घनश्याम सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57903 26/02/13	ग्राम और डाकघर मैनुपुरी शिवपुरी तहसील धामपुर बिजनौर
183599	ललित कुमार आर.सी. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57979 15/03/13	इब्राहिमपुर निलमाथा बाजार लखनऊ
183600	ललित मोहन शर्मा नरेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57210 07/08/12	ग्राम बिलासपुर पो.ऑ. दुधला नाकू कस्बा गंगोह सहारनपुर
183601	ललिता मिश्र निर्मल कुमार ओझा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2005	57918 05/03/13	पुरानी पुलिस लाइन के उत्तर सलीमपुर, छपरा सारण बिहार
183602	लता मिश्र ललित मोहन मिश्र	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2005	57020 07/06/12	43/47/96-97 राधा कॉलोनी सेकुंदेश आगरा
183603	लक्ष्मी दीक्षित वैभव दीक्षित	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57589 19/09/12	मोहल्ला जगत नगर भोगाँव मैनुपुरी
183604	लक्ष्मी सिंह कमलेश कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57315 23/08/12	8-13-8, कभाम सतराम विधि राजामुंद्री (मण्डल) ईस्ट, गोदावरी वाराणसी
183605	लोकेन्द्र सिंह रामवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57270 16/08/12	ग्राम और डाकघर कजरोथी महामाया नगर हाथरस
183606	लोकेश कुमार विजय चन्द	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57307 23/08/12	537 के.एच. 25/121, अम्बर विहार फैजुल्ला गंज सीतापुर रोड़ लखनऊ

183607	लक्ष्मी नारायण वैश्य केदारनाथ वैश्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57132 13/07/12	मोहल्ला दधवारा तिकौट नगर बाराबांकी
183608	लक्ष्मी सिंह रामलायक सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57217 09/08/12	स्वराज कॉलोनी जेल रोड़ लेन नं. 6 बाँदा
183609	मधुलिका तिवारी विजय शंकर तिवारी	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57952 12/03/13	एन. 16/55, सी.ए. कोलहुआ विनायक वाराणसी
183610	माधुरी लाल रामजी लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57807 20/12/12	ई.डबल्यू.एस-1/29-2, डबल स्टोरी प्रीतम नगर कॉलोनी इलाहाबाद
183611	महेन्द्र कुमार त्रिपाठी गुलाबराय त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57234 13/08/12	ग्राम लालता रोड़ पो.ऑ. मऊ चित्रकूट
183612	महेन्द्र प्रताप यादव श्याम लाल यादव	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57973 12/03/13	ग्राम और डाकघर ठाठरा, ब्लॉक सेवापुरी मिरजामुराद वाराणसी
183613	महेन्द्र प्रताप सिंह धनंजय कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57553 13/09/12	746, न्यू दिल्ली महुआरिया मिर्जापुर
183614	महेन्द्र विश्वकर्मा राजनथ विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	57044 27/06/12	ग्राम विरमानपुर पो.ऑ. मेहनगर आजमगढ़
183615	महेश कुमार परमेश्वरी प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57032 20/06/12	राजीव कॉलोनी प्राइमरी स्कूल पीलीभीत
183616	महिमा चौधरी देशराज सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57516 11/09/12	पुरानी पुलिस चौकी हरियाला सोनकपुर मुरादाबाद
183617	मालती शुक्ला अमित कुमार शुक्ला	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57699 11/10/12	मोहल्ला लीलाधर तहसील अलीगंज ईटा
183618	ममता लाल निशीकान्त लाल	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2007	57521 11/09/12	87/253, अचार्या नगर कानपुर सदर कानपुर
183619	ममता शुक्ल हरेन्द्र शुक्ल	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	56971 23/05/12	ए 79, कृष्ण विहार चिनहट लखनऊ
183620	मंगलेश कुमार मिश्र महेन्द्र मिश्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57103 05/07/12	ग्राम शेषपुर समोधा रायबरेली

183621	मनीष अग्रवाल पुरशोत्तम एल. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56933 03/05/12	आदर्श नगर राधा निवास वृंदावन मथुरा
183622	मनीष गुप्ता के.बी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	57703 11/10/12	बी 10/6751, देवनगर करोल बाग न्यू दिल्ली
183623	मनीष कुमार राजवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2009	57846 21/01/13	मकान नं. 66/2, लेन नं. 13 गांधी कॉलोनी मुजफ्फर नगर
183624	मनीष कुमार गुप्ता जवाहर राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57922 05/03/13	डी 59/255 बी 5 शिवपुरवां, मेहमूर गंज वाराणसी
183625	मनीष कुमार गुप्ता बद्री प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57515 11/09/12	ग्राम और डाकघर नेवरा फैजाबाद
183626	मनीष कुमार शर्मा मिथिलेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57017 07/06/12	मोहल्ला कटरा शाहाबाद हरदोई
183627	मनीष तंवर विजय पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57163 24/07/12	ग्राम बंधुखेड़ी पो.ऑ. फंडपुरी सहारनपुर
183628	मनीष गुप्ता दिनेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56885 10/04/12	मकान नं. 206 मोहल्ला एवं पो.ऑ. बिलसंडा पीलीभीत
183629	मनजीत कुमार मिश्री लाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57653 01/10/12	मकान नं. 434, वार्ड नं. 14 मोहल्ला परशुरामपुर थाना अलीगढ़
183630	मनजीता जायसवाल विशाल मिश्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57710 12/10/12	101, गोपी कुंज न्यु सिविल लाईन्स हरदोई
183631	मंजू रानी सुरेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57146 18/07/11	मकान नं. 1846 सराय रफी थाना चांदपुर बिजनौर
183632	मनमोहन शर्मा विश्वभर डी शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57459 05/09/12	बी 10, टैम्पल टैंक रोड़, कृष्णा नगर दिल्ली
183633	मनोज जायसवाल लालजी जायसवाल	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56961 21/05/12	ग्राम लालमऊ पो.ऑ. मेहनाजपुर आजमगढ़
183634	मनोज कुमार राजेन्द्र पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57989 18/03/13	ग्राम वारी पो.ऑ. निवीवारी इलाहाबाद

183635	मनोज कुमार चौहान शिवमूर्ति चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57247 13/08/12	ग्राम जगदीशपुर पो.ऑ. बारावन शहर थाना मिरगंज जौनपुर ग्राम पुरे बलदी तिवारी पो. ऑ. ककवा तहसील अमेठी अमेठी
183636	मनोज कुमार तिवारी अवध बिहारी तिवारी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57292 22/08/12	जपालीगंज कोतवाली बलिया
183637	मनोज कुमार वर्मा विद्या शंकर वर्मा	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57160 24/07/12	मेडिकल नन्दी गार्डन 100 फुटा रोड लोनी गाजियाबाद
183638	मनोज कुमारी धारा सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 1997	57860 28/01/13	ग्राम सिक्ता पो.ऑ. गणेशपुर बस्ती
183639	मनोरमा शुक्ल अरुण कुमार शुक्ल	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57164 24/07/12	मकान नं. 1878 सैक्टर 7/डी फरीदाबाद हरियाणा
183640	मानवेन्द्र सिंह सोलंकी जवाहर सिंह सोलंकी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56937 08/05/12	68/1, पीले क्वार्टर लोहिया नगर गाजियाबाद
183641	मरूफ अली फारूक अली	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57299 22/08/12	वाड़े नं. 4, दीनदयाल नगर सयैदराजा चन्दौली
183642	मथुरा सिंह अक्षयबर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57326 27/08/12	बिश्नोई सराय नगीना बिजनौर
183643	मयंक बिश्नोई सुरेश चन्द्र बिश्नोई	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57820 27/12/12	रामबाघ कॉलोनी बडौत बागपत
183644	मीनू तोमर देवेन्द्र सिंह तोमर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	54318 27/08/12	मकान नं. 454, नगर दमर गोदाम झांसी
183645	मेघा गुप्ता गिरजा शरण गुप्ता	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	57408 24/09/12	416, बरदा तहसील चरखरी महुबा
183646	मिनाक्षी त्रिपाठी राजेश के. त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57412 31/08/12	ग्राम पाली, पो.ऑ. गोदावन तहसील मडीयाहूँ जौनपुर
183647	मिश्र पंकज उमा शंकर उमाशंकर मिश्र	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2009	57672 05/10/12	मोहल्ला केशव नगर चौरसिया फतेहगढ़ फारूखाबाद
183648	मिथिलेश पाठक रौतर पाठक	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57358 28/08/12	

183649	मोहम्मद अकिल अहमद रहमत अली	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57861 29/01/13	ग्राम दिगधी पो.ओ. करखियावन थाना फूलपुर वाराणसी
183650	मोहम्मद आरिफ बदलू खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2013	57675 05/10/12	ग्राम सराय अख्तियारपुर परगाना तहसील साफीपुर ऊन्नाव
183651	मोहम्मद आरिफ अंसारी मोहम्मद सलीम अंसारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57476 06/09/12	मोहल्ला मोमीनाबाद हरदोई
183652	मोहम्मद बेलाल नूर मोहम्मद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57333 27/08/12	मकान नं. जे 5/5, प्याले गदाहा जैतपुरा वाराणसी
183653	मोहम्मद हसन अजिर्जुर रहमान	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2013	57912 01/03/13	घास की गली वसलीगंज मिर्जापुर
183654	मोहम्मद इमरान मोहम्मद इस्सर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56991 31/05/12	116, नगर पंचायत वाई नं. 3, पीपरैच गोरखपुर
183655	मोहम्मद परवेज अब्दुल रहीम	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	56938 08/05/12	नवादा शेखान पुराना शहर बरेली
183656	मोहम्मद रहील गफ्फार शमीन अहमद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2010	57622 26/09/12	267, अमीर नगर 3 अमीर नगर लखीमपुर खीरी
183657	मोहम्मद शमशेद मोहम्मद यूसुफ	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57400 30/08/12	1012/5, दक्षिणी खालापार फलोरा स्कूल के पास मुजफ्फर नगर
183658	मोहम्मद तसलीम आरिफ हाजी मोहम्मद उस्मान	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57004 05/06/12	डी 43/94-95, बाजार सदानन्द जयनारायण वाराणसी
183659	मोहम्मद युनुस अंसारी मोहम्मद ईसा अंसारी	बी.ए.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	57605 24/09/12	मकान नं. ई 3/875, सैक्टर 1 अलीगंज लखनऊ
183660	मोहम्मद जावेद खान अतुल्लाह खान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57218 09/08/12	पुराना थाना के पास कस्बा विजयगढ़ अलीगढ़
183661	मोहित कुमार अग्रवाल जगदीश एन. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57449 04/09/12	मोहल्ला बुद्धोलियाना राठ हमीरपुर
183662	मोहित कुमार वर्मा जगदीश प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57012 07/06/12	ग्राम और डाकघर जोगराजपुर तहसील पुरानपुर पीलीभीत

183663	मोनिका देवी अजय कुमार सैनी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57127 13/07/12	मकान नं. 431, खालापर 6, थाना शामली मुजफ्फर नगर
183664	मोनिका शर्मा विशाल उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2008	56952 16/05/12	जे 274, दर्पण कॉलोनी धादीपुर मुरार एम.पी.
183665	मूल चन्द्र केशरवानी रमेश सी. केशरवानी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57243 13/08/12	ग्राम इटावा पो.ऑ. मुहल्ला थाना रायपुरा—मऊ चित्राकूट
183666	मूल चन्द्र मौर्या जियालाल मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57394 30/08/12	115, अशोक विहार लितिफत गंज रोड़ अकबरपुर अम्बेड़कर नगर
183667	मौर्या राजसूमन कन्हैयालाल विनय कुमार मौर्या	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	57905 26/02/13	मोहल्ला मोहददीपुर मौहारी टोला, थाना कैन्ट गोरखपुर
183668	मुबसिर हुसैन सिद्धीकी मुस्तफा एच. सिद्धीकी	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2012	57879 11/02/13	मकान नं. 364, ग्राम और झाकघर मकानपुर, कानपुर नगर कानपुर
183669	मुहम्मद आजम अंसारी मोहम्मद फारुख अंसारी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57736 06/11/12	खददर बाजार चौधरिया कस्बा भौजपुर मुरादाबाद
183670	मुजु चौधरी विपिन चौधरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57022 11/06/12	ग्राम गेईना पो.ऑ. मोइनुद्दीन मेरठ
183671	मुकेश गुप्ता कृष्ण गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57801 17/12/12	मोहल्ला सदर बाजार पो.ऑ. चारखेरी महुबा
183672	मुकेश कुमार अनन्त राम	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57828 04/01/13	मोहल्ला गांधी टोला पो.ऑ. नवाबगंज बरेली
183673	मुकुल प्रसाद बिश्नोई राकेश कुमार बिश्नोई	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57223 13/08/12	1193, कबली मवाना मेरठ
183674	मुनेश कुमार यादव महेश सी. यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2005	57122 13/07/12	यादव भवन, शक्ति नगर कॉलोनी, चन्दोसी भीमनगर
183675	मुन्नी लाल यादव कान्ता सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57509 11/09/12	ग्राम झुंका पो.ऑ. भाला गाजीपुर
183676	मुवीना वाहिद अली	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	57993 20/03/13	मकान नं. 128 जागीर पो.ऑ. सिकंदराबाद बुलंदशहर

183677	नदीम मियाँ असरार अहमद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57290 22/08/13	ग्राम बकरपुर खारैर पो.ऑ. अरीफपुर नवादा बदायूं
183678	नदीम अली लारी आबिद अली लारी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57630 27/09/12	ग्राम बरोहिया पो.ऑ. जगदोर मिथोरा बाजार थाना निचलोल महाराज गंज
183679	नगेन्द्र प्रसाद मुन्नी लाल	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57061 28/06/12	ग्राम चालीस जमीन अतुल्लाह चिरैयाकोट मऊ
183680	नगेन्द्र प्रताप सिंह मुन्नार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57214 08/08/12	ग्राम और डाकघर हरसोस वाराणसी
183681	नागेश कुमार यादव भगोती प्रसाद यादव	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57936 12/03/13	ग्राम उत्तराय पो.ऑ. बदेरी जौनपुर
183682	नन्द किशोर दधिच सुरेन्द्र के. दधिच	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1998	57464 01/10/12	46, सोनी कॉलोनी, भोमिया नगर कलवाद रोड़, झोखाड़ा जयपुर
183683	नंदिनी सिंह पुरन सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57231 13/08/12	660, शान्ति नगर सिविल लार्ड्स 2 बिजनौर
183684	नारायण आनन्द दुबे राधे श्याम दुबे	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57130 13/07/12	ग्राम देधर पो.ऑ. बयापुर सोनभद्र
183685	नरेन्द्र कुमार सिंह अमर सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57063 28/06/12	38 एम, पुरनपुरी कॉलोनी गढ़ी भादोरिया आगरा
183686	नरेन्द्र कुमार भिवकी राम	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57165 25/07/12	अनाज मण्डी के पास ग्राम और डाकघर सौरव थाना मगोरा मथुरा
183687	नरेन्द्र कुमार शुक्ल राधा रमज शुक्ल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57033 20/06/12	ग्राम और डाकघर किशोरगंज थाना रेयुसा सीतापुर
183688	नरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57536 12/09/12	ग्राम चकाजमालपुर पो.ऑ. पूर्वा उन्नाव
183689	नरेन्द्र शर्मा शिवलाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57930 11/03/13	तिरुपति पैलेस के पास मेन रोड़, जनकपुरी मुजफ्फरनगर
183690	नरेन्द्र सिंह रणवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57664 03/10/12	सी 10 जिगर कॉलोनी मुरादाबाद

183691	नरेन्द्र सिंह मुन्ना लाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57852 23/01/13	ग्राम दरोनी पो.ऑ. पाह तहसील मेहरोनी ललितपुर
183692	नरगिस सैफी सिराजुद्दीन सैफी	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2010	57839 16/01/12	मकान नं. 1544, मोहल्ला मुन्नालाल फालावाड़ा रोड़ के पास मवाना मेरठ
183693	नवीन प्रकाश तिवारी अनिरुद्ध तिवारी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57447 04/09/12	एन. 14/12 ए, बी सराय नन्दन मेहमूरगंज वाराणसी
183694	नीलम चक्रवर्ती अवनिश कुमार	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2005	57604 21/09/12	मकान नं. वार्ड नं. 14, पो. ऑ. सेवराही मालवीय नगर कुशीनगर
183695	नीलम गुप्ता बालकृष्ण गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57351 28/08/12	रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ग्रेन डीलर हमीरपुर
183696	नीलम यादव प्रदीप सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	57089 03/07/12	365, तुलसी नगर उरई जालौन
183697	नीलकान्त पाण्डेय सीताराम पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2006	57662 03/10/12	ग्राम/मोहल्ला सेमरी तालूक पूर्वा परगना अरेल, करछाना इलाहाबाद
183698	नीरा यादव राकेश कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57401 30/08/12	सी 13/7117 राजाजीपुरम लखनऊ
183699	नेहा भाटिया सुनील भाटिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57671 05/10/12	120/574, शिवाजी नगर कानपुर
183700	नेहा चंसौरिया राम एन. चंसौरिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57424 31/08/12	चंसौरिया चिकित्सालय विशाल नगर, कबराय महोबा
183701	नेहा चौहान भीष्म पी.एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	57254 13/08/12	एच. 37, ज्ञान सरोवर कॉलोनी रामघाट रोड़ अलीगढ़
183702	नेहा गुप्ता दिलिप कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57303 22/08/12	मकान नं. 240, बेगम बाग अंशिक सीतापुर
183703	नेहा गुप्ता देवी प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57141 17/07/12	मकान नं. 538 सिविल लाईन्स हरदोई
183704	नेहा शुक्ल उमा शंकर शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57556 13/09/12	केशव ऑफसेट प्रैस मण्डी क्लब घर मेनपुरी



183705	नेहा वर्मा जय प्रकाश वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57430 31/08/12	करेनपुरा चिरगाँव झांसी
183706	नेक सिंह रणवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2003	57023 11/06/13	ग्राम और डाकघर मलकपुर गाजियाबाद
183707	निधि राठौर प्रवेश चन्द्र राठौर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57228 13/08/12	160, गदिवान करहल रोड़ मैनपुरी
183708	निधि सचार राजेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57485 07/09/12	पटेल नगर पैट्रोल पम्प के पास जहानाबाद फतेहपुर
183709	निधि शर्मा नागेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57263 16/08/12	13, ज्वालापुरी दिल्ली रोड़ मेरठ
183710	निधि सिंह राजेश सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57088 03/07/12	3, अविनाश मार्ग रायबरेली
183711	निधि वर्मा राम किशोर वर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57482 07/09/12	ग्राम और डाकघर छटोनिया गोला गोकरन नाथ लखीमपुर खीरी
183712	निधि यादव केशव सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57205 06/08/12	नया सर्राफा बाजार करहल मैनपुरी
183713	निधिराज मिश्र श्रीकान्त मिश्र	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57203 06/08/12	सदन शाह सिविल लाईन्स जी.जी.आइ.सी. के पीछे ललितपुर
183714	निहारिका वर्मा राजाराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57324 27/08/12	ग्राम खुमारीपुर पो.ऑ. कौदा हरदोई
183715	निखिल रमेश सी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57732 01/11/12	329, रोहिली टोला पुराना शहर बरेली
183716	निखिल श्रीवास्तव राजीव श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	56940 14/05/12	ग्रामोत्थान सेवा अस्पताल नरोत्तम नगर सिंधोली, सीतापुर
183717	निलेन्द्र कुमार सिया राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56891 16/04/12	ग्राम गूजा पो.ऑ. कैथा कानपुर
183718	निलेन्द्र प्रताप ब्रह्मा नन्द	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2013	57883 14/02/13	मकान नं. 224, हंसुपुर तहसील गोरखपुर सदर गोरखपुर

183719	निमेश अग्रवाल विनोद कुमार अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	56917 26/04/12	643/21, नायक नगर सीतापुर रोड़ लखनऊ
183720	निमराज सूर्यपाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57197 01/08/12	ग्राम कयोतारा बहिंगा पो.ऑ. तिंदवारी बाँदा
183721	नीरज प्रियतम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57418 31/08/12	ग्राम कैटा सतना पो.ऑ. जगदीशपुर आजमगढ़
183722	नीरज चौधरी विजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2010	57452 04/09/12	मोहल्ला मुंशीपुरा नजदीक पुलिस स्टेशन नकुड़ सहारनपुर
183723	नीरज किशोर गया प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57001 05/06/12	ग्राम और डाकघर नोनापुर रामाबाई नगर
183724	नीरज कुमार विरेन्द्र कुमार गुप्त	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2008	57759 22/11/12	मकान नं. 54 के.गंगी नं. 1 थाना पनियारा महाराजगंज
183725	नीरज कुमार गुप्ता पंचन प्रसाद	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57897 22/02/13	शास्त्री नगर सिद्धेश्वर नगर लंका गाजीपुर
183726	नीरज कुमार खन्ना तुलसी राम खन्ना	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2010	56879 04/04/12	लोधी धर्मशाला के पास कौड़यान रोड़, इन्दरा नगर जालौन
183727	नीरज कुमार पाण्डेय राम निवास पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57442 03/09/12	ग्राम बेलवा बुजुर्ग पो.ऑ. बरसेना अहिरोली बाजार कुशी नगर
183728	नीरज कुमार राय चन्द्र शेखर राय	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	56928 02/05/12	ग्राम और डाकघर सोधरी आजमगढ़
183729	नीरज पाठक आसाराम पाठक	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57458 05/09/12	23, सराय थोक पश्चिमी कानपुर रोड़ हरदोई
183730	नीरजा द्विवेदी के.एम. द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57737 06/11/12	18, लोहिया अस्पताल परिसर फारूखाबाद
183731	नीरजी सिंह सोमवंशी श्रवण कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57637 28/09/12	62/10, खगेश्वर पूर्वा रोड़ चनल रोड़, हरदोई
183732	निरूपमा कुशवाहा केदार नाथ कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57309 23/08/12	109 न्याय नगर झुंसी इलाहाबाद

183733	निशा बेग चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56999 05/06/12	आर. 7/157 राजनगर गाजियाबाद
183734	निशा बृजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57212 07/08/12	कस्बा रोड़ बेगमाबाद मोदी नगर गाजियाबाद
183735	निशा वर्मा संजीव कुमार	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2012	57858 29/01/13	ग्राम और डाकघर कान्हा मोराई बाग, दलमऊ राय बरेली
183736	निशान्त कुमार मिश्र लक्ष्मी शंकर मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	57140 17/07/12	मकान नं. 771, विष्णु नगर रायबरेली
183737	निश्चल राघव सोमवीर सिंह राघव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57144 17/07/12	सैन्ट्रल बैंक के पास जट्टारी अलीगढ़
183738	निशेष दीक्षित अनिल कुमार दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57678 05/10/12	मकान नं. 43 न्यू आजाद नगर कानपुर
183739	नीतीश कुमार गुप्ता सुभाष चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56959 21/05/12	ग्राम और डाकघर लालगंज आजमगढ़
183740	नीतीश शुक्ल प्रमोद शुक्ल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57181 27/07/12	398, हरदोई देहात उत्तरी भाग 1 हरदोई
183741	नितिका सिंह वीरपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57871 04/02/13	ग्राम और डाकघर गदेयूरा अहिरोरी के पास हरदोई
183742	नितिन बिश्नोई सुनील कुमार बिश्नोई	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57111 12/10/12	बी 91, हिमगिरि कॉलोनी हरथाला, सोनकपुर मुरादाबाद
183743	नितिन राज वशिष्ठ मुनि	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	57196 01/08/12	मोहल्ला पीर नगर पो.ऑ. पीर नगर गाजीपुर
183744	नितिन त्यागी राकेश त्यागी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57633 27/09/12	ग्राम भंगेल, बेगमपुर नोएडा फेस 2 गौतम बुद्ध नगर
183745	नीतीश राठौर भोला सिंह राठौर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57491 10/09/12	1/114, भूसा मण्डी फतेहगढ़ फारूखाबाद
183746	निवेदिता यादव नरेश सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57104 05/07/12	मकान नं. 82, मस्जिद रोड़ टुण्डला फिरोजाबाद

183747	ओम नारायण यादव तेज बहादुर एस. यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57597 21/09/12	ग्राम भाखरा पो.ऑ. वसता कन्नौज
183748	ओम प्रकाश कुरील महेश प्रसाद कुरील	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57120 13/07/12	ग्राम खरोहावान पो.ऑ. भेरापाकर देवरिया
183749	ओम प्रकाश सिंह भोला सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57492 10/09/12	ग्राम और डाकघर विदर नगर दिदार नगर गाजीपुर
183750	पाखी शर्मा पी.के. शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57931 11/03/13	18, कावेरी एन्कलेव फेस 2 अलीगढ़
183751	पल्लवी लाधा राहुल लाधा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56942 10/05/12	640 के, रत्तनगंज फ्लैट नं. 41, किदवई नगर कानपुर
183752	पल्लवी महेन्द्र योगेश महेन्द्र	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2011	57889 18/02/13	282 संकट देवी 2 लखीमपुर खीरी
183753	पल्लवी वर्मा धीरेन्द्र कुमार वर्मा	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2011	57864 30/01/13	एल.आर.पी. रोड़ पटेल नगर लखीमपुर खीरी
183754	पलविन्द्र कौर करम सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57885 14/02/13	किशनपुर हरिपुर पीलीभीत
183755	पंकज कुमार हरिश चन्द त्यागी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57685 08/10/12	ग्राम और डाकघर बेगराजपुर बिजनौर
183756	पंकज कुमार अजय कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57824 28/12/12	आइ.टी.आई. चौराहा ठण्डी सड़क फारूखाबाद
183757	पंकज कुमार प्रेमनाथ नाडर	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2010	57659 01/10/12	ग्राम पट्टी किरत राय पो.ऑ. मारिकपुर जौनपुर
183758	पंकज कुमार मौर्या इन्दू देव मौर्या	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	57868 31/10/12	मोहल्ला चित्रसारी पो.ऑ. सदर जौनपुर
183759	पंकज सिंह यादव बी.एल. भूरतिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57638 28/09/12	471/ए, गांधी नगर नैनी इलाहाबाद
183760	परमजीत सिंह मदन पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57873 04/02/13	इण्डेन गैस सर्विस के सामने गोकुल नगर चांदपुर बिजनौर

183761	पारूल सैनी लीलापत सिंह	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2011	57775 04/12/12	ग्राम नंगला भज्जा पो.ऑ. धामपुर बिजनौर
183762	पारूल वर्मा विश्वेश्वर पी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57411 31/08/12	रेलवे स्टेशन रोड़ मोहल्ला शंकरगंज बिसवान सीतापुर
183763	पवन कुमार यादव बिदेश सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57375 28/08/12	ग्राम नगला मोती पो.ऑ. निव करोरी फारूखाबाद
183764	पवन कुमार केशव राम पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57385 29/08/12	ग्राम चांदना चौकी पो.ऑ. देवरिया मुबारकपुर बलरामपुर
183765	पवन कुमार दीक्षित रामकृष्ण दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57650 01/10/12	देवी पटलावती मार्ग पटियाली केसरगंज
183766	पवन कुमार गुप्ता भागवत स्वरूप गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57797 13/12/12	ग्राम और डाकघर चौमुहान तहसील हाता मथुरा
183767	पवन कुमार रस्तोगी टहलनाथ रस्तोगी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57584 19/09/12	ददुआ बाजार मकराथी गंज गोण्डा
183768	पवन कुमार सिंह सुरेन्द्र नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	57530 12/09/12	मकान नं. 262, करवा राजा राजा पाकड़ कुशी नगर
183769	पवन कुमार सिंह ओमकार प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2003	56895 17/04/12	ग्राम और डाकघर शिवपाल थाना जैतपुर अम्बेड़कर नगर
183770	पवन कुमार वर्मा लाल बाबू वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57570 18/09/12	मकान नं. 52, वार्ड नं. 14 राघव नगर देवरिया
183771	पवन कुमार केशरी विनोद कुमार केशरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57096 04/07/12	नई बाजार संत रविदास नगर भदोही
183772	पवन प्रसाद जागेश्वर प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57168 25/07/12	5/151, मदरवादी फारूखाबाद
183773	पवन प्रताप सिंह विश्वकर्मा शत्रुघन सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57039 22/06/12	मकान नं. 127, मोहल्ला गायत्री नगर, पठानपुरा राठ हमीरपुर
183774	पवन सिंह दिवान सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57948 12/03/13	मकान नं. 3, गांधी नगर तिवरा गंज कन्नौज

183775	पिंकी लोकेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57909 27/02/13	बस्सी रोड कस्बा शाहपुर मुजफ्फर नगर
183776	पिंटू कुमार सिंह विजय कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57606 24/09/12	बालाजी एक्सटेंशन स्कूल भगवानपुर वाराणसी
183777	पीयूष गुप्ता विनित गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57721 19/10/12	गुप्ता मेडिकल स्टोर अशोक नगर फतेहपुर
183778	पीयूष कुमार अरविन्द कुमार पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56950 15/05/12	ग्राम और डाकघर माधोपुर बुजुर्ग तरया सुजान तमकुहीराज कुशी नगर
183779	पीयूष कुमार गुप्त अनिल कुमार गुप्त	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56960 21/05/12	अश्वनी मेडिकल स्टोर लालगंज आजमगढ़
183780	पीयूष राघव हेमन्त विशेष	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	57841 17/01/12	47, न्याय नगर झांसी इलाहाबाद
183781	पूजा जायसवाल मदन लाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57670 05/10/12	एन. 8/236 ए-4, नेवादा, सुन्दरपुर वाराणसी
183782	पूजा रानी विनेश कुमार	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57714 15/10/12	मकान नं. 239, बहादुरगढ़ मवाना मेरठ
183783	पूनम जोशी सी.पी. जोशी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	57895 22/02/13	1/23, 358, एम.आइ.जी. इन्दिरा नगर, रेवा
183784	पूनम सिंह रज बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57291 22/08/12	ग्राम और डाकघर धम्मोर रसवाड़ा सुल्तानपुर
183785	प्रबल दीक्षित सुरेश चन्द्र दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57378 28/08/12	5/15, मदरवाड़ी फारूखाबाद
183786	प्रभात श्रीवास्तव सुरेश सी. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57722 19/10/12	ग्राम बालापुर पो.ऑ. शिवदयाल गंज गोंडा
183787	प्राची मिश्र चन्द्र शेखर मिश्र	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57874 05/02/13	मकान नं. 31, शास्त्री नगर लखीमपुर खीरी
183788	प्राची शर्मा श्रीनिवास शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57239 13/08/12	पुलिस स्टेशन के पास मेन रोड, बिलसांड़ा पीलीभीत

183789	प्रदीप कुमार सोने लाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57975 12/03/13	नई बस्ती, बारा सिरौही आई.आई.टी. कानपुर
183790	प्रदीप कुमार चौरसिया रमेश सी. चौरसिया	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57068 28/06/12	187, पुरानी बिंदकी बिंदकी फतेहपुर
183791	प्रदीप कुमार गया प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57331 27/08/12	ग्राम और डाकघर अहिरोलिदयान तरया सुजान कुशी नगर
183792	प्रदीप कुमार जायसवाल श्याम पी. जायसवाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57972 12/03/13	ग्राम और डाकघर कर्मा सोनभद्र
183793	प्रदीप कुमार मिश्र मुक्ति नाथ मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	56919 27/04/12	ग्राम शम्भुपुर नेवादा पो.ऑ. बीबीपुर कादिम निजामाबाद आजमगढ़
183794	प्रदीप कुमार मौर्या शंख मद्दार मौर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57849 22/01/13	ग्राम ग्वारिया पो.ऑ. पचगाँवा सिद्धार्थ नगर
183795	प्रदीप कुमार वर्मा कोमल चन्द्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	56921 01/05/12	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर अत्तारा झांसी
183796	प्रदीप यादव जहर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57808 20/12/12	मकान नं. 4/229, नवाब नयामत खान फारूखाबाद
183797	प्रद्युमन बहादुर गौतम बलभद्र	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57943 12/03/13	मकान नं. 201, डी मोहल्ला बशारतपुर गोरखपुर
183798	प्रफुल्ल किशोर अग्रवाल गिरधारी लाल अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57571 18/09/12	अनाज मण्डी वृन्दावन मथुरा
183799	प्रफुल्ल कंवर सिंह अरविन्द सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56955 17/05/12	चकभौधर रोताहा तहसील भादोर संत रविदास नगर
183800	प्रकाश कुमार मुसाफिर राम	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57944 12/03/13	ग्राम बरेहता पो.ऑ. खिदिरागंज
183801	प्रमोद कुमार यादव महावीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57842 17/01/13	मकान नं. 48 ए, ग्राम और डाकघर अमीपुर बलोनी बागपत
183802	प्रमोद कुमार युवराज दत्त	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57733 02/11/13	ग्राम मनवापुर पो.ऑ. भालिया बुजुर्ग लखीमपुर खीरी

183803	प्रांजल सिंह वर्मा ओम प्रकाश वर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2009	57694 08/10/12	मकान नं. 346, अवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा
183804	प्रार्थना अश्वनी कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2009	57683 08/10/12	ग्राम रेदीमलाकपुर पो.ऑ. सहारनपुर सहारनपुर
183805	प्रशान्त जैन विजय कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2013	57921 05/03/13	मेन बाजार ग्राम सकरार तहसील मौरानीपुर झांसी
183806	प्रसून रावत भिकम चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57588 19/09/12	जी 1, 562, कालिन्दी पुरम राजरूप पुर इलाहाबाद
183807	प्रतिभा वर्मा सौरभ रावत	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57488 10/09/12	मोहल्ला रामबाग मिश्रीख सीतापुर
183808	परवेश कुमार कृष्ण पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57522 11/09/12	ग्राम भरजी, पो.ऑ. सवास कंधला मुजफ्फर नगर
183809	प्रवीण कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57099 05/07/12	ग्राम और डाकघर सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर
183810	प्रवीण कुमार रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57974 12/03/13	42/138, कृष्ण कुंज सैन्ट्रल जेल रोड आगरा
183811	प्रवीण कुमार गुप्ता राजेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57914 04/03/13	मकान नं. 110, बाजार ए बाजार गुरसराय ए झांसी
183812	प्रवीण कुमार मिश्र हरिकेश पी. मिश्र	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57276 16/08/12	144/ए/बी विवेक नगर प्रतापगढ़
183813	प्रवीण कुमार सिंह श्रीनिवास सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57876 06/02/13	ग्राम बहुआस पो.ऑ. सिंघारी बाजार कुशी नगर
183814	प्रवीण कुमार वर्मा चतुर्भुज वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57425 31/08/12	ग्राम और डाकघर कटेरा बौदा
183815	प्रवीण मनी त्रिपाठी योगेश मनी त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57502 10/09/12	बी 30/1ए, जे.के. जानकीबाग कॉलोनी, लंका वाराणसी
183816	प्रवीण शर्मा राम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57619 26/09/12	4013, हरदेव गंज 1 कोसीकलां, छाटा मथुरा



183817	प्रेम चन्द गुप्ता पराग राम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57086 03/07/12	बी 31/82ए, भोगावीर लंका वाराणसी
183818	प्रेरणा रानी कलमपाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2009	57682 08/10/12	मोहल्ला चौधरिया नकुड़ सहारनपुर
183819	प्रीति मौर्या गया प्रसाद मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57441 03/09/12	मकान नं. 1554, मोहल्ला बधेयापुर सिविल लाईन्स 2 सुल्तानपुर
183820	प्रीति शर्मा सुरेश सी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57389 29/08/12	31/1, मिथिलापुरी जगमोहन पो.ऑ. के पास इज्जत नगर बरेली
183821	प्रियंका चर्तुवेदी शम्भु एन. चर्तुवेदी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57565 14/09/12	मोहल्ला गणेश गंज पुरनपुर पीलीभीत
183822	प्रियंका जायसवाल ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57955 12/03/13	ग्राम इमरती कॉलोनी थाना रोबर्टस गंज सोनभद्र
183823	प्रियंका कटियार राधे श्याम कटियार	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57128 13/07/12	90, गोशाला रोड़ औरैया
183824	प्रियंका श्रीवास्तव सूर्यभान एल. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57050 28/06/12	मा राजेश्वरी नगर देवकाली फैजाबाद
183825	प्रियंका शुक्ल मुकेश कुमार शुक्ल	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57454 04/09/12	कटरा खूब चन्द्र जसवंत नगर इटावा
183826	प्रियंका सिंह जगदीश सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57075 29/06/12	द्वारा जगदीश सिंह कलहट बाजार, सुनार मिर्जापुर
183827	प्रियंका सिंह अरुण कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56903 18/04/12	बीना कॉलोनी क्वाटर नं. टी. एस.सी. 15, शक्ति नगर सोनभद्र
183828	प्रियंका सिंह यादव रणजीत सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. पदमश्री डॉ. डी.वाई.पाटिल वि.वि. नवी मुम्बई 2009	57213 07/08/12	एन 4/4जे-3वी-ए1, करोंदी वाराणसी
183829	पुनिता गुप्ता अमित चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2004	56912 23/04/12	दिलेरगंज शाहाबाद हरदोई
183830	पुरंजय शुक्ल राम लखन शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57644 28/08/12	ग्राम और डाकघर अजगरा थाना लालगंज प्रतापगढ़

183831	पुष्पा सूर्य प्रताप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2007	56994 01/06/12	ग्राम रामनगर मवाना मेरठ
183832	पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा तार चन्द्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57435 03/09/12	सी 211 अवास विकास कॉलोनी हरदोई
183833	कय्यूम अंसारी यूसुफ अंसारी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57387 29/08/12	हाता बाजार पो.ऑ. शिवपुर गोरखपुर
183834	आर शिवम मिश्र राजेश मिश्र	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57560 14/09/12	कटरा बलीपुर इनाहान पो.ऑ. देवापुर प्रतापगढ़
183835	रचिन कुमार राम अवतार सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57896 22/02/13	ग्राम और डाकघर कथरा नगर कानपुर
183836	राधे श्याम यादव रामपाल सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57526 11/09/12	ग्राम और डाकघर धानपुर तोफापुर मवाना मेरठ
183837	रघुनाथ अग्निहोत्री कृष्ण मुरारी अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57134 16/07/12	मोहल्ला खट्टा जमलखान एवं तहसील शाहाबाद हरदोई
183838	राहुल देवधर महितोष कुमार धर	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57073 29/06/12	मकान नं. 309, चिरगाँव देहात 3 चिरगाँव तहसील मोठ झांसी
183839	राहुल सिंह रामकुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57838 16/01/13	यूनिवर्सल बुक डिपो छोटा चौराहा उन्नाव
183840	राहुल यादव बिजेन्द्र सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56901 17/04/12	मकान नं. ए-2/10 मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड मुरादाबाद
183841	राज बहादुर हीरालाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57260 16/08/12	85/84, लक्ष्मी पूर्वा कानपुर
183842	राज बहादुर जीता सरोज	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57367 28/08/12	ग्राम देवनाथपुर पो.ऑ. कलीचाबाद आजमगढ़
183843	राज किशोर सिंह विभूति नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57116 10/07/12	ग्राम पुरना पो.ऑ. अभिलोधा सोनभद्र
183844	राज कुमार शाह शिव प्रसाद शाह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57384 29/08/12	वार्ड नं. 5, मोहल्ला हरेदीह सूरज बेकरी के पास पो.ऑ. निचलोल महाराज गंज

183845	राजेन्द्र सिंह प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2007	57769 30/11/12	ग्राम और डाकघर राजपुर रामाबाय नगर कानपुर देहात
183846	राजेश चन्द्र निगम श्याम बिहारी निगम	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57985 18/02/13	ग्राम और डाकघर बरोखर बुजुर्ग बौदा
183847	राजेश कुमार सिंह जगन सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1998	56983 30/05/12	ग्राम वरिपुरा पो. ऑ. पीपल बदायूं
183848	राजेश कुमार सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57525 11/09/12	ग्राम चन्दापुर पो.ऑ. मदवारा घातमपुर कानपुर कानपुर
183849	राजेश कुमार देवनाथ	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2010	56880 04/04/12	ग्राम शमसाबाद पो.ऑ. नागपुर महाराष्ट्र
183850	राजेश कुमार मिश्र अनिरुद्ध मिश्र	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	57562 14/09/12	ग्राम अजय नगर विभनोली पो.ऑ. धुरिया इमिलया खुशी नगर
183851	राजेश कुमार तिवारी लल्लन तिवारी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57933 11/03/13	कमरा नं. ई.एल.एस.डी. आर.पी.एफ. कॉलोनी, कैन्ट के पास वाराणसी
183852	राजीव गुप्ता स्वामी नाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57410 31/08/12	ग्राम पारसिया छितनी सिंह पो.ऑ. खायेपर देवरिया
183853	राजीव कुमार गया प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57469 06/09/12	ग्राम बानूपुरा पो.ऑ. अमापुर शहावर, कसगंज खुशीराम नगर
183854	राजीव कुमार विश्वकर्मा केवला पी. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56935 08/05/12	570/58ए, रमेश सदन वी.आइ.पी. रोड, गोपालपुरी आलमबाग लखनऊ
183855	राजीव कुमार पासी छोटेलाल पासी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	57314 23/08/12	ग्राम सुन्ती का पुरवा पो.ऑ. देवगांव तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद
183856	राजीव कुमार सिंह प्रेमसिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57528 12/09/12	145बी/9सी, चांदपुर सलोरी तेलियार गंज इलाहाबाद
183857	राजीव कुमार सिंह मानसिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57311 23/08/12	ग्राम और डाकघर धरमपुर कोशम्बी
183858	राजीव शर्मा नवल किशोर शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57693 08/10/12	1339/14, किशनपुरा सहारनपुर

183859	राजकुमार शर्मा राम सुमेर शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57278 16/08/12	मनयावर काशीराम जिला चिकित्सालया आवास कॉलोनी ललितपुर
183860	रजनीश कसोधन गंगाराम कसोधन	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57784 19/12/12	पंकज फरमा कॉलेज सरोजिनी नगर लखनऊ
183861	राजू भारद्वाज अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57352 28/08/12	ग्राम और डाकघर सराय गोविन्द गाजीपुर
183862	राकेश कुमार राय महात्मा राय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	57734 02/11/12	मकान नं. 508, सुथना बरसोला तिकुनिया लखीमपुर खीरी
183863	राकेश प्रसाद लालचन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57937 12/03/13	ग्राम और डाकघर बसंतपुर बतौरा थाना धुधली महाराज गंज
183864	राकेश सिंह महेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57194 31/07/12	ग्राम मनहारिया पो.ऑ. बिजुआ लखीमपुर खीरी
183865	राखी एस.के. सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57467 06/09/12	ग्राम कतघर परगाना एवं तहसील दलमऊ रायबरेली
183866	रक्षिता सिंह विवेक कुमार निरंजन	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57547 13/09/12	मकान नं. 10, रनवा थाना जालौन
183867	राम बिलास रामनाथ	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57456 05/09/12	ग्राम और डाकघर खजूरी हैड पो.ऑ. धरम सिंघवा बाजार संत कबीर नगर
183868	राम चन्द्र राम बचन	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57494 10/09/12	ग्राम भसमा पो.ऑ. करमीसिरपुर अम्बेडकर नगर
183869	राम चन्द्र जायसवाल मुन्नी लाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2009	57791 12/12/12	ग्राम और डाकघर बडौत थाना हण्डिया इलाहाबाद
183870	राम करन हरगोविन्द	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57941 12/03/13	ग्राम और डाकघर कारगांव वाया चिरगांव वाराणसी
183871	राम कृष्ण मिश्र लक्ष्मी नारायण मिश्र	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57940 12/03/13	ए40/60, झी 3 एक्स, अमरपुर मदियान, बटलोहिया
183872	राम कृष्ण सिंह विनोद कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57802 17/12/12	मोहल्ला पादव नई कॉलोनी नवाबगंज गोंडा

183873	राम नारायण प्यारे लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2006	57617 26/09/12	थाना सुजानगढ़ पो.ऑ. कंधर पुर प्रतापगढ़
183874	राम निवास भगवान दीन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56986 30/05/12	ग्राम हरानकुदा पो.ऑ. लखमापुर पाली हरदोई
183875	रामाश्रेया पतिराज राम	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57055 28/06/12	ग्राम पचरासी पो.ऑ. बदागांव वाराणसी
183876	रमेश चन्द्र बाबू राम	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57938 12/03/13	ग्राम बिहारीपुर अब्दुल रहमान थाना चलोलादिया बरेली
183877	रमेश चन्द्र वर्मा रामसहाय वर्मा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2009	57497 10/09/12	मकान नं. 30 कुलोपाहद महोबा
183878	रमेश कुमार जगगी लाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57392 30/08/12	1/131, गायत्री नगर उन्वाहर रायबरेली
183879	रामजी जायसवाल रमेश सी. जायसवाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57390 29/08/12	ग्राम और डाकघर बिरापुर प्रतापगढ़
183880	रामजीत यादव पुनवासी यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57245 13/08/12	ग्राम जसदा खिलवान पो.ऑ. सचुयी मऊ
183881	रामकरन सिंह रामप्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57419 31/08/12	ब्लॉक रोड़ सरिला तहसील सरिल हमीरपुर
183882	रणधीर सिंह तेज सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57533 12/09/12	ग्राम नन्दा पो.ऑ. उमारिया हमीरपुर
183883	रंजना शर्मा रामकुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57457 05/09/12	ग्राम रजवाड़ा पो.ऑ. तोधी, फतेहपुर झांसी
183884	रशीद अली नफीस अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57867 31/01/13	कलाशपुरी डब्ल्यू 2 मकान नं. 1887, बेहसुमा मेरठ
183885	रश्मि गुप्ता धरनिधर गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57432 31/08/12	इन्दिरा नगर गरोथा झांसी
183886	रश्मि कुमारी रणजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57015 07/06/12	ए/14, तिलक नगर भैल झांसी

183887	रश्मि कुमारी विशाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56877 02/04/12	12/583, इन्दिरा नगर लखनऊ
183888	रश्मि सचान आदित्य सचान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57403 31/08/12	82/2ए, रसुलाबाद तेलियार गंज इलाहाबाद
183889	रश्मि सिंह जयपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57006 06/06/12	29/23, जगतपुर पुराना शहर बरेली
183890	रश्मि सिंह रीपू डी. एस. भदोरिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57881 12/02/12	मकान नं. 55, नारायणपुर भानू, बिधूना औरैया
183891	रत्तन सिंह राम सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57779 04/12/12	थाना एवं करहारा कलां तहसील महोबा महोबा
183892	रवेन्द्र कुमार शंकर लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57798 14/12/12	प्रेम रघु अस्पताल आगरा रोड़ हथरस
183893	रवि गुप्ता एम.पी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57718 17/10/12	35/4, चक काजी नैनी इलाहाबाद
183894	रवि कान्त राम मूरत पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	56985 30/05/12	दा समुवाही लंका वाराणसी
183895	रवि कुमार शाक्य अश्वनी कुमार शाक्य	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57143 17/07/12	ग्राम शंकरपुर पो.ऑ. सौरिख कन्नौज
183896	रवि प्रकाश शर्मा वासुदेव पी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1999	57645 01/10/12	कायास्थ पाड़ा बदी बदी, धोलपुर राजस्थान
183897	रवि प्रकाश शर्मा पन्ना लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57507 11/09/12	सी 14/160-16बी-3एन, सोनिया वाराणसी
183898	रवि प्रताप सिंह जय प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57093 04/07/12	ग्राम हरदसपुर पो.ऑ. दमराव मऊ
183899	रवि श्रीवास्तव विजय श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57133 13/07/12	नगर पंचायत बधनी वार्ड नं. 3, सिद्धार्थ नगर
183900	रविकान्त प्रजापति मोतीलाल प्रजापति	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57965 12/03/13	209/90सी, साकेत नगर लाला की सराय, तेलियार गंज इलाहाबाद

183901	रविन्द्र कुमार शर्मा छेदी लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 1991	57583 19/09/12	ग्राम और डाकघर गिरशी कानपुर नगर कानपुर
183902	रविन्द्र कुमार पाण्डेय राम स्वराय पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2006	57728 30/10/12	ग्राम अनुमा पो.ऑ. कसेला मंवारी बस्ती
183903	रविन्द्र कुमार यादव श्रवण कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2004	57772 03/12/12	ग्राम मोहियुद्दीनपुर पो.ऑ. मोहम्मदपुर अलीगढ़
183904	रीना विश्नोई सुनील कुमार विश्नोई	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57712 12/10/12	बी 91, हिमगिरि कॉलोनी हरथाला, सोनकपुर मुरादाबाद
183905	रेखा मंगला प्रसाद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57341 28/08/12	अशोक मेडिकल हॉल अतरोलिया आजमगढ़
183906	रेनू यादव विकाश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57371 28/08/12	ग्राम नगला गुलाब पोस्ट निब करोरी फारूखाबाद
183907	रेनू यादव परसु राम	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57149 18/07/12	53, मोहल्ला रहिमाबाद अंशिक बिजनौर लखनऊ
183908	रेश्मा बेगम मोहम्मद ए. परवेज	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2009	56894 16/04/12	नई बाजार दोस्तपुर थाना दोस्तपुर तहसील कादीपुर सुल्तानपुर
183909	रेशू सिंह अविनाश सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57359 28/08/12	6ए/117, अवास विकास कॉलोनी फारूखाबाद
183910	ऋचा गुप्ता राजेन्द्र पी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2010	57663 03/10/12	दिल्ली सलेक्शन हाऊस राजमार्ग, इटाह जालौन
183911	ऋचा शर्मा नरेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57592 20/09/12	मकान नं. 122/16 देवीपुरा 2 बुलन्दशहर
183912	ऋचा सिंह अनुज कुमार	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57177 26/07/12	मकान नं. 7121, रेलवे रोड़ नंगल, देवबन्द सहारनपुर
183913	ऋचा यादव तरुण यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57575 18/09/12	50/3, सुरेश शर्मा नगर पीलीभीत बायपास बरेली
183914	रिमी विजयंत सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57241 13/08/12	ग्राम जगतपुर पो.ऑ. इन्द्रागढ़ कन्नौज
183915	रिपु दमन सिंह राम एन. एस. भदोरिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57880 12/02/13	मकान नं. 55, नारायणपुर भानू, बिधूना ओरैया

183916	ऋषभ दीक्षित बृजेश कुमार दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56967 22/05/12	554/4डी, आदर्श नगर सिपरी बाजार झांसी
183917	ऋषभ सिंह राकेश बाबू	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57288 21/08/12	जनपद इन्टर कॉलेज हरचंदपुर रायबरेली
183918	ऋषि पाल सिंह धरमवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	56907 26/04/12	ग्राम और डाकघर प्रेमपुर थाना पिसवा अलीगढ़
183919	ऋषिराज शर्मा मोमराज शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57495 10/09/12	मोहल्ला अत्तरपुर तहसील घनोरा ज्योतिबा फुले नगर
183920	रितेश कुमार श्रीवास्तव अनिल कुमार श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2012	57996 22/03/13	कोल बज बहादुर पो.ऑ. भंवरनाथ सदर आजमगढ़
183921	रितेश तिवारी बृज किशोर तिवारी	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	56927 02/05/12	ग्राम और डाकघर दूबोलिया बाजार बस्ती
183922	रितिका भट्ट बिमल विष्ट	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57037 21/06/12	30, आवास विकास काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड
183923	रीतिनाथ शुक्ला रामचरण गर्ग	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	57748 20/11/12	पीर इन्दिरा कॉलोनी के सामने बुढाना रोड़ शामली
183924	ऋतु रघुवंशी एस.बी. सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57997 22/03/13	एस.ऐ 2/41, एस-3 गणेश नगर, पाण्डेयपुर वाराणसी
183925	रितया सिंह राजेश सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57007 06/06/12	727/ए, कनुंगोपुरा उत्तरार्ड बहराईच
183926	रोहित कुमार गुप्ता विजय बहादुर गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56925 02/05/12	ग्राम और डाकघर खदनी कन्नौज
183927	रोहित कुमार शुक्ला तपेश्वरी पी. शुक्ला	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57946 12/03/13	3/7/33, न्यू कॉलोनी तेली टोला, शिवपुरी कॉलोनी फैजाबाद
183928	रोहिताश्व नामदेव लालदास नामदेव	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57115 10/07/12	74, सिविल लाइन न्यू बस्ती सूचना केन्द्र के पास ललितपुर
183929	रोली यादव लखन सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57817 26/12/12	मकान नं. 196 बी फ़ैंडस कॉलोनी इटावा



183930	रूप सिंह रामकरन सिंह	बी.ए.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1990	57632 27/09/12	मकान नं. 36, ग्राम जमालपुर पठनी बिजनौर
183931	रुबी जायसवाल काली प्रसाद जायसवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57539 12/09/12	सकलडीहा बाजार पो.ऑ. चन्दोली चन्दोली
183932	रुबी सिंह विजय कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	57620 26/09/12	132, सूर्या नगर अजितमल औरैया
183933	रुबी यादव यतेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2011	57477 06/09/12	मोहल्ला सुदर्शन दास अस्पताल के पास अलीगंज, एटा
183934	रुचि चौधरी रमेश बाबू	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2010	56915 26/04/12	454, सूर्या नगर ।। उषा परिहार रोड़ भूद बुलन्दशहर
183935	रुचि कुमारी शम्भु दयाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57346 28/08/12	482/80, भांदो टोला डालीगंज लखनऊ
183936	रुचि मलिक राजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2009	57191 31/07/12	ग्राम सुन्ना थाना कांधला मुजफ्फर नगर
183937	रुचि पाण्डेय अनिल कुमार पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57465 06/09/12	सी 86, दयाल रेजिडेंसी चिनहट बी.बी.डी के पास लखनऊ
183938	रुचि सिंह अवनिश कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57756 30/11/12	राजकीय इन्टर कॉलेज के सामने मेनपुरी
183939	रूपेश कुमार गुप्ता कैलाश नाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57767 30/11/12	ग्राम और डाकघर जमालपुर जौनपुर
183940	रूपेश त्रिपाठी राम कृष्ण त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	57618 26/09/12	2/4, बॉईपास रोड़ फाफामऊ इलाहाबाद
183941	रूपेश त्रिपाठी सत्य नारायण त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57010 07/06/12	ग्राम छिरछूता थाना तिंडवारी महोबा
183942	सभाजीत मौर्या रामनिहोर मौर्या	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	58000 25/03/13	तिवारीपुर पो.ऑ. शाहीपुर तहसील हाण्डिया इलाहाबाद
183943	सबिहा जावेद अनवर	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2005	56902 18/04/12	डॉ. जावेद बेहता बाजार कुर्सी रोड़ लखनऊ

183944	सचिन जैन विरेन्द्र कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57890 19/02/13	सिंघल हीरो होण्डा एजेन्सी के पास ललितपुर
183945	सचिन कुमार राजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2010	57451 04/09/12	ग्राम जलालपुर पो.ऑ. धाकदेवी सहारनपुर
183946	सचिन कुमार ज्ञान सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57230 13/08/12	मकान नं. 551 गली नं. 6 लक्ष्मणपुरी मेरठ
183947	सचिन कुमार सुमत प्रसाद जैन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57264 16/08/12	ग्राम और डाकघर दाहा बागपत
183948	सचिन कुमार कंवर पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2006	57035 20/06/12	14, रेलवे कॉलोनी मतिकुज मथुरा
183949	सचिन कुमार नरेश पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57046 22/06/12	ग्राम कान्हा नांगला पो.ऑ. झलू बिजनौर
183950	सचिन कुमार राजेन्द्र पी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56931 02/05/12	ढाका अंशिक ढाका मुरादाबाद
183951	सचिन कुमार दीक्षित मूल चन्द्र दीक्षित	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57078 29/06/12	ग्राम दीनदयाल बाग पो.ऑ. फतेहगढ़ फारूखाबाद
183952	साधना द्विवेदी रामाकान्त द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57595 20/09/12	ग्राम और डाकघर हरैया सगदी, जियापुर आजमगढ़
183953	सलील कुमार शुक्ला शेषनाथ शुक्ला	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57179 27/07/12	239 ए, माहुई सुधारपुर थाना खोराबर गोरखपुर
183954	सलिता पटेल अंशू पटेल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56899 17/04/12	151, दादरा, तहसीज मादीहन मिर्जापुर
183955	सलमान अतहर ताहिर ताहिर अहमद	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57167 25/07/12	मकान नं. 50, सराय भटेला करहल मैनपुरी
183956	सनत पाल सिंह शिवराम सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57249 13/08/12	गोविन्द नगर कुलपहाड़ महोबा
183957	सनातन राय धिरेन्द्र कुमार राय	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2009	56966 22/05/12	द्वारा बाजिनाथ राय ग्राम और डाकघर भरोली कलॉ पी. एस. करिमुद्दीनपुर गाजीपुर

183958	संध्या राठौर कन्हैया लाल राठौर	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57960 12/03/13	1363 डी/1, धोबिन पुलिया हनुमंत विहार नौबसता कानपुर
183959	संध्या सिंह चन्द्र भूषण सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57753 21/11/12	ग्राम देवरिया पो.ऑ. खेरी बलिया
183960	संध्या त्रिपाठी रविन्द्र नाथ त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2012	57811 21/12/12	सिविल लाइन पो.ऑ. तितरी बाजार नगर पालिका सिद्धार्थनगर
183961	संध्या यादव विनोद कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57956 12/03/13	बी 3/94 शिवाला वाराणसी
183962	सन्दीप कुमार शुक्ल मदन मोहन शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57322 27/08/12	30, बेहलोलपुर तहसील बेहोलपुर रामनगर बाराबांकी
183963	संदीप कुमार वर्मा नन्द किशोर वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57030 20/06/12	48, रघुराज नगर पटेल नगर इन्दिरा नगर लखनऊ
183964	संदीप चौधरी प्रकाश चौधरी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57266 16/08/12	गाम गारथवालिया पो.ऑ. लहरदेवा संत कबीर नगर
183965	संदीप हलदर सुखलाल हलदर	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2011	57848 21/01/13	ग्राम और डाकघर थुथीबरी महाराज गंज
183966	संदीप कुमार राम शरण लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	57590 20/09/12	ग्राम भोगीपुर मनी पो.ऑ. मकसूदपुर लखीमपुर खीरी
183967	संदीप शाही अमरेश शाही	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57834 10/01/13	ग्राम और डाकघर गदेर देवरिया
183968	संजय कान्त प्रकाश पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57713 12/10/12	एल.आई.सी. ऑफिस के पास सुगर मिल रोड़ खालिलाबाद संत कबीर नगर
183969	संजय कुमार जैनार महेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56954 17/05/12	ग्राम हंसापुर पो.ऑ. बेहसुमा मेरठ
183970	संजय कुमार राम पी. उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57105 05/07/12	भगवती नगर स्टेशन रोड़ टुण्डला फिरोजाबाद
183971	संजय कुमार राम लाल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57976 12/03/13	ग्राम और डाकघर भोजपुर जौनपुर

183972	संजय कुमार मौर्या श्याम सुन्दर मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57750 20/11/12	502 बी/1, प्रयागपुरा चकदौंदी नैनी इलाहाबाद
183973	संजय कुमार पांचाल धरम सिंह पांचाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	56887 11/04/12	सी 84, एल.आइ.जी. फ्लैट्स डी.डी.ए. फ्लैट्स, ईस्ट लोनी रोड दिल्ली
183974	संजय कुमार सिंह देव चरण सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	57669 05/10/12	ग्राम और डाकघर बेघाई कुंभीपुर थाना सयैदराजा चन्दोली
183975	संजय पाठक राजेन्द्र नाथ पाठक	बी.ए.एम.एस. स्टेट फ़ैक. आफ आयु. एण्ड यूनानी मेडि., पटना बिहार 1999	57527 12/09/12	ग्राम मिश्रा वंधोरा विजयपुर गोपालगंज बिहार
183976	संजय सिंह यशवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56920 27/04/12	गली नं. 2, बैंक कॉलोनी गोविन्द नगर मुरादाबाद
183977	संजीत कुमार सिंह सुरेश बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57426 31/08/12	ग्राम सिंधोरा पो.ऑ. महारानी गंज रायबरेली
183978	संजीव कुमार मुकंदी सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57031 20/06/12	प्रगति विहार, आदमपुर रोड शिव मन्दिर के पास बिजनौर
183979	संजीव मलान करनवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56951 15/05/12	मकान नं. 5/69, सुरक्षा विहार नं. 61 बन्ना देवी अलीगढ़
183980	संकेत कुमार मिश्र प्रमोद कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2012	57995 21/03/13	724/11डी, शिवाजी नगर झांसी
183981	सन्तोष कुमार लोदई आर. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57329 12/08/12	ग्राम ओसानपुर पो.ऑ. बहिती तहसील हण्डिया इलाहाबाद
183982	सन्तोष गुप्ता कैलाश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57884 14/02/13	मि. सन्तोष गुप्ता, पी.डब्ल्यू.डी. 55 हाथरस जंक्शन हाथरस
183983	सन्तोष कुमार मौर्या रामा शंकर मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57480 07/09/12	एस-8/89-ए, शिवपुर कोट पो.ऑ. शिवपुर वाराणसी
183984	सन्तोष कुमार विश्वकर्मा मंगरू आर. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57462 05/09/12	इटवां महाराज गंज संत रविदास नगर भदोही
183985	सन्तोष कुमार चतुरगुन राम	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2011	57092 04/07/12	ग्राम जमीन हरखोता पो.ऑ. धनहुला आजमगढ़

183986	सन्तोष कुमार सिंह संकटा सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57161 24/07/12	एस 26/243 के-6, गौतम विहार कॉलोनी मीरापुर बसही वाराणसी
183987	सन्तोष कुमार सिंह यादव शिवधर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	57026 18/06/12	ग्राम नसिरपुर बलिया पो.ऑ. कोटवा नारायणपुर बलिया
183988	सपना कटियार शिवराम सिंह कटियार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57815 24/12/12	कटिहार क्लीनिक फाफूप चौराहा दिबियापुर औरैया
183989	सपना सिंह नितिन सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57923 06/03/13	मकान नं. 431, मेधाखेड़ी सदर थाना मेधाखेड़ी मुजफ्फर नगर
183990	सपना सिंह परिहार जोगेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57431 31/08/12	नगर पालिका के सामने कोटबाजार नगर हमीरपुर
183991	सारिका कुमारी हेमंत कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57747 12/11/12	ग्राम और डाकघर थाना गुदनी सिवान बिहार
183992	सरिता देवी कृष्ण कुमार	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57529 12/09/12	मोहल्ला बुद्धोलियाना राठ हमीरपुर
183993	सरिता मौर्या इन्द्रजीत मौर्या	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57112 09/07/12	मकान नं. 586 ग्राम और डाकघर बसखरी अम्बेडकर नगर
183994	सरिता सिंह ज्ञान शंकर प्रसाद	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2012	57906 26/02/13	ग्राम जगमपुर ससवाही थाना लंका वाराणसी
183995	सरोज कुमार मिश्र विजय कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57154 20/07/12	मोहल्ला दिलेर गंज घास मण्डी तिराहा शाहबाद हरदोई
183996	सर्वेश कुमार भारती मरछू राम	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57935 12/03/13	ग्राम और डाकघर मेयुदी मरु
183997	सर्वजीत सिंह रमेश पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57187 30/07/12	बी.बी.जे.ई. चौराहा गंगाराम की चक्की शाहजहां पुर
183998	सतीश कुमार हेमचन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57652 01/10/12	आयुर्वेदिक फॉर्मसी ग्राम और डाकघर गोथारा बागपत
183999	सतीश कुमार महेश पाल कनोजिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57232 13/08/12	ग्राम और डाकघर बालापुर ऊन्नाव

184000	सतीश कुमार सियाराम जायसवाल	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57255 14/08/12	ग्राम परोती पो.ऑ. अगागहाता लखीमपुर खीरी
184001	सतीश मिश्र जगत नारायण	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57990 18/03/13	137 ए/17बी, 30 फीट रोड़ राजरूप पुर इलाहाबाद
184002	सतवंत सिंह गणेश प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2010	57621 26/09/12	ग्राम और डाकघर पैगमबरपुर तहसील नरेनी बोंदा
184003	सत्य कुमार कुन्दन लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57349 28/08/12	ग्राम रसूलपुर पो.ऑ. लूमामऊ तहसील सन्दीला हरदोई
184004	सत्य प्रकाश गुप्ता मिश्री लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	57609 24/09/12	923, चांदपुर का हाता मुठ्ठीगंज इलाहाबाद
184005	सत्यव्रत सिंह दीप्ति सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57428 31/08/12	ग्राम चन्द्रा पो.ऑ. जैमाई सिकोहाबाद फिरोजाबाद
184006	सीमा मौर्या गामा प्रसाद मौर्या	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2012	57612 25/09/12	घूजसर नाथधाम रोड़ लालगंज प्रतापगढ़
184007	शचिन्द्र त्रिपाठी सूर्य कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57894 22/02/13	ग्राम सहाजीपुर पो.ऑ. संग्रामपुर अन्तू अमेठी
184008	शदाब शहजाद हुसैन मिर्जा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57139 16/07/12	मोहल्ला कोटला गंगोह सहारनपुर
184009	शहंशाह आलम इरशाद अहमद	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57611 25/09/12	ग्राम चामावन पो.ऑ. फूलपुर आजमगढ़
184010	शैलेन्द्र अगारिया राकेश अगारिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57741 08/11/12	मकान नं. 565, आजादपुर ललितपुर
184011	शैलेन्द्र कुमार वर्मा देवलाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57951 12/03/13	127/324 ए जूही बारादेवी कानपुर
184012	शैलेन्द्र कुमार गिरिजा प्रसाद मौर्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57397 30/08/12	69 सी/1, तिलक नगर बाघम्बरी अलापुर इलाहाबाद
184013	शैलेन्द्र कुमार मिश्र नरेन्द्र कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	56975 25/05/12	ग्राम दूफैदिया पो.ऑ. चेताराम तहसील तरबागंज गोंडा

184014	शैलेन्द्र कुमार तिवारी कृष्ण तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	57635 27/09/12	तिवारी सदन सिविल लाईन्स लखनऊ रोड़ बाराबांकी
184015	शैलेन्द्र प्रताप अजय पाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57388 29/08/12	ग्राम और डाकघर भेनसा बाजार गोरखपुर
184016	शैलेन्द्र तोमर ऋषिपाल तोमर	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57109 06/07/12	575, कृष्णापुरी मुजफ्फर नगर
184017	शैलेन्द्र यादव धरमवीर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57567 14/09/12	ग्राम राजपुर मिल्क पो.ऑ. कृष्णापुर गवदी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद
184018	शालिनी गुप्ता दिलीप कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57381 29/08/12	सी 2/53, विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ
184019	शालिनी मिश्र आलोक मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57319 27/08/12	212, मास्टर कॉलोनी आशिक महोली सीतापुर
184020	शालिनी यादव रमा कान्त	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57800 17/12/12	टी 3/4, मालिवादा 3 गाजियाबाद
184021	शालू पाण्डेय सुभाष चन्द्र पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57563 14/09/12	ग्राम और डाकघर हीरा पट्टी आजमगढ़
184022	शालू शर्मा राकेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2009	56922 01/05/12	मोहल्ला सदलगंज मकान नं. 819 कस्बा नकुड़ पो.ऑ. खास सहारनपुर
184023	शान्ति भूषण सिंह यादव सुदर्शन सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57221 09/08/12	ग्राम ब्रहमेन पो.ऑ. हनुमानगंज बलिया
184024	शकील अहमद मोहम्मद शरीफ सिद्दीकी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57701 11/10/12	ग्राम और डाकघर तादियावान हरदोई
184025	शकील अनवर मोहम्मद हबीब	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2009	57668 04/10/12	ग्राम और डाकघर डीह सी.एस.एम. नगर रायबरेली
184026	शरद कनोजिया राम सनेही कनोजिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57421 31/08/12	ग्राम और डाकघर बाघोली हरदोई
184027	शरद कुमार विश्वकर्मा गया पी. विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57363 28/08/12	ग्राम देहजुरी पो.ऑ. सिकरारा जौनपुर

184028	शशि गुप्ता कृष्ण सहाय गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57950 12/03/13	एम.आइ.जी. 2,33, जामुनीपुर कॉलोनी भदोही
184029	शशि कान्त कलपनाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2012	57929 11/03/13	ग्राम चकलोला पो.ऑ. सकलपुर कपसेठी वाराणसी
184030	शशि कान्त यादव राम केवल यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57481 07/09/12	ग्राम बभनीकलॉ पो.ऑ. सरवण मऊ
184031	शशि प्रिया सिंह शीतला प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57036 21/06/12	छितकपुर पो.ऑ. कृयात चुनार पो.ऑ. हांसीपुर मिर्जापुर
184032	शशि राजपूत शिवकान्त सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57019 07/06/12	229/12, ज्यन्तीपुर प्रीतम नगर इलाहाबाद
184033	शीला शर्मा अनिश शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	56888 11/04/12	मंगत राम अस्पताल के सामने नई बस्ती जय प्रकाश वार्ड थाना कतनी
184034	शेखर कुमार प्रमोद कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57372 28/08/12	ग्राम और डाकघर ऊना शामली
184035	शैलोन राठौर राजीव कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57913 04/03/12	मकान नं. 345/6, महावीर नगर फिरोजाबाद
184036	शिल्पी अरुण कुमार	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57152 20/07/12	9, पिकोरा शिव गुलाम ए. पचपेदिया तहसील बस्ती बस्ती
184037	शिप्रा गुप्ता सौरभ कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57370 28/08/12	आर.के. नर्सिंग होम सर्पाफा बाजार मन्दिर वाली फरूखाबाद
184038	शिशिर कुमार मिश्र पुष्कर नाथ मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57287 21/08/12	मकान नं. 212, मतवारगंज एलावल आजमगढ़
184039	शिव कुमार केन्द्र पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57446 04/09/12	ग्राम सुसमय पो.ऑ. रती का नगला हाथरस
184040	शिव कुमार शर्मा हरि दत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2006	57153 20/07/12	जी 295, राम पार्क खानपुर मोरह लोनी गाजियाबाद



184041	शिव कुमार शर्मा बन्धू लाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	57982 18/03/13	ग्राम बगदी व्यास नगर पो.ऑ. धुलटीपुर अब्दुल रहीमपुर चन्दोली
184042	शिवम चौरसिया नरेन्द्र के. चौरसिया	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57945 12/03/13	सी 13/3, औरंगाबाद वाराणसी
184043	शिवानी गुप्ता वैभव वाष्ण्य	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57564 14/09/12	पंजाब नेशनल बैंक के पास रुदेन बदायूं
184044	शिवानी कनोजिया विरेन्द्र के. कनोजिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57406 31/08/12	547/45, जलालपुर कॉलोनी राजाजी पुरम लखनऊ
184045	शिवानी शुक्ला अमित शुक्ला	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	56992 01/06/12	4/93, महादेव प्रसाद स्ट्रीट फारूखाबाद
184046	शिवदीप कुमार मूल चन्द्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57413 31/08/12	बजरंग चौक गांधी नगर महोबा
184047	शिवी सक्सेना प्रमोद कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57577 18/09/12	138, प्रेम नगर दिव्या प्रकाश प्रैस के पास बरेली
184048	शोभा आनन्द आनन्द कुमार	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57934 12/03/13	73/20ए/2ए, स्टैनले रोड नयापुरा इलाहाबाद
184049	शोभना श्रीवास्तव अवधेश के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57602 21/09/12	एस.एस. 1 सैक्टर ए/280, सीतापुर रोड़ योजना अलीगढ़ लखनऊ
184050	श्रद्धा राय अनिरुद्ध प्रसाद राय	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57211 07/08/12	ग्राम तेजपुर पो.ऑ. रंगड़ीह आजमगढ़
184051	श्रद्धा त्रिपाठी रविन्द्र नाथ त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	57812 21/12/12	सिविल लाइन पो.ऑ. तितरी बाजार नगर पालिका सिद्धार्थ नगर
184052	श्रवण कुमार सिरौही रणधीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2009	56910 20/04/12	12, नवीन नगर सहारनपुर
184053	श्रवण कुमार मिश्री लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57434 31/08/12	ग्राम काजूराम का पुरा पो.ऑ. मऊ चित्रकूट
184054	श्रीकान्त पाण्डेय रामापति पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57968 12/03/13	74ए/23ए, सरयू कॉलोनी पुरा गदेरिया शिवकूटी इलाहाबाद

184055	श्रृंखला मिश्र बृजेश कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57377 28/08/12	10सी, गूजन विहार कालोनी आलू मण्डी रोड़ फारूखाबाद
184056	शुभा गुप्ता पवन कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57987 18/03/13	सेठ ऑयल मिल 245, वार्ड नं. 8, तिलक नगर महदोगढ़ जालौन
184057	शुभा वर्मा मुक्ता प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57754 21/11/12	वर्मा अस्पताल यमुना रोड़ ओम नगर जालौन
184058	शुभम गर्ग संजीव कुमार गर्ग	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57762 29/11/12	मोहल्ला 77, पुठी दरवाजा मवाना मेरठ
184059	शुभम सक्सेना रजनीश कुमार सक्सेना	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57783 07/12/12	फरूखपुर फरीदपुर बरेली
184060	शुभी रस्तोगी अश्वनी के. रस्तोगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57171 26/07/12	352, चाहशोर कोतवाली तहसील मेरठ मेरठ
184061	शुक्ल आनन्द कुमार शोभा नाथ शुक्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57763 29/11/12	ग्राम तन्नई पो.ऑ. छापर थाना चन्दा सुल्तानपुर
184062	श्वेता गुप्ता अरुण कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57386 29/08/12	283/6, जागृति विहार मेरठ
184063	श्वेता गुप्ता हरि शंकर गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57420 31/08/12	135/1ए, सी.पी. मिशन कम्पाउण्ड ग्वालियर रोड़ झांसी
184064	श्वेता कपूर रवि कपूर	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57404 31/08/12	मकान नं. 280, सहित्य विधर कॉलोनी किरतपुर रोड़ बिजनौर
184065	श्वेता रानी विनोद कुमार शुक्ल	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57284 21/08/12	3/3347, कपिल विहार के पास विका सहारनपुर
184066	श्वेता साहू गणेश प्रसाद साहू	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57238 13/08/12	4/51, महामाना नगर महतवाला, मड़ियाहूँ जौनपुर
184067	श्वेता सिंह जगदीश प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57027 19/06/12	एन. 9/40, केँ 17, संत गोपाल नगर पो.ऑ. बजारडीहा वाराणसी
184068	श्वेता सिंह प्रमेश कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57051 28/06/12	एस. 15/3-1-के-1, धोसाबाद नदेसर वाराणसी

184069	श्वेता सिंह पंकज कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57631 27/09/12	89, देवाधिया 2 देवातिया बलिया
184070	श्वेता सिंह अर्जुन सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57448 04/09/12	पो.ऑ. राजकीय इन्टर कॉलेज देवरिया
184071	श्वेता सिंह सच्चिदानन्द सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57953 12/03/13	3/526, विवेक खंड 3 गोमती नगर लखनऊ
184072	श्वेता वर्मा अमित कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56889 13/04/12	111-एस, अब्दुल्लापुर ए तहसील अकबरपुर अम्बेडकर नगर
184073	श्वेता यादव किशन लाल यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57818 26/12/12	15/297, यू.एच.एम. अस्पताल कैम्पस सिविल लाईन कानपुर
184074	श्याम नारायण वर्मा बंशराज वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57486 10/09/12	ग्राम ननसा पो.ऑ. फतेहपुर कामसिन फैजाबाद
184075	श्याम पाल राम सेवक	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57225 13/08/12	ग्राम लालोर गुजरानपुर पो.ऑ. किशनी बरखेड़ा बेटालपुर पीलीभीत
184076	श्याम सिंह निरंजन प्रहलाद सिंह	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2010	57107 06/07/12	ग्राम और डाकघर चिली ब्लॉक दकोर ऊर्ई जालौन
184077	श्यामजी दुबे दयाशंकर दुबे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57173 26/07/12	ग्राम अस्ती पो.ऑ. राया संत रविदास नगर भदोही
184078	सिद्धार्थ चौबे नाथू लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57253 13/08/12	मकान नं. 485, आजादपुर गंजारा पैलेस के पास ललितपुर
184079	सिद्धार्थ सिंह गौतम राधे श्याम	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 2011	57537 12/09/12	प्रिंस आइसक्रीम फैक्टरी प्रचीन दरवाजा ओरेया
184080	सिद्धार्थ सिंह रुद्रपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2004	57752 21/11/12	एस 1/49 ए-7, जय नगर कॉलोनी, गिलट बाजार वाराणसी
184081	समिता शाम्या गिरेन्द्र सिंह शाम्या	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57677 05/10/12	1/236, न्यू सैनिक कॉलोनी नगला दीना फतेहगढ़ फारूखाबाद
184082	स्नेहा एम. कुमार मनोज कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57342 28/08/12	एस. 26/238-एच, मिरापुर बसही शिवपुर वाराणसी

184083	सोनल सिंघल कीर्ति कुमार सिंघल	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56976 25/05/12	मकान नं. 882, अलयाई कॉलोनी मौरानीपुर झांसी
184084	सोनिया मनीष कुमार	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2009	57847 21/01/13	मकान नं. 06/2, लेन नं. 13 गांधी कॉलोनी मुजफ्फर नगर
184085	सोनिया वर्मा जगदीश प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57052 28/06/12	जयमूर्ति निवास रेलवे स्टेशन के पास सरफुददीनपुर आजमगढ़
184086	सोनिका कौशल कमलेश कुमार कौशल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57765 29/11/12	तेल वाली गली के सामने बांदा रोड़, अर्त्तरा बाँदा
184087	सोनिका सिंह आशीष कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57591 20/09/12	राम आई.जी. 105, आवास विकास परिहद योजना नं.1 डी.एम. रोड़ बुलंदशहर
184088	सोनी भूप सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57423 31/08/12	अम्बिकापुरी बैंक कॉलोनी सिविल लाईन्स बदायूं
184089	सोनी रानी मोहम्मद शैफी खान	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2010	57362 28/08/12	बी 12/62, गौरीगंज भेलपुर वाराणसी
184090	सोनी यादव संजीव यादव	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2011	57607 24/09/12	क्वार्टर नं. 336, सदर बाजार न्यू कैन्ट इलाहाबाद
184091	सौम्या गुप्ता राम गोपाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57049 28/06/12	2/41, विराट खण्ड गोमती नगर लखनऊ
184092	सौरभ गुप्ता सुरेश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57321 27/08/12	296, चौथी गली निशान्त गंज लखनऊ
184093	सौरभ खरे ओम प्रकाश खरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	56970 23/05/12	पुरानी तहसील रोड़ कुलपहाड़ महोबा
184094	सौरभ कुमार सिंह असेन्द्र प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57545 12/09/12	ग्राम और डाकघर सिकरोर सहबारी आजमगढ़
184095	सौरभ पाण्डेय रामहृदय पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57483 09/09/12	मकान नं. 71, आदर्शपुरम देवकली फैजाबाद
184096	सौरभ सिंह सिसोदिया भानू प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57598 21/09/12	ग्राम और डाकघर अन्थुवा अत्तारा बाँदा

184097	सौरभ तिवारी राम गोविन्द तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57272 16/08/12	498 बी, शिवाजी नगर झांसी
184098	सुभाष चन्द जगमेहर सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2012	57904 26/02/13	ग्राम और डाकघर लूम्ब बागपत
184099	सुभाष कुमार साहनी बुत्तल साहनी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57383 29/08/12	ग्राम और डाकघर भुजना चन्दोली
184100	सुदामा प्रसाद पतिलाल प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57915 05/03/13	ग्राम भैरवा पो.ऑ. रूबी मायादाउद छपरा बिहार
184101	सुदेश कुमार जय प्रकाश पासवान	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि. वि., लखनऊ 2010	57506 11/09/12	ग्राम अमरवा बुजुर्ग तमकुही राज कुशी नगर
184102	सुधांशू शेखर द्विवेदी अरुण प्रकाश द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57186 30/07/12	ग्राम अहार विहार पो.ऑ. अतेहा प्रतापगढ़
184103	सुधांशू श्रीवास्तव हरि एस. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57908 27/02/13	बरियाघात, वसलीगंज मिर्जापुर
184104	सुधीर कुमार छोटेलाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56893 16/04/12	मुंदेरा बाजार डीह स्थान चोरी चौरा गोरखपुर
184105	सुधीर कुमार जैन पदम चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57117 10/07/12	480, लक्ष्मीपुरा सागर रोड़ ललितपुर
184106	सुधीर कुमार वर्मा राम खेलावन वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	56972 24/05/12	ग्राम केमासुर पो.ऑ. तिकर थाना फरधान लखीमपुर खीरी
184107	सुजाता सिंह बिजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	57777 04/12/12	एन.ए. त्यागी नगर सेवला जाट आगरा
184108	सुल्तान रानी तेजवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57576 18/09/12	782 के, मुरारी नगर 4 सिद्धेश्वरी रोड़ खुर्जा बुलंदशहर
184109	सुमित गोयल अरविन्द गोयल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57888 15/02/13	मकान नं. 32, भागवती कॉलोनी बेहत रोड़ सहारनपुर
184110	सुमित कुमार देवेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57803 17/12/12	ग्राम और डाकघर तिबदी तहसील धामपुर बिजनौर

184111	सुमित कुमार राजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57716 15/10/12	ग्राम और डाकघर नवीगंज तहसील दातागंज बदायूं
184112	सुमित कुमार शर्मा राज कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56939 09/05/12	9/5 103, गली नं. 1 कौशिकपुरी पूर्वी
184113	सुमित राजपूत पूरन लाल राजपूत	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57013 07/06/12	डॉ. पी.एल. राजपूत 115 एफ गोविन्द नगर मथुरा
184114	सुनील कुमार बलवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57427 31/08/12	ग्राम और डाकघर जलालपुर बिजनौर
184115	सुनील कुमार मिश्रा दिनेश चन्द्र मिश्रा	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	56974 25/05/12	अष्टभुजा नगर प्रतापगढ़
184116	सुनील कुमार सिंह सूर्य नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	57219 09/08/12	जैड 35ए, सैक्टर 12 नोएडा सैक्टर 24 गाजियाबाद
184117	सुनील कुमार सिंह ओमकार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57676 05/10/12	मोहल्ला महाजनन बदी बखरी, जलालाबाद शाहजहांपुर
184118	सुनील कुमार वर्मा राम चरित्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57436 03/09/12	डबल्यू 1369 आवास विकास कॉलोनी गोंडा
184119	सुनील कुमार वर्मा सत्य प्रकाश वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57780 07/12/12	ग्राम और डाकघर खरवाहिया नं.1 लखीमपुर खीरी
184120	सुनिष्ठा सिंह सौरभ सुमन शरेल	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57169 25/07/12	22 रेलवे कॉलोनी, जय निगम रोड़, बालागंज लखनऊ
184121	सुनीता वरुण टोलन प्रसाद वरुण	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57464 6/09/12	285के/438, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ
184122	सुनीता वर्मा पुन्नी लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57407 31/08/12	दीनदयाल कॉलोनी बिलराम गेट कैसगंज
184123	सुनीता विश्वकर्मा मुशीराम विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57649 01/10/12	ग्राम बधोली पो.ऑ. फतेहगंज जौनपुर
184124	सुफल राय श्रीदाम चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2006	57366 28/08/12	28, विष्णु कॉलोनी शाहगंज आगरा

184125	सुरेन्द्र कुमार रामदरश	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57981 15/03/13	ग्राम कैथोली पो.ऑ. चकलाल चन्द आजमगढ़
184126	सुरेन्द्र कुमार पटवा रामाकान्त पटवा	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	57837 11/01/13	मोहल्ला गरुलपर रेलवे लाईन के पास देवरिया
184127	सुरेश चन्द्र मौर्या घिनहू राम	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2009	57198 10/08/12	ग्राम ओसानपुर पो.ऑ. बहिती तहसील हण्डिया इलाहाबाद
184128	सुरेश कुमार वर्मा शिव शंकर वर्मा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57984 18/03/13	ग्राम लक्खी पो.ऑ. लखनपुर छोलापुर वाराणसी
184129	सूर्य भान सिंह विरेंद्र प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57098 05/07/12	ग्राम घामहापुड़ पो.ऑ. गंगपुर वाराणसी
184130	सूर्य प्रकाश धरम प्रकाश आर्य	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57594 20/09/12	आर्य सदत्त असावरा रोड़ पलवल हरियाणा
184131	सूर्य प्रताप राजवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2005	56993 01/06/12	ग्राम रामनगर तहसील मवाना मेरठ
184132	सूर्य वीर प्रताप सिंह सुरेश बाबू चौहान	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57018 07/06/12	मकान नं. 1/139, आवास विकास कॉलोनी फारूखाबाद
184133	सुशील कुमार बेचन प्रसाद	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57060 28/06/12	मकान नं. 268, बी रुस्तमपुर बुद्ध नगर पो.ऑ. शिवपुरी गोरखपुर
184134	सुशील कुमार जायसवाल रामदास जायसवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57510 11/09/12	ग्राम और डाकघर चांदपुर बाजार महमुदाबाद सीतापुर
184135	सुषमा सिंह वीरपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57574 18/09/12	कॉलोनी, रामबाग आगरा
184136	सुश्रुत यादव केशव सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57878 07/02/13	नया सर्राफा बाजार करहल मेनपुरी
184137	सुवीर सिंह शिशोदिया विरेंद्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	57932 11/03/13	10ए, माडल टारुन ईस्ट एन सिनेमा हॉल के पीछे गाजियाबाद
184138	सुव्रत कुमार विश्वास पंकज कुमार विश्वास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2013	57986 13/03/13	वार्ड नं. 5, थाना एवं तहसील हण्डिया इलाहाबाद

184139	स्वपनिल कैथवास प्रमोद कुमार कैथवास	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57095 04/07/12	568/4 छ-7 कैलाशपुरी ए आलमबाग लखनऊ
184140	स्वर्ण कान्त गुप्ता सुभाष चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57511 11/09/12	574पी. पारवती नगर शाहपुर पो.ऑ. गीतावाटिका गोरखपुर
184141	स्वतंत्र कुमार मौर्या सुरेश कुमार मौर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57473 06/09/12	ग्राम और डाकघर लोहटा पंचशील नगर वाराणसी
184142	स्वाति शुक्ला सुरेश कुमार शुक्ला	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2011	57170 25/07/12	ए29, भेल खैलर झांसी
184143	स्वाति सोनी लक्ष्मी चन्द्र सोनी	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57493 10/09/12	मकान नं. 182 राधा कुन तहसील गोंडा गोंडा
184144	सयैद रशीद नसीम मुहम्मद नसिमुद्दीन	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	57045 27/06/12	मुहल्ला लोधीपुर कस्बा जामिया वार्ड नं. 8 मिर्जापुर
184145	तनु चौहान सत्यवृत्त सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हेल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57338 27/08/12	मकान नं. 318 बी 14 नई बस्ती बिजनौर
184146	तनु मुदगल कमल कान्त मुदगल	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57503 10/09/12	345, गीता मार्ग रेलवे रोड श्री नगर, हापुड़ पंचशील नगर
184147	तान्या लाल कृष्ण देव जिन्दल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57743 09/11/12	जिन्दल हाऊस, बाई पास मण्डी धनौरा अमरोहा ज्योतिबा फुलेनगर
184148	तरन्नूम जहाँ इकबाल हुसैन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57204 06/08/12	1के बहेरी 1, तहसील बलिया बलिया
184149	तरुण कुमार ललित कुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57980 15/03/13	बी 157, पप्पन कलां सैक्टर 1, द्वारका न्यू दिल्ली
184150	तेशु हुड्डा विनय कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56883 10/04/12	मोहल्ला पछाला पश्चिम बुधाना मुजफ्फर नगर
184151	त्रिपति राय विधान चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57616 25/09/12	ग्राम मुरादपुर पो.ऑ. बौदा शाहजहांपुर
184152	तुलिका गुप्ता संदेश कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57764 29/11/12	द्वारा श्री सत्य प्रकाश डमारिया गंज सिद्धार्थ नगर



184153	ऊमा वर्मा चन्द्र एस. वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57282 21/08/12	529/06, शिवाजी नगर कानपुर रोड़ झांसी
184154	उमंग आर्या सुरेश चन्द्र आर्या	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	56977 25/05/12	मकान नं. 201, नई बाजार पो.ऑ. भरवारी कौशम्बी
184155	उमेश चन्द्र गुप्ता रामसूरत गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57072 29/06/12	ग्राम यूसुरी सरघा चकतातर पो.ऑ. बहादुरगढ़ मधुवन मऊ
184156	उमेश जगन्नाथ मिश्र सुरेश चन्द्र मिश्र	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर 2009	57660 03/10/12	ग्राम निवासी जमुनधाना खुर्द पो.ऑ. धतवार, ललितपुर
184157	उमेश कुमार श्रीवास्तव श्याम बाबू	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57316 24/08/12	बनखैया जिला फतेहगढ़ फरूखाबाद
184158	उम्मी सलमा नेसर अहमद सिद्धीकी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57697 08/10/12	बी 676/7, जी.टी.बी. नगर करेली इलाहाबाद
184159	उपेन्द्र कुमार निरंजन विजय सिंह निरंजन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57758 22/11/12	निरंजन टीचर वीरगुवान वाले ग्राम और डाकघर पनियारा जालौन
184160	उर्विलेश वर्मा लाल चन्द्र	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57009 06/06/12	बी 38/2674, प्रथम तुलसीपुर महमूर गंज वाराणसी
184161	उर्वी सिंह जगपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2012	57850 23/01/13	ए-1, हलवासिया अपार्टमेन्ट एन्कलेव, इन्द्रा नगर लखनऊ
184162	उषा चौहान नगेन्द्र चौहान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	57184 30/07/12	ग्राम और डाकघर कसारा थाना कोपागंज गाजीपुर
184163	वैभव दीक्षित प्रभा एस. दीक्षित	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57182 30/07/12	89ए, राम वाटिका कॉलोनी बरेली
184164	वर्षा शुक्ला शैलेन्द्र के. शुक्ला	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57468 06/09/12	145बी/15ए, चांदपुर सलोरी, तेलियारगंज इलाहाबाद
184165	वर्षा सिंह त्रिभूवन एन. सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57158 23/07/12	सी.के. 52/22 राजा दरवाजा चौक वाराणसी
184166	वरुण कुमार श्रीवास्तव विरेन्द्र लाल श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56996 01/06/12	ग्राम और डाकघर पीपरा वघेल उत्तर पट्टी देवरिया

184167	वरुण कुमार चौबे सतीश कुमार चौबे	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2011	57900 25/02/13	बी 656, इन्दिरा नगर आवास विकास कॉलोनी रायबरेली
184168	वरुण कुमार पाण्डे राधे मोहन पाण्डे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57614 25/09/12	मकान नं. 575/1, सूरज वकील के पीछे आइडिया टॉवर के पास सुल्तानपुर ग्राम पीपरहवा पो.ऑ. पचगावा सिद्धार्थ नगर
184169	वशीयूदीन सहाबुद्दीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	57843 17/01/13	150, बिहारीपुरा प्रेमनगर झांसी
184170	वेद प्रकाश सोहन लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57289 21/08/12	ग्राम वभनोली पो.ऑ. हंसराजपुर गाजीपुर
184171	वेद प्रकाश शर्मा सुबच्चन राम	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57296 22/08/12	116, आवास विकास कॉलोनी लखीमपुर खीरी
184172	वेद प्रकाश सिंह ओम प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	57047 28/06/12	ग्राम गुवावन जमालपुर पो.ऑ. धुवरुवा मालीपुर अम्बेडकर नगर
184173	वेद प्रकाश यादव राम बरन यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57623 26/09/12	मकान नं. 69 ग्राम और डाकघर जनादी बलिया
184174	वेद रत्तन पाण्डेय प्रेम भूषण पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1999	57706 12/10/12	ग्राम रामनगर पो.ऑ. एवं थाना लार देवरिया
184175	विभा कुमारी श्याम सुन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57673 05/10/12	ग्राम और डाकघर रेतपुर वाराणसी
184176	विभा पटेल राजेश कुमार पटेल	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2013	57954 12/03/13	पंकज फार्मा क्रिएटिव कॉन्वेंट के पास सरोजिनी नगर लखनऊ
184177	विभा रानी रत्न रजनीश कसोदिया	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57785 10/12/12	जी 85, गंगानगर मवाना रोड़ मेरठ
184178	विभा सिंह ब्रह्म पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. महर्षि दयानन्द वि.वि., रोहतक 2010	57106 05/07/12	32, मोहल्ला भवन नजीबाबाद बिजनौर
184179	विभू भूषण माहेश्वरी राकेश के. माहेश्वरी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2009	56909 20/04/12	288/5ए, आनन्दपुरी रेलवे, रोड़ मेरठ
184180	विधू गुप्ता आशीष गुप्ता	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2009	57859 29/01/12	

184181	विद्या सागर राम कन्हैया राम	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57440 03/09/12	ग्राम अकोलही, पो.ऑ. व्यवहार लालगंज आजमगढ़
184182	विद्युत कुमार राय विजय कुमार राय	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57690 08/10/12	208, कानून गोयन पो.ऑ. एवं थाना बहेदी बरेली
184183	विजय बहादुर हरि कृष्ण यादव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	56940 09/05/12	अलानगरी मोहियूद्दीनपुर पो.ऑ. सरायम मरेज इलाहाबाद
184184	विजय कुमार सोमपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57740 08/11/12	ग्राम तिगरी पो.ऑ. भोपा मुजफ्फर नगर
184185	विजय कुमार राम शरण	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2012	57892 20/02/13	17, जे. रेल बाजार फतेहपुर
184186	विजय कुमार गुप्ता राज नारायण गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57835 10/01/13	ग्राम खेड़ा हालिया, लालगंज मिर्जापुर
184187	विजय कुमार मौर्या इन्द्रजीत मौर्या	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57641 28/09/12	ग्राम और डाकघर बसखरी अम्बेडकर नगर
184188	विजय कुमार शर्मा राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2008	57599 21/09/12	2/55, राम नगर कॉलोनी संजय पैलेस आगरा
184189	विजय कुमार शुक्ल बृजमोहन शुक्ल	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2010	56926 02/05/12	पशु चिकित्सालय के पास दक्षिण दरवाजा बस्ती
184190	विजय कुमार सिंह राधे श्याम सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57008 06/06/12	ग्राम और डाकघर कोरोटा वाराणसी
184191	विजय कुमार सिन्हा अधीर कुमार सिन्हा	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	56998 01/06/12	34, जखपुरा ए जखपरा बरेली
184192	विजय प्रकाश हरीराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2005	57541 12/09/12	116/42, शिवपुरी छपेड़ा थाना, कल्याणपुर कानपुर
184193	विजय प्रकाश दुबे भागवत प्रसाद दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2011	57277 16/08/12	2504/6ए, शिवपुरी निराला नगर सुल्तानपुर
184194	विजय प्रकाश शर्मा जगदेव प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2010	57301 22/08/12	मकान नं. 305 सुभाष नगर हरदोई

184195	विजय प्रताप सिंह रामाधर सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57057 28/06/12	122/1ए/63ए/आई.सी स्टैनले रोड, बेली कॉलोनी इलाहाबाद
184196	विजेन्द्र महावीर देवधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57100 05/07/12	ग्राम और डाकघर सूरजपुर थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर
184197	विजीत कुमार शोराज सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57080 02/07/12	ग्राम और डाकघर बिजरौल बडौत बागपत
184198	विकास बरानवाल कृष्ण बी. बरानवाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57350 28/08/12	ग्राम और डाकघर गोरामाफी प्रतापगढ़
184199	विकास भारद्वाज रामफल शर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57470 06/09/12	688ए, न्यू शिवपुरी खुर्जा बुलन्दशहर
184200	विकास जायसवाल रामाकान्त जायसवाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57667 04/10/12	ग्राम राजापुर पो.ऑ. बरियाल जौनपुर
184201	विकास कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57532 12/09/12	कुकड़ा सब्जी मण्डी के पास पटेल रोड, गांधी नगर मुजफ्फर नगर
184202	विकास कुमार सिंह विरेन्द्र कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	57924 06/03/13	ई 1412 राजाजीपुरम लखनऊ
184203	विकास मिश्र भैरों प्रसाद मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57402 31/08/12	बलदाऊगंज, गांधी गंज इलाहाबाद रोड, कर्वी चित्रकूट
184204	विकास श्रीवास्तव प्रमोद के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	57273 16/08/12	मोहल्ला पूरेखान पो.ऑ. रूदौली फैजाबाद
184205	विकास सिंह जगदीश प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2013	57977 12/03/13	मकान नं. 413 खुशहाल नगर सैक्टर ए, बदलालपुर वाराणसी
184206	विकास चन्द्र छविनाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57374 28/08/12	ग्राम नगला गुलाब पोस्ट निब करोरी फारूखाबाद
184207	विक्रम प्रताप सिंह सुनील कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57603 21/09/12	ग्राम और डाकघर रौरा तहसील सदर शाहजहाँपुर
184208	विक्रम त्यागी नरेश कुमार त्यागी	बी.ए.एम.एस. बाबा फरीद यूनि. आफ हैल्थ साईंसिस, फरीदकोट 2010	57157 23/07/12	72/58, स्टोर कम्बल वाला बाग मुजफ्फरनगर

184209	विमल कुमार मिश्र सुशील कुमार मिश्र	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57147 18/07/12	मकान नं. 309, मोहल्ला नरोत्तम नगर पो.ऑ. सिधोली सीतापुर
184210	विनय दुबे रामकृष्ण दुबे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	57028 19/06/12	ग्राम सेहुदा पो.ऑ. चकरवान थाना मदनपुर देवरिया
184211	विनय कुमार आर.पी. सेठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57499 10/09/12	सी.के. 65/28ए-1, बादी पियारी वाराणसी
184212	विनय कुमार गुप्ता अमर नाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2013	57963 12/03/12	ग्राम यूसूफपुर बाजार बतासा मण्डी पो.ऑ. मोहल्ला बाद गाजीपुर
184213	विनय कुमार शुक्ल राम ए. वर शुक्ल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	57554 02/07/12	73/8, लोक मन गंज चारबाग लखनऊ
184214	विनय कुमार सिंह लक्ष्मण सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	57799 17/12/12	सिकन्दरपुरा राठ हमीरपुर
184215	विनय कुमार वर्मा बजरंग सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	57215 08/08/12	ग्राम और डाकघर शाहबपुर बाराबांकी
184216	विनय शंकर छोटेला	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57125 13/07/12	मोहल्ला हाता बुजुर्ग गगाहा पो.ऑ. शिवपुर गोरखपुर
184217	विनीत कुमार सिंह भानू प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57416 31/08/12	ग्राम और डाकघर खजूर गाँव गाजीपुर
184218	विनीत यादव धनपाल यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57540 12/09/12	313, आदर्श नगर पो.ऑ. गढ़मुक्तेश्वर हापुड
184219	विनीत कुमार राजकुमार	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57325 27/08/12	165, डिफेन्स स्टेट फेस 1, वुंदुकटरा आगरा
184220	विनीत कुमार दुबे गंगाधर दुबे	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 2009	57773 03/12/12	ग्राम और डाकघर जिगना धाम थाना इटवा सिद्धार्थ नगर
184221	विनीत कुमार द्विवेदी राम आसरे द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ, पुणे (मानित विश्वविद्यालय) 2013	57875 02/07/12	सुभाष नगर हरदोई
184222	विनोद कुमार राजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57760 23/11/12	साकीपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर

184223	विनोद कुमार गोपी सिंह पचौरी	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57508 11/09/12	1/2128, विकास नगर न्यू एटा चुंगी, गेट रोड अलीगढ़
184224	विनोद कुमार कुंवर लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57429 31/08/12	ग्राम और डाकघर अयोध्या पूर्वा बड़ागांव भिखी कानपुर
184225	विनोद कुमार हीरालाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56905 18/04/12	ग्राम और डाकघर पदमाई तहसील नरेनी बौदा
184226	विनोद कुमार मुन्नी लाल	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2013	57058 28/06/12	ग्राम दक्षिण पट्टी पो.ऑ. बैजापुर, रामपुर जौनपुर
184227	विनोद कुमार सुभाष चन्द	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57242 12/08/12	ग्राम गुरमहान पो.ऑ. मर्यादपुर तहसील मधुवन मऊ
184228	विनोद कुमार रामबचन प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57003 05/06/12	मकान नं. 72, ग्राम भड़सार पो.ऑ. तिकमपर देवरिया
184229	विनोद कुमार हरिकृष्ण पी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57082 02/07/12	सुमाही बुजुर्ग मेहादिया पो.ऑ. पीपरा मुश्तकिल अगरवान कुशी नगर
184230	विनोद कुमार राम करन	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57305 23/08/12	ग्राम उसराहा जिरवैया पो. ऑ. करमीसिरपुर जलालपुर अम्बेडकर नगर
184231	विनोद कुमार सिंह विद्या सागर सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2006	57917 05/03/13	ग्राम तिघरा पो.ऑ. नारवान, छपरा सारन बिहार
184232	विनोद कुमार तिवारी कल्पनाथ तिवारी	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2011	57054 28/06/12	ग्राम पर्वतपुर सुलेमान पो.ऑ. लखीपुर कप्सा तहसील पट्टी प्रतापगढ़
184233	विपिन कुमार राजाबाबू गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57306 23/08/12	ददुआ बाजार बरगांव गोण्डा
184234	विपिन कुमार राजेश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	56962 21/05/12	ग्राम और डाकघर लालगंज आजमगढ़
184235	विपुल कुमार मुनीनाथ	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	57629 27/09/12	श्रीरामपुरम मोहादीपुर गोरखपुर
184236	विरेन्द्र कुमार राधे श्याम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 2012	57992 19/03/13	एम.सी. कॉलोनी मकान नं. 13/104 थसरसा हरियाणा

184237	विरेन्द्र कुमार झा धरम नारायण झा	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि. दरभंगा 1994	57804 18/12/12	आर 7, ई 73 राजनगर गाजियाबाद
184238	विरेश चन्द वर्मा राधे श्याम वर्मा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57268 16/08/12	ग्राम अलमहेयू पो.ऑ. राम मण्डई तहसील फतेहपुर बाराबांकी
184239	विशाल श्रीवास्तव विरेन्द्र के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57422 31/08/12	मकान नं. 25, हाईडिल कॉलोनी मोहददीपुर गोरखपुर
184240	विशाल उपाध्याय ज्ञानेन्द्र के. उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57700 11/10/12	883/ए, अशरफ टोला विष्णु पुरी हरदोई
184241	विश्वजीत राय विधान चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57382 29/08/12	वार्ड नं. 24, मालवीय नगर नौतनवां महाराज गंज
184242	विश्वकर्मा संजय कुमार महावीर विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57364 28/08/12	एस.बी. विश्वकर्मा कमरा नं. 2 दुर्गा नगर जोगेश्वर ईस्ट मुम्बई
184243	विश्वास कुमार राय रणविजय प्रसाद राय	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2009	57730 31/10/12	बी 32/32/139, साकेत नगर लंका, संकट मोचन वाराणसी
184244	विवेक कुमार राकेश चन्द्रपाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57586 19/09/12	जन कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र तिरवा रोड़ बेला औरैया
184245	विवेक कुमार श्रीवास्तव विरेन्द्र के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57524 11/09/12	सिविल लाइन मकान नं. 1014 गोण्डा
184246	विवेक कुमार गुप्ता विकास गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	57836 10/01/13	मकान नं. 27, पूर्वी गढ़ी खुटार शाहजहांपुर
184247	विवेक प्रधान योगेन्द्र के. प्रधान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57573 18/09/12	द्वारा श्री जे.बी. दलीला, सी 1059 राजाजीपुरम लखनऊ
184248	विवेक सिंह चौहान बृजराज सिंह चौहान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	56918 26/04/12	481, खंजान पूर्वा धर्मशाला रोड़ हरदोई
184249	विवेक त्यागी वी.डी. त्यागी	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2011	57717 17/10/12	बी 8, बृजेश नगर 2 ब्लॉक बी एवं ई 36 परिषद सहारनपुर
184250	विवेक नन्द सिंह रणजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	57083 02/07/12	मकान नं. 221, आवास विकास कॉलोनी बस्ती
184251	विजयानंद अमृत लाल	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57244 13/08/12	ग्राम पड़ाव पो.ऑ. गददी कछुवा मिर्जापुर

184252	वारिस अली खुर्शीद अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	57704 11/10/12	537—बी.एच., भारत नगर मोहिबुल्ला पुर सीतापुर रोड़ लखनऊ
184253	यादव लालू प्रसाद गौरी शंकर यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57365 28/08/12	7/16, तिवारी चौक, रासवेन्द्र मन्दिर ईस्ट मुम्बई
184254	यादव नीलम कन्हैया यादव	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2009	57559 14/09/12	184, हेतीमपुर चौधरी मुहम्मद अजमल 2 गाजीपुर
184255	यादव विजय कुमार सियाराम यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	57180 27/07/12	ग्राम बेलोन कलां बबूरीगांव पो.ऑ. बरसेठी तहसील मड़ीयाहूँ जौनपुर
184256	यशवंत कुमार सूर्यनाथ	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	56987 30/05/12	ग्राम पिदरी पो.ऑ. एवं थाना रामकोला कुशीनगर
184257	योगेश कुमार चौरसिया कालीचरण चौरसिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57354 28/08/12	ग्राम और डाकघर पीपरा चन्द्रभान देवरिया
184258	योगेश सिंह कुशवाहा हनुमान एस. कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57294 22/08/12	ग्राम और डाकघर बौरवां गाजीपुर
184259	योगेश्वर प्रसाद चन्देरिया महावीर पी. चन्देरिया	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57414 31/08/12	ग्राम और डाकघर होलीपुरा थाना चिरगाँव झांसी
184260	जहीर अहमद अजीज अहमद	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2010	57566 14/09/12	मोहल्ला इस्लाम नगर बहेदी बरेली
184261	जरीन खानम मेराज अहमद खान	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	57558 14/09/12	263, मुस्तफा मंजिल बिहारीपुर करोलां बरेली

**भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका**  
**उत्तर प्रदेश**  
**भाग-2 यूनानी**

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/ पंजीयन तिथि	पता
25358	निदा हसन सैय्यद अली आजम जाफरी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15572 31/12/12	बेतुल मुस्तफा एजा अस्पताल के पास सुल्तान बहादुर रोड़ कजमान लखनऊ
25359	अब्दुल अजीम अली हसन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15284 18/09/12	ग्राम रोमनदाई, पो.ऑ. चम्पापुर सिद्धार्थ नगर



25360	अब्दुल हफिज अब्दुल वहाब	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15052 05/06/12	ग्राम गुलवा गौरी, पो.ऑ. बिंदवाल आजमगढ़
25361	अब्दुल हफिज खानजादा मोहम्मद लईक खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15558 24/12/12	161, बेनी चौधरी, पीलीभीत
25362	अब्दुल हलीम अंसारी अब्दुल क्यू अंसारी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15110 09/07/12	ग्राम बामनपुरा, पो.ऑ. महुई थाना गोरखपुर
25363	अब्दुल हक शमसुल हक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15196 29/08/12	मकान नं. 78, मोहल्ला, मुफती सराय चांदपुर, बिजनौर
25364	अब्दुल खालिक शकील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15537 12/12/12	ग्राम राजपुर पो.ऑ. सिम्भावली गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़
25365	अब्दुल खालिक मोहम्मद अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15051 05/06/12	ग्राम और डाकघर बंसखोर कलौ तहसील रूपधोली बाजार, बस्ती
25366	अब्दुल मनान्न अब्दुल हई	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2009	15278 14/09/12	ए.एल. हमीद अस्पताल, वार्ड नं. कसबा अलापुर, बदायूं
25367	अब्दुल माजिद अब्दुल वहाब	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15520 04/12/12	मोहल्ला मौसम खानी बहरोदा रोड़ कसबा किथौर, मेरठ
25368	अब्दुल नईम अब्दुल माजिद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15332 24/09/12	2.55 एच सैन्ट्रल पॉवर हारुस, रेलवे कॉलोनी आजमगढ़, लखनऊ
25369	अब्दुल रहीम मोहम्मद नसीम एहसान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14993 14/05/12	मुहल्ला नसीम एहसान, सिकरीगंज गोरखपुर
25370	अब्दुल रहमान मुकर्रम अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15423 11/10/12	मकान नं. 605, दोताई, गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़
25371	अब्दुल सलाम खान छित्तन मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	14987 09/05/12	ग्राम गुलरीहा घाट, पो.ऑ. गुदरा मोहल्ला तुलसीपुर, बलरामपुर
25372	अब्दुल वाहिद मोहम्मद असलम	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15146 25/07/12	मकान नं. 212, मोहल्ला चगास चिरागली बादशाह गली चांदपुर बिजनौर
25373	अब्दुर रहमान अनसार अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15280 14/09/12	ग्राम और डाकघर नंदोन तहसील निजामाबाद, आजमगढ़

25374	अब्दुर रहमान मोहम्मद असलम	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15593 29/01/13	ग्राम और डाकघर कोटिला थाना रानी की सराय, आजमगढ़
25375	अब्दुर रहमान अंसारी अब्दुल रब	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15430 12/10/12	ग्राम पीपरी कोलहुई पो.ऑ. दरी चौरा थाना उतरोला, बलरामपुर ग्राम बाबूपट्टी पो.ऑ. बंजारिया बाजार थाना तरकुलवा, देवरिया
25376	अबरार अब्दुल हक	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15228 07/09/12	मकान नं. 56, जीवनपुरा प्रेम नगर, झांसी
25377	अबरार अहमद अंसारी खुर्शीद अहमद ए.	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15639 05/03/13	ग्राम छिछोरी पो.ऑ. छिही बिलारिया गंज, आजमगढ़
25378	अबू फहद हाजी मोहम्मद फारूख	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15211 04/09/12	तकिया हकीम जान अली शाह धरनीधरपुर, जौनपुर
25379	अबू ओसामा रईस आलम	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15053 07/06/12	द्वारा शकील मेडिकल स्टोर बीनापारा सरायमीर, आजमगढ़
25380	अबू शाहिद अबू सालेह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15321 13/07/12	ग्राम और डाकघर बजाहा बाजार तहसील सोहरत गढ,सिद्धार्थ नगर
25381	अबू शाहमा अब्दुल वहाब	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15440 17/10/12	उसरहाता, शाहगंज, जौनपुर
25382	अबू उमर जुबर अहमद	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2011	15512 04/12/12	ग्राम देवली खेडा यू.आर एफ. जैनपुर सरधना पो.ऑ. मेनपुठी मेरठ
25383	अब्दुल हसन जुल्फकार अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15082 22/06/12	240, शराफतुल्ला 2, गुलावठी बुलन्दशहर
25384	अबुल वाहिद शाहे आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15542 17/12/12	ग्राम और डाकघर काबुलपुर थाना जलालपुर, जौनपुर
25385	अबूसहमा सिद्धीकी सलाहुद्दीन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15244 11/09/12	ग्राम सैदुल्लाहपुर पो.ऑ. कोहड़ा थाना पवाई, आजमगढ़
25386	अबूजैद सिद्धीकी बदरुद्दीन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15212 04/09/12	कुचा भीतर, रायबरेली
25387	अदिबा कमाल कमाल अख्तर अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15269 13/09/12	

25388	अदनान वसी हाजी वसी अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15371 01/10/12	छोटा चौराहा, सन्दीला हरदोई
25389	अफाक मुहम्मद मुहम्मद इशाक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15594 29/01/13	ग्राम शिवराजपुर पो.ऑ. नेवा धर्मदास पुर निजामाबाद आजमगढ़
25390	अफसर राजा मुहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14957 27/04/12	ग्राम और डाकघर वालिदपुर मोहल्ला बिचलापुर ब्लॉक मुहम्मदाबाद गोहना मऊ
25391	आफताब आलम मुश्ताक एच. अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15509 30/11/12	मोहल्ला खलील गरबी, बड़ी मस्जिद के पास शाहजहांपुर
25392	आफताब आलम नसीमुद्दीन अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15123 13/07/12	ग्राम और डाकघर मंदी जफरपुर आजमगढ़
25393	आफताब खान मुजफ्फर हुसैन	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15493 22/11/12	ग्राम और डाकघर यूहोली थाना सफदरगंज, बाराबांकी
25394	अफजल अहमद मोहम्मद रजा	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15279 14/09/12	मकान नं. 610 शकील मियाँ वारसी की गली शाहजहांपुर
25395	अफजल अहमद खान कलीम रजा खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15017 24/05/12	नगर पंचायत गोला बाजार वार्ड नं. 6, डाक बंगला गोरखपुर
25396	अफजल हाशमी आफताब हाशमी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15230 10/09/12	442/89, मनुजू टण्डन धौल ग्राम ठाकुरगंज लखनऊ
25397	अहमा जमाल हाजी अब्दुल हमीद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2010	15153 31/07/12	मकान नं. 39, मोहल्ला इमामबाड़ा फिरोजाबाद
25398	अहमद अली खान हलालुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14989 11/05/12	ग्राम और डाकघर जद्दू पीपरा पुलिस स्टेशन कोतवाली महाराजगंज
25399	अजमल खान मोहम्मद इरफान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14966 01/05/12	मोहल्ला खेड़ा, हलडोर बिजनौर
25400	अखलाक अहमद समीर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14927 11/04/12	ग्राम बेहरामपुर, मोरना मेरठ
25401	अखलाक खान अब्दुल रज्जाक खान	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	14974 02/05/12	मुहल्ला किलेदरन, अलीगंज एटा

25402	आलम आरा अब्दुल वाहिद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15239 10/09/12	ग्राम और डाकघर भवराजोत बहादुरी बाजार अम्वा बुजुर्ग महाराजगंज
25403	आलम गीर अब्दुल कबीर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15057 07/06/12	गंडेरा बाग, केसर गंज बहराइच
25404	आलमगीर इब्बन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14956 27/04/12	ग्राम घुंडली पो.ऑ. आजमगढ़ तहसील चांदपुर, बिजनौर
25405	अली मोहम्मद वली मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	15545 17/12/12	मकान नं. 149, ग्राम और डाकघर सत्थिन, सुल्तानपुर
25406	अली ओसामा खान इरशाद अली खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15268 13/09/12	मकान नं. 624डी / 102, चिनहट, लखनऊ
25407	अलीमुल्लाह हिदायतुल्लाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15232 10/09/12	ग्राम कोलहाई गरीब, पो.ऑ. बनगावन, थाना खोदरे,गोण्डा
25408	आलिया यासीन मुहम्मद अदनान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15043 30/05/12	हमजा कॉलोनी मेन रोड न्यू सर सैय्यद नगर धौरा मफी अलीगढ़
25409	अलशरीक खान मकबूल खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15469 01/11/12	मेहन्दी अपार्टमेंट 5, हमीद रोड वजीरगंज लखनऊ
25410	अमबरीन अनवर एहसान अनवर एहसान	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2009	15216 05/09/12	मोहल्ला चौधरी कसबा सहसवान, बदायूं
25411	अमरीन बानो मोहम्मद अशरफ अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15323 21/09/12	34, बी.एन. रोड, लखनऊ
25412	अमरीन शकील खान मोहम्मद शकील खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15181 27/08/12	972, खैराबाद, सुल्तानपुर
25413	अनम जाहिद खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14341 19/04/12	मकान नं. 520, अलीगढ़ के पास मार्डन स्कूल दोहार्माफी अलीगढ़
25414	अनामिका इशानी उपाध्याय गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय	बी.यू.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2007	15431 12/10/12	मकान नं. 112, दुधेला 2 बलिया
25415	अनायत अब्बास इंतिजार हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15150 26/07/12	450, नानक नगर नेपियर रोड कॉलोनी ठाकुरगंज लखनऊ

25416	अनीस अहमद राशिद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 1997	15291 18/09/12	सिद्धीकी मेडिकल स्टोर सराय रहमान, अलीगढ़
25417	अनीस अहमद सगीर अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2011	15099 02/07/12	मोहल्ला मंगल शाह का बाजार कसबा रिछा बहेदी, बरेली
25418	अंजुम शबाना मुकीम अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15249 12/09/12	73, भिलाई खुर्द, तहसील तिलोई, रायबरेली
25419	अनवर अहमद कमाल अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15300 19/09/12	मकान नं. 536 के/295 मक्कागंज खदरा, लखनऊ
25420	अनवर हसन अमीर हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15118 13/07/12	मोहल्ला मोहम्मदी गंज कसबा जलालाबाद प्रबुद्ध नगर
25421	अंजुम अली कृतुबुल्लाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15108 06/07/12	ग्राम परसा, पो.ऑ. खुनियाव सिद्धार्थ नगर
25422	अंजुम आरा शाकीब अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15516 04/12/12	405, रोशन मंजिल, गुलामी की पुरा सदर कोतवाली आजमगढ़
25423	आरिफ खान मोहम्मद इदरीस खान	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2012	15590 23/01/13	ग्राम और डाकघर एवं थाना पारसपुर, गोण्डा
25424	अरीज जहीन इस्तियाज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15352 26/09/12	मुहल्ला बरबहाना नवाब कॉलोनी, गाजीपुर
25425	अरशद हारून हारून खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15294 18/09/12	प्लॉट नं. 18 अशरफ नगर मोहन बस स्टैण्ड राजाजीपुरम लखनऊ
25426	अरशद जमील जमील अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15026 29/05/12	13 ए, आजाद नगर, मनी चौराहा के पास, पुराना सीतापुर
25427	अरशद जिया सगीर अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15531 11/12/12	ग्राम जुंगल बहादुर अली शेखपूर्वा, पो. ऑ. मोहरीपुर गोरखपुर
25428	अरशी अतहर अतहर सगीर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15654 19/03/13	ग्राम अबुलमाली, देवबन्द सहारनपुर
25429	असद अहमद अंसारी मोहम्मद अहमद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15604 11/02/13	149 ए, सिकरी गेट अन्सार मंजिल चन्दौसी मुरादाबाद

25430	असहदुल्ला अनीस मोहम्मद अनीस	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1995	15364 27/09/12	ग्राम और डाकघर उभव बलिया
25431	आशा यादव ओम प्रकाश यादव	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	14940 18/04/12	आशालोक अस्पताल 010/4, गंज सारनाथ वाराणसी
25432	अशफाक अहमद नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. परीक्षा निकाय, आयु. व यूनानी चि.प.दिल्ली 1980	15155 01/08/12	243, खट्टा रोड, बुढाना गेट मेरठ
25433	अशफाक अहमद मुस्ताक ए. अंसारी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15186 28/08/12	मोहल्ला पटेल नगर घोसियाना पावर हाऊस के पास, गोण्डा
25434	अशरफ अब्बास अख्तर अब्बास	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	15618 13/02/13	मोहल्ला मुल्लाना जामा मस्जिद के पास अमरोहा, मुरादाबाद
25435	आसिया खानम रियाजत अली खली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15549 19/12/12	125, गोला गंज खान साहब वाली गली चन्दौसी आजमगढ़
25436	आसिफ नदीम जमाल अख्तर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2006	15651 15/03/13	द्वारा डॉ. अब्दुस सलाम खाजाजी टोला, सब्जी मण्डी, जौनपुर
25437	आसमा आबिद आबिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14980 03/05/12	4/570, 34 नूर मंजिल कम्पाउण्ड दोधपुर सिविल लाईन्स, अलीगढ़
25438	आसमा खातून फरजन्द अली रिजवी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15544 17/12/12	444/517, अली कॉलोनी बर्फखाना ठाकुरगंज, लखनऊ
25439	आसमा तबस्सुम अहमद तंजिम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15470 01/11/12	बी 292, आवास विकास कॉलोनी सूर्यकुंड कॉलोनी, गोरखपुर
25440	अता तरन्नुम मेराज अहमद	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2012	15598 31/01/13	डी 67, जी.टी.बी. नगर करेली, इलाहाबाद
25441	अता—उर—रहमान जुबेर अहमद	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	15126 16/07/12	ग्राम नख्तर पो.ऑ.शोहरत गढ़, सिद्धार्थ नगर
25442	अतिक अहमद बाबू अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15317 20/09/12	मकान नं. 35, भूल्लनपुर ग्राम लहरपुर थाना लहरपुर सीतापुर
25443	अतिक अहमद रईस अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15348 25/09/12	मोहल्ला व्हाइटगंज जमशेद का हाथा मीट मार्किट के पास हरदोई

25444	अतिकुल इस्लाम जमीरुल इस्लाम	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2012	15570 27/12/12	वार्ड नं. 16, पूर्व थोक ककराला बदायूं
25445	आयशा परवीन अब्दुल सत्तार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15171 13/08/12	नई बस्ती, नौगांव सादत ज्योतिबा फूलेनगर
25446	आयशा परवीन मुहम्मद नबी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15308 19/09/12	ग्राम और डाकघर साइदन गली तहसील हसनपुर अमरोहा ज्योतिबा फूलेनगर
25447	आयशा खान असलम खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15149 25/07/12	मकान नं. 256, इन्दिरा नगर सक्सेना नगर वार्ड नं. 12 महाराजगंज
25448	आयूष मित्तल विपिन कुमार मित्तल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15419 10/10/12	मोहल्ला कायस्थवाड़ा देवबन्द, सहारनपुर
25449	अजहरुद्दीन आसिफ अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15502 27/11/12	मोहल्ला काजीबाड़ा जनता मेडिकल स्टोर धोलाना हापुड़
25450	अजिम अब्दुल मुकीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15337 24/9/12	न्यू रियान मार्किट डाकखाना के पास सहासवान, बदायूं
25451	अजीजुद्दीन खान कबीरुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2010	15190 18/08/12	ग्राम और डाकघर, बिसकोहर बाजार, सिद्धार्थ नगर
25452	अजमल अहमद खान निसार अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15306 19/09/12	13, चोलखी, लखनऊ
25453	अजमल सिद्धीकी एजाज अहमद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15014 24/05/12	ग्राम और डाकघर मेहरोना घाट थाना लार, देवरिया
25454	बेबी बलवंत सिंह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15085 27/06/12	ग्राम कासमपुरा, पो.ऑ. पपसारा ज्योतिबा फूलेनगर
25455	बाजिद अली मुनाफ खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15446 18/10/12	मोहल्ला मौसम खानी बहरोदा रोड, कसबा किथौर, मेरठ
25456	बेगम अब्बास नकवी खुशानूद एच. नकवी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15425 12/10/12	84, मोहल्ला काजीजाबाद ज्योतिबा फूलेनगर
25457	बिलाल अहमद खान अजीज खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	15595 29/01/13	अंदरुन किला, बड़ा कुआँ रायबरेली

25458	बुशरा इकबाल इकबाल अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15033 30/05/12	4/278 ए, केला नगर मौला साबुन के पीछे फैक्टरी अलीगढ़
25459	बुशरा करीमी ईदरीस करीमी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	14933 16/04/12	कुचा हाजी अब्दुल करीम सराय हकीम अलीगढ़
25460	बुशरा खान एजाज अनवर खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15089 27/06/12	184, शीशग्रान, फिरोजाबाद
25461	बुशरा परवीन मसूद असलम	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15373 01/10/12	मोहल्ला सुन्दर नगर रामपुरवां नेपलापुर चौराहा, सीतापुर
25462	बुशरा राजदार ए.एच. कुरेशी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15000 16/05/12	जी 04, न्यू रिजवी अपार्टमेंट मेडिकल रोड अलीगढ़
25463	बुशरा जमीर जमीर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15326 21/09/12	स्टार नर्सिंग होम हाजी बिल्डिंग जगदीशपुर सुल्तानपुर
25464	चक्षु प्रताप नेत्रपाल सिंह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15416 10/10/12	मोहल्ला फौलादपुरा देवबन्द, सहारनपुर
25465	दानिश आलम अब्दुल अलीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15581 17/10/13	मकान नं. 2222 त्रिलोकीपुरम बुलन्दशहर रोड, गली नं. 3 हापुड
25466	दानिश आलम शबाबुल हसन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15097 02/07/12	ग्राम खाख्या माफी पो.ऑ. पताई खालसा ज्योतिबा फूलेनगर
25467	दानिश मंद फारुख अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14947 19/04/12	मकान नं. 138, मोहल्ला माजिदपुरा बुलन्दशहर पंचशील नगर
25468	दरख्या अनवर सैय्यद अनवर हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15168 09/08/12	एच-3, चोपाटिया कॉलोनी लखनऊ
25469	दीपिका आर्या सन्तोष कुमार आर्या	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15624 19/02/13	409 ए/1 उत्तरी सिविल लार्डन साकेत रोड, मुजफ्फरनगर
25470	एहतेशाम हमिदी मोहम्मद नेयाज	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15235 10/09/12	गोडा नं. 1, रसूलाबाद पो.ऑ. जाफराबाद, जौनपुर
25471	इखलाक अहमद कबीर अहमद	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15505 29/11/12	ग्राम और डाकघर अपायल थाना सुखपुरा, बलिया



25472	एजाज मोहम्मद इकबाल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15417 10/10/12	मोहल्ला भुल्लनशाह बंजारन गली देवबन्द सहारनपुर
25473	एजाज अहमद सिद्धीकी बदरुद्दीन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2000	15602 06/02/13	5/131, कसबा सादिक गंज पो.ऑ. मछली शहर, जौनपुर
25474	एजाज अहमद अब्दुल हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15513 04/12/12	ग्राम भूलेपुर, पो.ऑ. हंसवार अम्बेडकर नगर
25475	एजाज अख्तर अहमद मुर्तजा	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15275 14/09/12	कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़
25476	एजाज अली आजाद मोहम्मद अली आजाद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2009	15183 28/08/12	चौक बाजार कसबा सहांपुर नजीबाबाद, बिजनौर
25477	फहीम अहमद फकीर बक्श	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	14939 17/04/12	ग्राम खमारिया पंदरी पो.ऑ. पोटा कलां विशालपुर पीलीभीत
25478	फहीम अख्तर अख्तर हुसैन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15010 18/05/12	स्काउट भवन के पीछे मोहल्ला तुर्कीया गांधी नगर बस्ती
25479	फहीम हैदर सैय्यद अली यावर रिजवी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15207 03/09/12	67, सित्तैन रोड़ धर्मशाला वार्ड पो.ऑ. मनन्दु गंज, नियर रफ एंड टफ टेलर, प्रतापगढ़
25480	फहीमुद्दीन इस्लामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15420 11/10/12	ग्राम कमलपुर, पो.ऑ. दरियागंज बुलन्दशहर
25481	फेसल नफीस नफीस आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15109 06/07/12	541आर/333, रिफा कॉलोनी कैम्पवेल रोड़, राजाजीपुरम लखनऊ
25482	फैज मोहम्मद मोहम्मद इदरीस	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15256 13/09/12	ग्राम बहादुरपुर ग्राम खुनियां थाना गोलहोरा, सिद्धार्थ नगर
25483	फैजी हबीब हबीबुल्लाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15517 04/12/12	270, बदीहट, जैन मन्दिर के पीछे बहराइच
25484	फखरुद्दीन खान वसीम खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15282 14/09/12	301/35, जाकिर नगर वैस्ट ओखला, नई दिल्ली
25485	फराह बी शकील सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15165 08/08/12	172/ए, बेगम सराय गयासुद्दीनपुर, इलाहाबाद

25486	फराह दाऊद मोहम्मद दाऊद इसरैली	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2008	15054 07/06/12	मकान नं. 865, अलीगढ़ मॉडर्न स्कूल के पास हादीनगर धारा माफी, अलीगढ़
25487	फराज खान खालिक अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15514 04/12/12	मोहल्ला मौलागंज पो.ऑ. शाहबाद, हरदोई
25488	फरहा जैन जैनुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15334 24/09/12	1227/ए, डॉ. फरीदी हाऊस परियापुर रोड़, सुल्तानपुर
25489	फरहान अली खान अंसारी अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15122 13/07/12	द्वारा 63, कटघाट लालगंज लालगंज, आजमगढ़
25490	फरहाना सलीम मोहम्मद सलीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15434 15/10/12	46, कम्पनी बाग, बाराबांकी
25491	फरहीन हसन शरीक खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15128 17/07/12	173, हबीबुल्लाह खान जुनूवी 4 बिसलपुर, पीलीभीत
25492	फरहीन इशरत सैय्यद इशरत अली	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15376 03/10/12	मोहल्ला लकड़ी वाला मुगलपुर 1, मुरादाबाद
25493	फरहीन जैदी फरीद अहमद जैदी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14971 02/05/12	4/1371, फिरोज अस्पताल के पास सर सैय्यद नगर, अलीगढ़
25494	फरीदा बी अनीस अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15499 26/11/12	ग्राम और डाकघर जाधिया शहजादनगर, रामपुर
25495	फरीदा बानो अंसारी गुलाम मोहम्मद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15584 22/01/13	ग्राम महीली, पो.ऑ. पीहर बलरामपुर
25496	फारूख अनवर खान अनवर खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14944 19/04/12	मकान नं. 7, मोहल्ला सेमल खेड़ा शाहगंज, पुराना शहर, बरेली
25497	फसाहत जेहरा रिजवी रेहान हुसैन रिजवी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15042 30/05/12	मोहल्ला शरकी सिरसी सम्भल, मुरादाबाद
25498	फज़लुर्रहमान निसार अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2009	15340 24/09/12	ग्राम और डाकघर खम्हरिया गैसडी, बलरामपुर
25499	फहमीना नाज इक्तदार नबी खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15486 12/11/12	मियां सराय, सम्भल भीम नगर

25500	फिरोज अहमद मसरंग अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15458 25/10/12	ग्राम और डाकघर बेदीपुर तहसील हरैया, बस्ती
25501	फिरोज अहमद शफीक अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15022 29/05/12	ग्राम और डाकघर केओटी कलॉ हरगाँव सुगर मिल, सीतापुर
25502	फिरोज आलम रईस अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15220 15/09/12	नेशनल मेडिकल स्टोर, ग्राम और डाकघर तिबरी धामपुर बिजनौर
25503	फिरोज आलम अनवर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14967 01/05/12	ग्राम फरीदपुर, काशम पो.ऑ. सरकड़ा बिश्नोई मुरादाबाद
25504	फिरोजा परवीन जफर इकबाल	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2009	15078 20/06/12	वरसी क्लीनिक मोहल्ला कटरा मण्डी धनोरा, ज्योतिबा फूलेनगर
25505	फोजिया याकूब एस.एम. याकूब	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15191 28/08/12	मकान नं. 15/19, एजाज मंजिल काली पाड़ा, अलीगढ़
25506	फुरकान अहमद मोहम्मद फारुक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15259 13/09/12	मोहल्ला हजरत नगर जामा मस्जिद के पास नूरपुर बिजनौर
25507	फुरकान अहमद शरीफ अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15508 30/11/12	ततारपुर गरवी तहसील मण्डी धनोरा पो.ऑ. वछरायूं ज्योतिबा फूलेनगर
25508	गौरव गुप्ता सुरेश गुप्ता	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15307 19/09/12	मकान नं. 296, चौथी गली निशान्त गंज, लखनऊ
25509	गजाला जमशेद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15115 13/07/12	ग्राम राजापुर सिकरोर सरायमीर, आजमगढ़
25510	गुफरान खान अब्दुल समद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15274 14/09/12	थरवारन गंज, मकान नं. 290 लखीमपुर खीरी
25511	गुफरान उल्ला अंसारी फैजान उल्ला अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15236 10/09/12	276/1, सूरज टॉकिज के पास, दरियापुर, सुल्तानपुर
25512	गुलाम अली राही मिसबाहुल हक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15001 16/05/12	174, बलजाती मस्जिद के पास कटरा चांद खान पुराना शहर बरेली

25513	गुलाम मुस्तफा इसरार हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15299 19/09/12	मुल्क बरखेड़ा, पो.ऑ. मानपुर मुरादाबाद
25514	गुलाम रब्बानी खान इरफान अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15583 21/01/13	ग्राम और डाकघर कटोली कलां लालगंज, आजमगढ़
25515	गुलफराह मुहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15140 20/07/12	113, न्यू कटघर, बरेली
25516	गुलमार अहमद मोहम्मद शाहिद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14938 17/04/12	ग्राम दौलतपुर, पो.ऑ. मेहनगर आजमगढ़
25517	गुलजार अहमद मोहम्मद मीनूद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15585 22/01/13	चक्कर वाली सड़क मदीना कॉलोनी हिन्दुस्तान मिल्क डेयरी मुजफ्फरनगर
25518	गुरमीत सिंह नरेन्द्र सिंह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15518 04/12/12	मकान नं. 486, रविदास मार्ग, देवबन्द, सहारनपुर
25519	ग्यास आलम खान फैजुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	14931 13/04/12	काश्त खेड़ा, पो.ऑ. राजमन्दिर महाराजगंज
25520	हाफिज अहमद सादिक अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15527 11/12/12	मकान नं. 111/99, ग्राम और डाकघर दरहारा, बाराबांकी
25521	हफीजुर्हमान एहसान अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15413 09/10/12	ग्राम और डाकघर संजरपुर आजमगढ़
25522	हफीजुर्हमान फजलुर्हमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15447 19/10/12	64ए/150बी, साउथ मालाका इलाहाबाद
25523	हैदर अली इस्लाम अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15133 18/07/12	ग्राम कोटला पो.ऑ. महदिया स्टेट तहसील उत्तरोला बलरामपुर
25524	हशमत उल्लाह खान चौधरी चौधरी क्यू खान	जी.यू.एम.एस. स्टेट फ़ैक. आफ आयु. एवं यूनानी मेडि., पटना 1966	15551 20/12/12	311/14, शिफा मंजिल वाईपास राजकीय पॉलिटैक्निक के पास गोण्डा
25525	हशमुद्दीन मुश्तरीब खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15614 12/02/13	ग्राम चिदावक, गुलावठी मेरठ
25526	हसीन जहाँ अंसारी शौकत अली अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15435 15/10/12	के/510 कटरा, बाराबांकी

25527	हेमा कौसर मीनूद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15265 13/09/12	ग्राम करमैनी, रोनापारा थाना बिलारियागंज, आजमगढ़
25528	हीना परवीन शावेद हसन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15476 05/11/12	536/162, के मदेयगंज खदरा, लखनऊ
25529	हीना खान सैय्यद अफरोज खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15397 09/10/12	4, चोखट कुआँ, इटावा
25530	हीना कमर कमरूल हसन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15035 30/05/12	हमदर्द नगर सी मदर टैरेसा के पास जमालपुर अलीगढ़
25531	हीना तलत शमशुद्दीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15039 30/05/12	3/295, एम प्रगति विहार कॉलोनी मौरिस रोड अलीगढ़
25532	हुमा आजमी इरशाद अहमद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15248 12/09/12	मकान नं. 456, ख्वाजा बाग मटियारी चौराहा चिनहट लखनऊ
25533	हुमा फारूकी मोहम्मद शोएब फारूकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15543 17/12/12	फारूकी होम पंत नगर खुर्रम नगर, लखनऊ
25534	हुमा लियाकत लियाकत अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15221 06/09/12	ग्रीन पार्क कॉलोनी एफ.एम. टॉवर के सामने अनूपशहर रोड अलीगढ़
25535	हुमायूँ खान अरशद अली	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2009	15304 19/09/12	ग्राम और डाकघर गरही अब्दुल्लाह खान शामली प्रबुद्ध नगर
25536	इफतेखार अहमद हफीजुल्लाह अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15209 04/09/12	ग्राम और डाकघर धम्मोर सुल्तानपुर
25537	इफतेखार एहसान अंसारी महफुजल एच. अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15613 12/02/13	ग्राम और डाकघर अदरी मोहल्ला कोट थाना कोपागंज सदर मऊ
25538	इफितखार अहमद खान नजमुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15076 20/06/12	544/3185, समनान गार्डन कैम्पवैल रोड लखनऊ
25539	ईफतखार अहमद मोहम्मद मुस्तफा खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15093 28/06/12	ग्राम और डाकघर इटावा बाजार सिद्धार्थ नगर
25540	इखलास अहमद अखलाक अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15095 29/06/12	मोहल्ला मिल्कीयां ताकी सराय स्योहारा, बिजनौर

25541	इमरान अहमद इस्लाम अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15114 11/07/12	हुसैनपुर करोतिया कुवरगाँव पो.ऑ. लही फरीदपुर, बदायूं
25542	इमरान अहमद अजमतुल्ला	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2011	15601 05/02/13	ग्राम अधीनपुर, पो.ऑ. रहरा बाजार, बलरामपुर
25543	इमरान अहमद मुख्तार अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2006	15074 19/06/12	करेती रोड, कुन्दा, प्रतापगढ़
25544	इमरान अली खान मुख्तार अली खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15355 26/09/12	ऐमन जय जलाल नगर भुल्लन खान की चोपाल शाहजहांपुर
25545	इमरान खान सफी उल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15467 31/10/12	छेदी पुरवा, गोण्डा
25546	इमरान खान मकसूद अली खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15370 01/10/12	एम.आइ.जी. 334ए, एल.डी. ए. कॉलोनी, फेस 2, राजाजीपुरम लखनऊ
25547	इमरान खान सैफी कयामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14959 01/05/12	मकान नं. 14/147 सराय सुल्तानी चोड़ा कोअ, अलीगढ़
25548	इम्तियाज आलम मोहम्मद इब्राहिम खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15166 08/08/12	मकान नं. बी/26ए, विशेश्वर गंज, गाजीपुर
25549	इराम खान दानिश खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	14925 10/04/12	महुआ टोला पो.ऑ. शाहबाद हरदोई, पीलीभीत
25550	इरफान चौधरी यामीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15535 12/12/12	पट्टी बारू, पी.एन. शर्मा पार्क के पास बदोली रोड बड़ौत बागपत
25551	इरफान अहमद अब्दुल हक	बी.यू.एम.एस. सागर वि.वि., सागर 1979	15548 18/12/12	मोहल्ला चूड़ीहार पो.ऑ. सरायमीर आजमगढ़
25552	इरफानुल्लाह अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15020 24/05/12	मकान नं. 127डी, रामलीला मैदान पंचपेड़वा, बलरामपुर
25553	इरशाद इशरत अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15016 24/05/12	नगर पंचायत, सिवाल खास वार्ड 7 पसतरा रोड, पो.ऑ. सिवाल खास जानी खुर्द मेरठ

25554	इरशाद अहमद गुलाम मोहम्मद नबी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15011 21/05/12	ग्राम लेदुवा महुआ जामा मस्जिद के पास पो.ऑ. बखीरा सिद्धार्थ नगर
25555	इरशाद अहमद अशरफ अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15533 11/12/12	ग्राम चाकुथ, पो.ऑ. सूरजपुर मऊ
25556	इरशाद अहमद अब्दुल राजिक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15405 09/10/12	मोहल्ला कोर्ट सियासत भींगा, श्रावस्ती
25557	इरशाद हुसैन नसरत हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	15394 08/10/12	हरथाला रेलवे स्टेशन रोड़ पहला तीर्थ बरेली, मुरादाबाद
25558	इशाना उल्लउवैद उबैदुल्ला	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15172 13/08/12	ग्राम और डाकघर पुरानी तहसील नगीना, बिजनौर
25559	इशरत अली एजाज हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15477 06/11/12	मुहल्ला काजी पुलिस की चौकी के पास कस्बा सहसवान बदायूं
25560	इशियाक अली शहजाद अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15383 04/10/12	ग्राम सुल्तानपुर पो.ऑ. वेलामऊ कलॉ सीतापुर
25561	इशियाक मोहम्मद खान यार मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15060 08/06/12	ग्राम खालिसपुर पो.ऑ. कटिवार मऊ रायबरेली
25562	इस्लामुद्दीन मोहम्मद यूसुफ	बी.यू.एम.एस. परीक्षा निकाय, आयु. व यूनानी चि.प.दिल्ली 1980	15156 01/08/12	408, सरायबेहलीम, मेरठ
25563	जलालुद्दीन मोहम्मद आजम समसुद्दीन सबरी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15119 13/07/12	साबरी मंजिल मोहल्ला कायस्थ वाड़ा मकान नं. 222 देवबन्द सहारनपुर
25564	जर्नादन यादव संग्राम यादव	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15525 10/12/12	ग्राम बहोरनपुर पो.ऑ. बौनडीह, मऊ
25565	कहकशी बैग असलम अली बैग	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14978 03/05/12	नबी करीम के पास मस्जिद हमदर्द नगर बी अलीगढ़
25566	कनीज फातिमा सैय्यद नसीर अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15104 05/07/12	ए/बी-95, मेडिकल कॉलोनी ए.एम.एस. अलीगढ़
25567	कविता रविन्द्र कुमार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15524 05/05/12	मकान नं. 200 रामदसपुर उर्फ नांगल सहारनपुर

25568	काजी नौशाद हुसैन काजी एम. हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15226 07/09/12	ग्राम फतेहपुर पो.ऑ. वासा दरगाह डुमारिया गंज सिद्धार्थ नगर
25569	खालिद अली शाहिद अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14981 03/05/12	3/331, सैक्टर 3 जानकीपुरम विस्तार सीतापुर
25570	खालिद उसमान खान मोहम्मद उसमान खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15622 18/02/13	एस-9896, सत्य प्रेमी नगर तहसील नवाबगंज बाराबांकी
25571	खालिदा खदीजा खनाम इन्तजार अली खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15627 25/02/13	पुलिस स्टेशन के पीछे ककराला, बदायूं
25572	खान अफरीन एस. खालिद खान	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15603 11/02/13	कमरा 5, सकूर चाल कलीना शास्त्री नगर सांताक्रूज ई-मुम्बई
25573	खान हफसा खान हिसामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15404 09/10/12	275, पहाड़पुर न्यू कॉलोनी, आजमगढ़
25574	खान निलोफर नफीस नफीस खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15410 09/10/12	मकान नं.7, सहयोग अपार्टमेंट चन्दनसर रोड़, महाराष्ट्र
25575	खान सविहा जकारिया मारुफ जिलानी खान	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1999	15396 08/10/12	टीचर्स कॉलोनी, कोट किला आजमगढ़
25576	खुर्शीद आलम अंसारी मोहम्मद हनीफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15359 27/09/12	ग्राम गणेशपुर पो.ऑ. कोरैया तहसील लहरपुर थाना हरगाँव सीतापुर
25577	खुशनुमा नाज मुकर्रम अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15563 26/12/12	मकान नं. 7, इस्माईलपुर सहारनपुर
25578	कुलसुम अरशद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15329 21/09/12	ग्राम बकरापुर, पो.ऑ. मिजवा आजमगढ़
25579	कुलसुम जोहरा खान अख्तर आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15302 19/09/12	कुडवान उर्फ दिलीप नगर कसरया, कुशीनगर
25580	कूर्तुल ऐन सैय्यद बर्रुजमा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15116 13/07/12	45/29, सुल्तानपुर भावा, इलाहाबाद
25581	लायकुम निसा शमसुज्जमा	बी.यू.एम.एस. डा. एम.जी.आर. मेडि. यूनि., चेन्नई 2005	15086 27/06/12	ग्राम हरैया, पो.ऑ. भटनी दादन देवरिया



25582	माहिर अहमद मोहम्मद ताहिर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15353 26/09/13	23, आवास विकास कॉलोनी बुलन्दशहर रोड़, हापुड़
25583	मेनूद्दीन खान अब्दुल सत्तार	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15187 28/08/12	ग्राम और डाकघर देवताहा गोण्डा
25584	मलिक महफूज अहमद मलिक एम. अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15271 14/09/12	ग्राम और डाकघर कदिराबाद सिद्धार्थ नगर
25585	मन्सूर अहमद मोहम्मद इस्राइल	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2012	15234 10/09/12	ग्राम और डाकघर असारा तहसील बड़ौत, बागपत
25586	मन्जर हुसैन मोहम्मद मुस्लिम	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15012 21/05/12	ग्राम और डाकघर साय बुजुर्ग बखिरा, सिद्धार्थ नगर
25587	मकसूद आलम मोहम्मद जियाउल्लाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14937 17/04/12	ग्राम मनिका डीह पो.ऑ. हरैया, आजमगढ़
25588	मारिया आसिफ मोहम्मद एम. जमाल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14928 12/04/12	ए-704, आवास विकास कॉलोनी, उन्नाव
25589	मुसरत अली सिद्धीकी एहतेशाम ए. सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14936 17/04/12	305, मुन्ने मियां का फाटक, हरदोई
25590	मशकूर हुसैन मसरूर हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15402 09/10/12	मोहम्मद अगलगा तहसील एवं स्वार रामपुर
25591	मयंक त्यागी देवेन्द्र त्यागी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15609 12/02/13	24, रामनगर, बिजनौर
25592	महमूद अहमद गुलाम नबी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15027 29/05/12	आजाद कॉलोनी पित्तनहेड़ी पो.ऑ. कोतवाली, बिजनौर
25593	महमूद आलम खान मोहम्मद यहिया खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15002 16/05/12	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर, वहराईच
25594	मेहमूदुल हसन अंसारी मोहम्मद अकमल	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15023 29/05/12	किराना मर्चेन्ट ग्राम और डाकघर खैराबाद, मऊ
25595	मेहताब हुसैन अंसारी मोहसिन अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15147 25/07/12	ग्राम मल्लापुर, पो.ऑ. पृथ्वीगंज प्रतापगढ़

25596	मेहविश यामीन मोहम्मद यामीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15038 30/05/12	मकान नं. 932/1, बन्दर वाली गली मजहर अमीरनिशा अलीगढ़
25597	मेहविश मोईन मोईनुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15374 01/10/12	मोहल्ला मीरदही टोला हकीम तम्बाकू कम्पनी बिसवान सीतापुर
25598	मेमूना खातून अब्दुल कय्यूम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14951 23/04/12	मकान नं. 239/सी, गोल मार्किट के पास हमदर्द नगर, अलीगढ़
25599	मिर्जा फरमान अली मिर्जा फुरकान अली	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2002	153305 19/09/12	ग्राम और डाकघर सखजी गाँव जहांगीराबाद अनूपशहर बुलन्दशहर
25600	मिर्जा इरफान अली मिर्जा फुरकान अली	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2007	15301 19/09/12	ग्राम और डाकघर सखजी गाँव जहांगीराबाद अनूपशहर बुलन्दशहर
25601	मिर्जा शहजादा बेग इस्लाम बेग	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2007	15483 08/11/12	ग्राम और डाकघर रसूलपुर धोलड़ी, मेरठ
25602	मोअज्जम इरशाद इरशाद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15365 27/09/12	ग्राम तिरनाई खिजीर पुर पो.ऑ. पालिया खास, बलिया
25603	मोहम्मद अकरम लड़क लद्दन हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14960 01/05/12	ग्राम कमलपुर फतेहाबाद पो.ऑ. कुन्दरकी, मुरादाबाद
25604	मोहम्मद जफर मोहम्मद सैय्यद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15138 20/07/12	ग्राम विसालपुर पो.ऑ. शीशगढ़ मीरगंज, बरेली
25605	मोहम्मद इमलाक कमरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15393 08/10/12	वार्ड नं. 6 नगर पंचायत सिवाल खास, मेरठ
25606	मोहम्मद इरफत खुर्शीद खुर्शीद हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15293 18/09/12	नगर पालिका के पास वुदेरन रोड़ स्योहारा बिजनौर
25607	मोहम्मद कमरुज्जमा शाह अलीमुद्दीन शाह	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15592 29/01/13	ग्राम सोनवारा, पो.ऑ. कटिला आजमगढ़
25608	मोहम्मद शरीक अबरार हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15587 22/01/13	न्यू वारसी मेडिकल सब्जी मण्डी धनोरा, ज्योतिबा फूलेनगर
25609	मोहम्मद वकील शेख मकसूद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर	15444 18/10/12	ग्राम और डाकघर बन्नी थाना धनसोई, बक्सर (बिहार)

2008

25610	मोहम्मद अब्दुल मोईन हबीबुल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14992 14/05/12	ग्राम और डाकघर पेहरा तहसील उतरोला, बलरामपुर
25611	मोहम्मद अबूजर अंसारी सफीउर्रहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15528 11/12/12	हुसैनाबाद पो.ऑ. मुबारकपुर लखनऊ
25612	मोहम्मद अदीब मोहम्मद हबीब	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2006	15063 11/06/12	मोहल्ला अशरफ खान मकान नं. 212, पीलीभीत
25613	मोहम्मद अफजल मोहम्मद इलियास	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15385 05/10/12	15/2, तूबेवैल कॉलोनी सिविल लाईन्स, मुरादाबाद
25614	मोहम्मद अफजल फिदा मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15066 18/06/12	ग्राम परसोना पो.ऑ. धनकारा तहसील अलापुर अम्बेडकर नगर
25615	मोहम्मद अहमद खालिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15285 18/09/12	ग्राम और डाकघर पलोला ज्योतिबा फूलेनगर
25616	मोहम्मद अहमद अंसारी पीर मोहम्मद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15389 05/10/12	ग्राम पहिली पो.ऑ. पेहर, तहसील उतरोला बलरामपुर
25617	मोहम्मद अहमद खान हमीदुल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15072 18/06/12	वार्ड नं. 11, नगर पालिका बभनान तप्पा अतरोह परगना बस्ती
25618	मोहम्मद अख्तर अब्दुल सलाम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15321 21/09/12	मोहल्ला बंजारन छोटी मस्जिद नवाबगंज, बरेली
25619	मोहम्मद अख्तर अबुल हसन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15175 16/08/12	ग्राम मोहनापुर ढाला धुसवाकाला लक्ष्मी नगर, महाराजगंज
25620	मोहम्मद आलमगीर मोहम्मद उमर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15319 21/09/12	मोहल्ला भण्डरिया टोला, मडियाहूँ, जौनपुर
25621	मोहम्मद अली आशिक अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15083 22/06/12	मोहल्ला गुजरान गेट खरी कुआँ के पास सरधना मेरठ
25622	मोहम्मद अली मोहम्मद इलियास	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14935 17/04/12	ग्राम कट्या मुस्तहकम पो.ऑ. शाहपुर वाया डुमरियागंज अलीगढ़

25623	मोहम्मद अली रहमत अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15519 04/12/12	ग्राम और डाकघर सारावनी कस्बा किथौर के पास, हापुड
25624	मोहम्मद आमिर शकील अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15059 07/06/12	433/256/1 न्यू राम नगर कॉलोनी कैम्पवैल रोड, कलागंज लखनऊ
25625	मोहम्मद अनस वाहिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15178 27/08/12	ग्राम और डाकघर पटोला अमरोहा, ज्योतिबा फूलेनगर
25626	मोहम्मद अनस अली अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	15491 21/11/12	ई 409 डी.एस. 2, सैक्टर सी कुर्शी रोड, अलीगंज, लखनऊ
25627	मोहम्मद अनवर अतीक अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15229 10/09/12	ग्राम सनेकपुर पो.ऑ. अल्हैया नवाबगंज, बरेली
25628	मोहम्मद अकील खान मोहम्मद नसीर खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15460 30/10/12	ग्राम और डाकघर कोटसराय परगना मगलसी तहसील सोहावल फैजाबाद
25629	मोहम्मद अकमल अब्दुल कबीर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14963 01/05/12	ग्राम भूलेपुर, पो.ऑ. हंसवर अम्बेडकर नगर
25630	मोहम्मद आरिफ बाबू खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15064 12/06/12	1995, अगवानपुर आशिकपुर अगवानपुर मुरादाबाद
25631	मोहम्मद आरिफ सिद्धीक अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15327 21/09/12	सुम्बा बाग, लखनऊ रोड सन्दीला हरदोई
25632	मोहम्मद आरिफ अली सिद्धीकी हशमत अली सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15615 12/02/12	124, मोहल्ला बदुजई प्रथम पोस्ट ऑफिस वाली गली शाहजहाँपुर
25633	मोहम्मद आरिफ हुसैन मोहम्मद इश्तियाक हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15262 13/09/12	16/बी, चौक अला खान शाहजहाँ पुर
25634	मोहम्मद आरिफ खान मुशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15246 11/09/12	127/बी, नेहरू नगर थाना हिन्डोला, लखनऊ
25635	मोहम्मद आरिफ जमाल मोहम्मद दाऊद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14934 16/04/12	ग्राम और डाकघर चिरैयाकोट तकिया रोड, मऊ
25636	मोहम्मद अरशद मशकूर अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15162 04/08/12	द्वारा श्रीमती जीनत जमाल फरसोती टोला, अलीगढ़

25637	मोहम्मद अरशद अब्दुल राशिद सैफी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	14998 15/05/12	87, कायस्थान चांदपुरा, बिजनौर
25638	मोहम्मद अरशद फईमउद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15433 15/10/12	ग्राम दय्याबोझ पो.ऑ. पीपलिया वाया अमरिया पीलीभीत
25639	मोहम्मद अरशद रहमतुल्लाह शाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15151 30/07/12	ग्राम बांके गॉव पो.ऑ. खसरहा तहसील बंसी सिद्धार्थ नगर
25640	मोहम्मद अरशद मोहम्मद फारूख	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15021 25/05/12	तम्बाकू मर्चेन्ट 267, जेल रोड़ चौक प्रतापगढ़
25641	मोहम्मद असफाक अब्बास अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15154 01/08/12	ग्राम मैना, पो.ऑ. इटावा सिद्धार्थ नगर
25642	मोहम्मद अशरफ मोहम्मद मुजनबीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15556 24/12/12	ग्राम अहिरोला नगवा पो.ऑ. पीपरा रामचन्द बलरामपुर
25643	मोहम्मद अशरफ सिराजुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15438 17/10/12	ग्राम मौलवी खेड़ा, पो.ऑ. कुदोनी तहसील सन्दीला हरदोई
25644	मोहम्मद आसिफ शरीफ अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15492 21/11/12	मोहल्ला किला खण्ड 2 मकान नं. 299, थाना देवबन्द, सहारनपुर
25645	मोहम्मद आसिफ बदरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15199 30/08/12	शाहगंज शाहजमाल तेलीपाड़ा, अलीगढ़
25646	मोहम्मद आसिफ महेन्दी हसन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2009	15222 06/09/12	ग्राम नौगावन पो.ऑ. चामरौ सदर शहजाद नगर रामपुर
25647	मोहम्मद आसिफ जमालुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15437 15/10/12	ग्राम चकिया पो.ऑ. बड़ागॉव हुसैनाबाद, हरमानपुर आजमगढ़
25648	मोहम्मद असिम हवीवुरहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15130 18/07/12	मोहल्ला पृथ्वीगंज कैन्ट, मुरादाबाद
25649	मोहम्मद असलम शोएब अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15102 04/07/12	ग्राम और डाकघर कैथवालिया सिद्धार्थ नगर
25650	मोहम्मद अतीक खान मोहम्मद रफीक खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15655 19/03/13	27, बाल विहार बिस्तार कॉलोनी फरीदी नगर, इन्दिरा नगर लखनऊ

25651	मोहम्मद अय्युब मोहम्मद इस्माईल	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	14996 15/05/12	मोहल्ला इस्लामनगर वार्ड नं. 6 सफेद मस्जिद के पास स्योहारा बिजनौर
25652	मोहम्मद अय्युब जमीरुल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15061 08/06/12	ग्राम खगरोला पो.ऑ. बेवा डुमारिया गंज, सिद्धार्थ नगर
25653	मोहम्मद अय्युब खान बाबू बक्श	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15580 16/01/13	ग्राम पोटा कलां, पीलीभीत
25654	मोहम्मद अजहर मोहम्मद अफसार	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15070 18/06/12	मोहल्ला यहशिरा बी 21, बिजनौर
25655	मोहम्मद अजहरुद्दीन मोहम्मद अनवर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15258 13/09/12	गंगापुर, ताजपुर कुन्दा प्रतापगढ़
25656	मोहम्मद अजीम मोहम्मद नसीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15455 19/10/12	मकान नं. 440, नई आबादी खालापर, मुजफ्फरनगर
25657	मोहम्मद अजीम मोबिन अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15640 06/03/13	सी-15/219, लल्लापुरा, माता कुण्ड, सिबरा वाराणसी
25658	मोहम्मद अजीम खान उमर दराज खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15415 10/10/12	मोहल्ला किला, देवबन्द सहारनपुर
25659	मोहम्मद बिलाल अब्दुर रहमान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15009 18/05/12	हिन्दूपुरा खेड़ा, सराय मदरसा सम्भल, मुरादाबाद
25660	मोहम्मद बिलाल मोहम्मद शमीन कुरैशी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15577 11/01/13	हक मेडिकल सैन्टर रूदोली रोड भेलसर चौराहा, फैजाबाद
25661	मोहम्मद दानिश सिद्धीकी मोहम्मद सबीर	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2010	15144 20/07/12	चोछराना मोहल्ला पूर्वी तरोरा ग्राम मोदाहा पो.ऑ. रगोल हमीरपुर
25662	मोहम्मद दानिश सजरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15004 17/05/12	ग्राम और डाकघर गुरैनी खेतसराय शाहगंज, जौनपुर
25663	मोहम्मद एहसान मोहम्मद मासूम	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15504 29/11/12	अस्पताल रोड़, रासदा, बलिया
25664	मोहम्मद एहसान खान मोहम्मद असलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15568 27/12/12	मोहल्ला बिजलीपुरा कीर्ति नगर कॉलोनी के पास, शाहजहांपुर

25665	मोहम्मद एहतेशाम खान अब्दुल हफीज खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15237 10/09/12	मकान नं. 484, चिड़िया खाना रायबरेली
25666	मोहम्मद फहद इस्तेयाक अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15257 13/09/12	पाकीजा कॉलोनी चक काजी पो.ऑ. सरायमीर आजमगढ़
25667	मोहम्मद फहीम खान मोहम्मद शमीन खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	15490 21/11/12	121, मोहल्ला शेर छोटी मार्किट के पास कोतवाली, पीलीभीत
25668	मोहम्मद फरमान अब्दुल अजीज	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15403 09/10/12	ग्राम विलालपत पो.ऑ. असमोली, सम्मल भीमनगर
25669	मोहम्मद गुफरान सदाकत अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15522 04/12/12	मोहल्ला उपादियान कस्बा व पत्रालय किथौर मेरठ
25670	मोहम्मद गुलजार अजहर अब्बास	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15457 19/10/12	मोहल्ला जन्नत अबाद कस्बा जानसठ, मुजफ्फरनगर
25671	मोहम्मद हसीब मोहम्मद नईम	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15143 20/07/12	ग्राम शेरगाह,पो.ऑ. कुन्डा प्रतापगढ़
25672	मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इजहार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15462 30/10/12	मोहल्ला तेलियागढ़ पो.ऑ. गोशाईगंज, फैजाबाद
25673	मोहम्मद ईखलास निसार अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15507 29/11/12	ग्राम नसीरपुर शेख पो.ऑ. मासित चांदपुर बिजनौर
25674	मोहम्मद इमरान हफीज मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15077 20/06/12	ग्राम गनोली, पो.ऑ. छदरोली यमुना नगर, हरियाणा
25675	मोहम्मद इमरान मोहम्मद इस्लाम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15338 24/09/12	मोहल्ला अशरफ गंज रोड़, फिरोजाबाद
25676	मोहम्मद इमरान गुलाम जिलानी	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15506 29/11/12	पो.ऑ. रतसर काला थाना गदवार, बलिया
25677	मोहम्मद इमरान मोहम्मद ग्यासुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15468 01/11/12	579 के, तुर्कमानपुर गोरखपुर
25678	मोहम्मद इमरान अंसारी फूल मोहम्मद अंसारी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15015 24/05/12	620, देवरिया पार्क शामपुर सलीमपुर, देवरिया

25679	मोहम्मद इमरान हुसैन इकबाल हुसैन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15316 20/09/12	मकान नं. 68, मोहल्ला गणेश गंज मेन मार्केट पुरनपुर पीलीभीत
25680	मोहम्मद इरफान मोहम्मद नजफ अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2007	15363 27/09/12	साह मेमोरियल अस्पताल जी.टी. रोड़, सैदाबाद हण्डिया इलाहाबाद
25681	मोहम्मद इरफान खान युनुस खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15200 30/08/12	पैद इतवार सामने वाली कोठी सराय तरीन, सम्भल भीमनगर
25682	मोहम्मद इरशाद मोहम्मद एजाज	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15315 20/09/12	534के/49, अबीबपुर पो.ऑ. चौक, लखनऊ
25683	मोहम्मद जिशान मोहम्मद अफाक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15561 24/12/12	मोहल्ला सराय रफी बसता बस स्टैण्ड चांदपुर बिजनौर
25684	मोहम्मद कलिम सिराज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15336 24/09/12	ग्राम वजीरगंज पो.ऑ. सराय जगना वहराईच
25685	मोहम्मद कामरान ईजहारूल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15075 20/06/12	फतेहपुर टालस्टाय, मऊ
25686	मोहम्मद खालिद निजामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15247 31/09/12	ग्राम दीनानगर, पो.ऑ. गुलरीहा, बलरामपुर
25687	मोहम्मद खालिद सिद्धीकी बिरिमल्लाह सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15497 26/11/12	ग्राम और डाकघर गोरा चौकी गोण्डा
25688	मोहम्मद लौलाक आजिम अखलाक अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2007	15098 02/07/12	मकान नं. 28, पीर अतुल्लाह कबीर खान, पीलीभीत
25689	मोहम्मद मकसूद आलम अंसारी मोहम्मद मोहिउद्दीन अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15058 07/06/12	एन 12/461-ए-के-1 तेलियाना बजरडीहा, वाराणसी
25690	मोहम्मद मसूद अहमद खान मोहम्मद मोइद खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15233 10/09/12	ग्राम करोहा, पो.ऑ. मादो बाजार गोण्डा
25691	मोहम्मद माज अब्बासी जफर महमूद अब्बासी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15335 24/09/12	मोहल्ला चिल्ला खंडेलवाल के पास मन्दिर अमरोहा ज्योतिबा फूलेनगर
25692	मोहम्मद मोनिस मोहम्मद हनीफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15218 06/09/12	4/113, दीवान मुबारक मऊ, दरवाजा, फरूखाबाद



25693	मोहम्मद मुद्द खान मोहम्मद मुईन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15158 06/08/12	ग्राम और डाकघर छावनी अमोधा तहसील हरैया, बस्ती
25694	मोहम्मद मुर्सरफ मोहम्मद नबी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2011	15176 24/08/12	ग्राम डांग, पीलीभीत
25695	मोहम्मद मुस्तकीम रज्जब अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15357 26/09/12	95 सी.एच./52, के नई आबादी चाकिया डांग इलाहाबाद
25696	मोहम्मद नदीम इरफान अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15475 05/11/12	मकान नं. 383ए-बी, मोहल्ला टांकान, नगर पालिका परिषद कस्बा गंगोह, सहारनपुर
25697	मोहम्मद नदीम मोहम्मद हारून	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2010	15386 05/10/12	ग्राम और डाकघर राजपुर कसारिया ठाकुरद्वारा मुरादाबाद
25698	मोहम्मद नदीम अजिमुद्दीन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15276 14/09/12	ग्राम और डाकघर सेमूर खानपुर अम्बेडकर नगर
25699	मोहम्मद नदीम अंसारी इकबाल अहमद अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15473 05/11/12	110, वाईसी की मस्जिद मॉडल हाऊस, लखनऊ
25700	मोहम्मद नसीम सिद्धीकी नूर मोहम्मद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15273 14/09/12	ग्राम सरैयान कादीपुर पो.ऑ. सरैया तहसील महमुदाबाद सीतापुर
25701	मोहम्मद नावेद यामीन मोहम्मद यामीन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15597 31/01/13	22, सलमा हाकान बिजली घर नं. 2, खुर्जा बुलन्दशहर
25702	मोहम्मद नाजिम खान एजाज अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15427 12/10/12	मोहल्ला मुगलान कस्बा मीरनपुर कटरा, शाहजहांपुर
25703	मोहम्मद नाजिम खान वसीम खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15566 27/12/12	सहोना माजरा चन्दीला मोहम्मदी लखीमपुर खीरी
25704	मोहम्मद नाजिर जिया जियाउद्दीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14946 19/04/12	दरगाह शमसुल के सामने आरफिन ईदगाह रोड़ शाहजमाल अलीगढ़
25705	मोहम्मद परवेज मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15523 05/12/12	कौराना, शामली प्रबुद्ध नगर
25706	मोहम्मद कफील मोहम्मद रईस	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15612 12/02/13	ग्राम और डाकघर नेवरा तहसील रूदौली फैजाबाद

25707	मोहम्मद कासिम अली असगर	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15188 28/08/12	दीपा सराय आलम वाली गली सम्भल, मुरादाबाद
25708	मोहम्मद कासिम अब्दुल सलाम	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15106 05/07/12	ग्राम वशूनपुर खरहाना नौतीहवा पो.ऑ. सदुल्लाह नगर बलरामपुर
25709	मोहम्मद कय्यूम मोहरम अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15127 17/07/12	कैम्पस कॉर्नर अलीगढ़ मार्डन पब्लिक स्कूल के पास हाडीनगर अलीगढ़
25710	मोहम्मद रफीक अलीउद्दीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15100 02/07/12	रफीक क्लीनिक कस्बा कौरिया गंज लट्टा वाला रोड़ अलीगढ़
25711	मोहम्मद रईस अंसारी अब्दुल राशिद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15024 29/05/12	हाजी मोहम्मद इलियास बिचली मस्जिद के पास गोसाईगंज फैजाबाद
25712	मोहम्मद राशिद साजिद अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15406 09/10/12	ग्राम बदरखों, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़
25713	मोहम्मद राशिद हबीब अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15562 24/12/12	मकान नं. 110 बी 2 मोहल्ला जटान नजीर वाली मस्जिद के पास बिजनौर
25714	मोहम्मद राशिद अब्दुल रब	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15045 30/05/12	26, माधवपुर उर्फ चन्दन जोत करहीया गोसाल तह. इटवा सिद्धार्थ नगर
25715	मोहम्मद रेहान सिद्धीकी मोहम्मद सोहराब	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15448 19/10/12	ग्राम और डाकघर खखरेरू कटरा तहसील खागा फतेहपुर
25716	मोहम्मद रिहान मुजाहिर हुसैन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15025 29/05/12	ग्राम हरियाणा, पो.ऑ. जोया ज्योतिबाफूले नगर
25717	मोहम्मद रिजवान वाहिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15046 31/05/12	बहीरा खीरी, लखीमपुर खीरी
25718	मोहम्मद रूमान खान शेर अफगान खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15041 30/05/12	मकान नं. 311, खान क्लीनिक ग्राम और डाकघर सलाहाबाद बाजार मऊ
25719	मोहम्मद सादिक मोहम्मद कासिम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15408 09/10/12	637, सराय बेहलीम सोहराब गेट, मेरठ

25720	मोहम्मद सादिक मोहम्मद मोकिम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15210 04/09/12	2210/1, खैराबाद शास्त्री नगर गुरुद्वारा के पीछे सुल्तानपुर
25721	मोहम्मद सलीम अंसारी अब्दुल समद अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15565 27/12/12	मकान नं. 105, ग्राम करोंदा पचदू पो.ऑ. कोतवाली देहात नगीना बिजनौर
25722	मोहम्मद सलीम अशरफ मोहम्मद नईम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15264 13/09/12	ग्राम अनाई पो.ऑ. बघोली थाना खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर
25723	मोहम्मद सलमान सिद्धीकी मोहम्मद असलम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15579 14/01/13	35, मिर्ची टोला, पुरानी रोड़ काली नदी का पुल, बुलन्दशहर
25724	मोहम्मद सलमान रिजवान अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14953 23/04/12	मुहल्ला दारुदगिरा पो.ऑ. शमसाबाद, फर्रुखाबाद
25725	मोहम्मद साजिद असरार हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15401 09/10/12	ग्राम बुढानपुर, पो.ऑ. पताई खालसा अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर
25726	मोहम्मद साजिद अब्दुल खालिक	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15349 25/09/12	1/27-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी सीतापुर रोड़ लखनऊ
25727	मोहम्मद साजिद खान मोहम्मद जाहिद खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14930 12/04/12	ग्राम शेरपुर काला पुरानपुर, लखनऊ
25728	मोहम्मद सज्जाद खुर्शीद अहमद खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15185 28/08/12	मोहल्ला बलुआ, बलरामपुर पुलिस चौकी के पास, बलरामपुर
25729	मोहम्मद शावान रिजवान अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15029 30/05/12	ग्राम नेवादा पो.ऑ. अमिलो मुबारकपुर, आजमगढ़
25730	मोहम्मद शादाव खान मोहम्मद मुकीम अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14943 19/04/12	मकान नं. 363, तुर्कमान गेट हजीरा, अलीगढ़
25731	मोहम्मद शफीक मोहम्मद शकील	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15330 21/09/12	मुहल्ला सित्तैन रोड़ पो.ऑ. मकनद्र गंज -सदर तहसील कोतवाली
25732	मोहम्मद शहरयाब अली अब्दुल मुत्तलिब	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15112 10/07/12	ग्राम जिसोरा, सदर, मेरठ
25733	मोहम्मद शाहिद नसीमुरहमान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	15605 11/02/13	ग्राम एकसार पो.ऑ. पीपरोला बड़ा गाँव बिल्थरा रोड़, बलिया

25734	मोहम्मद शाहिद अब्दुर रशीद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15065 14/06/12	ग्राम और डाकघर हंसवर तहसील टाण्डा, अम्बेड़कर नगर
25735	मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद चमन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15521 04/12/12	स्टार अलफलाह इन्टर कॉलेज श्यामपुर रोड़, मस्जिद के सामने मेरठ
25736	मोहम्मद शहजाद कफील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15559 24/12/12	20 फुट रोड़, 235 प्रेम नगर 1 लोनी, गाजियाबाद
25737	मोहम्मद शमीन अहमद खान मोहम्मद ईदरीश खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15320 21/09/12	ग्राम अमोली पो.ऑ. धमोली पंचपेडवा, बलरामपुर
25738	मोहम्मद शमीम अब्दुल जलील	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14973 02/05/12	सोनी इलैक्ट्रॉनिक्स बक्शीपुरा, बहराईच
25739	मोहम्मद शमसुल हुड़ा मोहम्मद फखरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15441 17/10/12	मकान नं. 283/1065/19/3 एस. एस 01 श्रम विहार नगर गवैय्या लखनऊ
25740	मोहम्मद शुएब बुरहान अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15087 27/06/12	मोहल्ला चाहसंग, चांदपुर बिजनौर
25741	मोहम्मद शुजाउद्दीन परवेज कमाल मुस्तफा	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14945 19/04/12	तहसील रोड़ संगत किला महमूदाबाद अवध, सीतापुर
25742	मोहम्मद सुफयान मोहम्मद राउफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15250 12/09/12	68/369, भेरी मण्डी लाल कुआं थाना हुसैनगंज लखनऊ
25743	मोहम्मद सुहेल फिदा हुसैन	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2010	15069 18/06/12	ग्राम नौरंगडीह, पो.ऑ. गोमरी उत्तरोला, बलरामपुर
25744	मोहम्मद सुलेमान शफीउल्लाह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15281 14/09/12	ग्राम कस्बा सगरी पो.ऑ. सगरी, आजमगढ़
25745				
25746	मोहम्मद ताहिर इफतेखार अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15241 10/09/12	ग्राम औसानपुर, पो.ऑ. डुमारिया गंज, सिद्धार्थ नगर
25747	मोहम्मद तैय्यब तुफेल अहमद	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2005	14983 09/05/12	ग्यासपुर नोनारी पो.ऑ. मानी कलां, जौनपुर

25748	मोहम्मद तालिब खान शमीन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15231 10/09/12	ग्राम यूसुफाबाद, पो.ऑ. चिरैयाकोट, मऊ
25749	मोहम्मद तारिक मोहम्मद रईस	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	15287 18/09/12	जी/पी जरी बाजार, इलाहाबाद
25750	मोहम्मद तारिक मोहम्मद रजी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15245 11/09/12	ग्राम और डाकघर अरन्द जौनपुर
25751	मोहम्मद तारिक जमाल जमाल अब्दुल नासिर	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15377 03/10/12	हीरा कटरा सब्जी, मण्डी रसड़ा, बलिया
25752	मोहम्मद तसनीफ मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15198 30/08/12	सीमेन्ट रोड़ छोटी मस्जिद के पास मोहल्ला बंजारन नवाबगंज, बरेली
25753	मोहम्मद उस्मान हब्बन मोहम्मद इदरीस हब्बन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15459 25/10/12	ग्राम ताहिर अंसारी मोहल्ला मुस्लिम त्यागीयान कस्बा चारथावल मुजफ्फरनगर
25754	मोहम्मद उस्मान अब्दुल मुतालिब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15180 27/08/12	इस्लाम नगर अजीमग नगर जोमा पो.ऑ. जोमा ज्योतिबाफूले नगर
25755	मोहम्मद विकार मोहम्मद नईम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15454 19/10/12	438 नई आबादी, खालापार मुजफ्फरनगर
25756	मोहम्मद वसीम मोहम्मद वकील	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15062 08/06/12	ग्राम कदजा, पो.ऑ. सेमरीयावा सिद्धार्थ नगर
25757	मोहम्मद वसीम यार मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15182 27/08/12	ग्राम गुमा फातमा जोत पो.ऑ. सादुल्लाह नगर बलरामपुर
25758	मोहम्मद यामीन सदरुद्दीन फारुकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15203 31/08/12	116/845, रावतपुर गाँव कानपुर
25759	मोहम्मद यासिर नाजिर हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2009	15253 12/09/12	ग्राम तहारपुर अब्वाल पो.ऑ. गुरेर तहसील विलारी मुरादाबाद
25760	मोहम्मद यूसुफ शूजा उल हसन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2007	15013 24/05/12	मुहल्ला कुरेसी, चौपाल अमरोहा के पास, ज्योतिबा फूलेनगर
25761	मोहम्मद यूसुफ अंसारी मोहम्मद सरवर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15626 19/02/13	ए/305, मोहल्ला अशरफ अली पो.ऑ. गंगोह, सहारनपुर

25762	मोहम्मद जफर अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15071 18/06/12	रोशन क्लीनिक रोशन नगर खालियाबाद, सिद्धार्थ नगर
25763	मोहम्मद जाहिद मोहम्मद खलील	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15056 07/06/12	ग्राम और डाकघर माली मैनहाँ सिद्धार्थ नगर
25764	मोहम्मद जाकिर मोहम्मद याकूब	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2008	15541 14/12/12	मोहल्ला कटरा मूसा खान नखासा, सम्भल, भीमनगर
25765	मोहम्मद जावेद मोहम्मद शाहिद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15372 01/10/12	ग्राम और डाकघर पवई आजमगढ़
25766	मोहम्मद जावेद आलम हमीद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15501 27/11/12	ग्राम और डाकघर दिलारी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद
25767	मोहम्मद जावेद आलम लियाकत अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15007 17/05/12	मोहल्ला मोतीपुर कस्बा फूंद, इलाहाबाद
25768	मोहम्मद जिलानी खान मोहम्मद इरफान खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15636 04/03/13	86, ग्राम कटोली बुजुर्ग पो.ऑ. कटोली कर्लौ, लालगंज आजमगढ़
25769	मोहम्मद जुबेर महमूद हसन	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15179 27/08/12	ग्राम और डाकघर पलोला अमरोहा, ज्योतिबाफूले नगर
25770	मोहसिन खान अली एमम खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15414 10/10/12	इन्दिरा नगर हाता, कुशीनगर
25771	मोहसीना अतहर अतहर हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14962 01/05/12	4/478, हमदर्द नगर बी जमालपुर, अलीगढ़
25772	मोबिन जेहरा एस.एन. मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15252 12/09/12	4/957 ए, गली नं. 15 मस्जिद के पीछे जोहराबाग अलीगढ़
25773	मुहम्मद फेसल नसीम अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15201 30/08/12	धोलीपुर बखीपुर जिमानपुर सगरी, आजमगढ़
25774	मुहम्मद नबी जियाउद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2004	15103 04/07/12	मोहल्ला काजीपारा ईदगाह चौक, बिजनौर
25775	मुहम्मद अकील नजमुल हसन	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	15631 28/02/13	ग्राम बड़ा गॉव बन्ध पो.ऑ. एवं तहसील घोसी मऊ

25776	मुहम्मद अकरम अंसारी मुहम्मद ईसा अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15643 07/03/13	ग्राम और डाकघर समाई थाना बहिती बडहल गंज, गोरखपुर
25777	मुहम्मद आसिफ सिद्धीकी मुहम्मद अनीस सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15067 18/06/12	ग्राम सन्दहा पो.ऑ. सुल्तानपुर, कबीरपुर अम्बेड़कर नगर
25778	मुहम्मद इसरार अहमद मुहम्मद इरफान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15090 27/06/12	ग्राम और डाकघर इतौरा चौबेपुर, मऊ
25779	मुहम्मद रईस सिद्धीकी रियाजुद्दीन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	15573 01/01/13	ग्राम हरैया, पो.ऑ. भटनी दादन देवरिया
25780	मुहम्मद शफीक खान बशीर अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15633 01/03/13	खान क्लॉथ हाऊस ग्राम और डाकघर बसखरी अम्बेड़कर नगर
25781	मुहम्मद शाहबाज अतीकुर्रहमान सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15030 30/05/12	धनेवा धनेई टोला गबेडुआ, महाराजगंज
25782	मुहम्मद शरीक मुहम्मद शरीफ	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15048 05/06/12	असालतपुरा भट्टी स्ट्रीट सामने ए वन ड्राईक्लीन, मुरादाबाद
25783	मुहम्मद शोएब खान जहीर हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2004	15442 17/10/12	ग्राम खंडरावली पो.ऑ. पसवाड़ा, मेरठ
25784	मुहम्मद उस्मान अहमद सुलेमान अहमद	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15638 05/03/13	ग्राम और डाकघर बंदीघात मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ
25785	मुहम्मद वासिफ समीउल्लाह सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	14932 13/04/12	शिवपुर सहबाज गंज रशीद नगर कॉलोनी गोरखपुर
25786	मुख्तार आलम साकिब फहीम अहमद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15006 17/05/12	गोला बाजार, मसवासी थाना स्वार रामपुर
25787	मुन्ताहिर मोहम्मद असगर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15139 20/07/12	सैदपुर रोड़ एक मिनार मस्जिद कस्बा गुलावटी बुलन्दशहर
25788	मुकर्रम इकबाल नसीम अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15564 27/12/12	मोहल्ला कानून गोयान कस्बा झालू, बिजनौर

25789	मुकीमुद्दीन अंसारी जमालुद्दीन अंसारी	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15224 06/09/12	धानेपुर बाजार, गोण्डा
25790	मुस्तगीसुल हसनैन इनामुल हसनैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14964 01/05/12	75 मोती मेन गेट किला, बरेली
25791	मुजम्मिल अहमद शब्बीर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15173 13/08/12	मोहल्ला महावीर नगर इकोना, श्रावस्ती
25792	मुजम्मिल हुसैन खान सैय्यद अली खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1997	15526 10/12/12	ग्राम और डाकघर इमिलिहा वाया उसका बाजार, सिद्धार्थ नगर
25793	मुजीब फरीदुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15426 12/10/12	ग्राम और डाकघर काजीवाला तहसील बिजनौर बिजनौर
25794	मुजीबुल हक खान अनवारूल हक खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15368 28/09/12	मकान नं. 355/413 के, मोहल्ला (थड़ी) आलम नगर लखनऊ
25795	मुजीबुल रहमान अंसारी समसूल हसन अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14982 03/05/12	मोहल्ला हटोरा कस्बा खैराबाद, सीतापुर
25796	मुजतबा अली सिद्धीकी मूर्तजा अली सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15378 03/10/12	मलिक मैरिज हॉल के वास लखपेड़ा बाग, बाराबांकी
25797	नादिर शहजाद अंसार अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15050 05/06/12	ग्राम इब्राहिम, पो.ऑ. देवकली तारण, आजमगढ़
25798	नफीस अहमद अमीरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15644 07/03/13	ग्राम रामपुरदास, टोला पो. ऑ. नगीना, बिजनौर
25799	नफीस अहमद अब्दुल हक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15148 25/07/12	ग्राम अरनोला पो.ऑ. डीदारगंज तहसील फूलपुर, आजमगढ़
25800	नफीस अहमद खान शकील अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	15554 24/12/12	द्वारा शकील मेडिकल स्टोर थाना इटावा बाजार, सिद्धार्थ नगर
25801	नगमा बानो इफतेखर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15270 13/09/12	नफीस टैन्ट हॉऊस फूलपुर, आजमगढ़
25802	नगमा मंसूरी मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14991 11/05/12	जमुना बाला, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद



25803	नगमा नौशीन मोहम्मद खतीबुल्लाह अंसारी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2009	14999 16/05/12	सी 795, सैक्टर 6 इन्द्रा नगर, लखनऊ
25804	नईम सलीम खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14948 19/04/12	मकान नं. 5/473, शाहगंज नई ईदगाह शाहमल गंज, अलीगढ़
25805	नसीबुल्लाह मोहम्मद रईस	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	14995 15/05/11	ग्राम सिशाना, पो.ऑ. बैंक बाजार बलरामपुर
25806	नसीम अहमद सैय्यद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15418 10/10/12	मोहल्ला किला, देवबन्द सहारनपुर
25807	नसीम अख्तर जिकरुल्लाह सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15436 15/10/12	ग्राम और डाकघर पीपरा कनक थाना पटहेरवा, कुशीनगर
25808	नौशाद अहमद मलिक शमशाद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14990 11/05/12	मकान नं. 216, राजा का ताजपुर, बिजनौर
25809	नौशाद अहमद नूर अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15194 28/08/12	मकान नं. 141, मोहल्ला लोहरी सराय मुल्तानी कॉलोनी नगीना बिजनौर
25810	नौशाद अली दिलशाद अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15616 12/02/13	ग्राम और डाकघर अठसेनी पंचशील नगर, हापुड़
25811	नौशाद अली मकबूल अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15560 24/12/12	मकान नं. 83 नगीना चौक नई बस्ती मुस्लिम कॉलोनी धामपुर बिजनौर
25812	नौशाद अली छेदू अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15384 04/10/12	हाजी गुलाम अली के पास मोहम्मद शेख सराय पाटिया सीतापुर
25813	नावेद आलम शमीम अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	15292 18/09/12	मोहल्ला नल, नई बस्ती अमरोहा ज्योतिबा फूलेनगर
25814	नवैद अली अंसारी इकरार अली अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15131 18/07/12	ग्राम दिप्पुर पो.ऑ. खुदागंज तिहाड़, शाहजहां पुर
25815	नजम अली खान मोहम्मद अली खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2008	14954 23/04/12	महमूद हद्दाक शम्शी खान की पुलिया के पास, शाहजहांपुर
25816	नजर मोहम्मद बाबू खान	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2012	15649 15/03/13	ग्राम तटीना सानी, थाना परतापुर बंजारन गली, मेरठ

25817	नाजिया बी इसरार अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15164 08/08/12	ग्राम और डाकघर हरपाल सहारनपुर
25818	नाजिया परवीन सुल्तान अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15472 01/11/12	मोहल्ला पतियापाड़ा चांदपुरा, बिजनौर
25819	नाजिया सैय्यदा गुलशन रजा	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2007	15400 09/10/12	वार्ड नं. 10 मोहल्ला सादत नगली उझारी हसनपुर ज्योतिबा फूलेनगर
25820	नाजीर अहमद खान वजीर मोहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15170 09/08/12	डी फिटी नया विजय नगर सैक्टर 9, गाजियाबाद
25821	नाजिश सलीम मोहम्मद खालिद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15547 18/12/12	मकान नं. 6/7/34 मोतीबाग, फैजाबाद
25822	नाजनीन जकी मिर्जा जकी बेग	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15328 21/09/12	ग्राम चाकिया पो.ऑ. अमोली मुबारकपुर आजमगढ़
25823	नजरा बी मोहम्मद हनीफ	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15496 26/11/12	कसबा एवं पो.ऑ. सेंथल मोहल्ला पुलिस चौकी, बरेली
25824	नाजरीन फातिमा अनीस अहमद कुरेशी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15309 20/09/12	वाल्मिकि नगर, पालिका पडरोना कुशीनगर
25825	नेदा आजमी फिरोज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15398 09/10/12	163, चकला तकिया, पो.ऑ. सदर आजमगढ़
25826	नेमा सुल्तान खालिक अहमद नैय्यर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15511 03/12/12	ए34/1, चौथा बैंक साइड शाहीन बाग जामिया नगर लखनऊ
25827	निदा फराज सरफराज अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15464 30/10/12	मोहल्ला काजीसराय चांदपुरा बिजनौर
25828	निदा खानम मोहम्मद शमीम खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15003 17/05/12	मोहल्ला फरसोलियाना मैथ, हमीरपुर
25829	निखत अब्बास अब्बास अली खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 1997	15266 13/09/12	70, फ्लेट नं. एफ.3 गली नं. 3 ज्ञानखण्ड 2 इन्दिरापुरम गाजियाबाद
25830	निलोफर सैमुअल किश्टोफर सैमुअल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15344 25/09/12	113/7 डी, महेवा पुरब पट्टी, इलाहाबाद

25831	निलोफर नोमानी नूरुल हसन नोमानी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15314 20/09/12	108/97, तालाब गगनी शुक्ला मॉडल हाऊस, लखनऊ
25832	निशा परवीन सैय्यद सैफुर रहमान मियाँ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15322 21/09/12	निकट शान मैरिज हॉल बरेली गेट रोड शाहबाद रामपुर
25833	निशात फातिमा खुशीद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15451 19/10/12	29, मीरपुर जौनपुर सदर, जौनपुर
25834	नियाज अहमद खॉ मुहम्मद सिद्धीक खॉ	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	15018 24/05/12	ग्राम डेगराह पो.ऑ. बढया बभनान थाना गौर, बस्ती
25835	नियाज अली अब्दुल गनी अब्दुल गनी मुमताज अली शेख	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2010	15552 21/12/12	मकान नं. 92 ख, पुरवा पुरानी बाजार पूर्वी आशिक तहसील तुलसीपुर बलरामपुर
25836	निजाम अहमद अब्दुल रशीद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15184 28/08/12	अबुबकर नगर, वार्ड नं. 25 देवरिया
25837	निजामुद्दीन सगीरुद्दीन सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1996	15342 25/09/12	मकान नं. 113 ए, मोहल्ला जरारी ग्राम और डाकघर जरारी फारुखाबाद
25838	निजामुद्दीन शरीक मुस्तफा हुसैन निजामी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15346 25/09/12	96, ख्वाजा कुतुब कनकाह नियाजिया, बरेली
25839	नूर मोहम्मद खान महमूद खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	14922 04/04/12	ग्राम जोकही, गोण्डा
25840	नुसरत अली अनादिल हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15411 09/10/12	ग्राम फत्तेपुर खास थाना मेनाठेर बिलारी मुरादाबाद
25841	नुसरत फातिमा फैज मोहम्मद अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15432 15/10/12	राजा साहेब की मस्जिद के पास मोहल्ला पुरानी बस्ती पो.ऑ. मुबारकपुर आजमगढ़
25842	पारुल अस्थाना चन्द्रभान अस्थाना	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15325 21/09/12	173/137, कुन्डी नगर टोला कटरा, आजमगढ़
25843	परवेज अहमद साकिर अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15142 20/07/12	ग्राम गोहारपुर सराय ममरेज, इलाहाबाद

25844	परवेज आलम शाहबुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15653 15/03/13	112, गंज सादत, शिकारपुर शिकारपुर, बुलन्दशहर
25845	परवेज अशरफ मोहम्मद रफीक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15174 13/08/12	ग्राम और डाकघर सदुल्लाह नगर बलरामपुर
25846	कलीम अहमद खान शमीम अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14972 02/05/12	इन्दिरा नगर, बमनी कानून गो. गिर्द, गोण्डा
25847	कमल अख्तर अजहर अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15251 12/09/12	202, हर्ना तकिया नई बस्ती सहसवान, बदायूं
25848	कमर आलम खान बाबूल्लाह (बाबूलाल)	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15049 05/06/12	ग्राम भोगलाहा पो.ऑ. भागीरथपुर नौतनवां महाराजगंज
25849	कयामुद्दीन खान मुकीमुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15339 24/09/12	ईदगाह के पास, ग्राम और डाकघर लालौली, फतेहपुर
25850	रबिया खनाम जाहिद अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15498 26/11/12	लाडली एडवोकेट ग्राम और डाकघर, गुधनी तहसील बिल्ली बदायूं
25851	रफत अली बदरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15529 11/12/12	ग्राम गाधी सलीमपुर मोहल्ला चौधरियां, मुरादाबाद
25852	रफत शमीम शमीन अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2010	15465 10/10/12	तकिया कवलड़ीह रसूलपुर गोरखनाथ गोरखनाथ
25853	रहीमुद्दीन खान अब्दुल रहमान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15019 24/05/12	ग्राम भारिया लबेदपुर पो.ऑ. जयप्रभा ग्राम गोण्डा
25854	राहुल कान्त बच्चू लाल	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2010	15550 20/12/12	मोहल्ला चाहशोर ज्योतिबा फूलेनगर
25855	रायना अनहार सैय्यद तसददुक हुसैन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15152 30/07/12	न्यू इन्दिरा नगर सर्कुलर रोड पो.ऑ. बमानी कानून गो, गोण्डा
25856	रईस अहमद समीउल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15111 10/07/12	ग्राम मामपुर, पो.ऑ. धम्मोर सुल्तानपुर
25857	रईस खान रियासत अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15617 12/02/13	ग्राम और डाकघर आसिफाबाद चांदपुर, बुलन्दशहर

25858	राकिब मियां इफितखार हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15008 18/05/12	मोहल्ला पोखरवाला रिलायंस टॉवर के सामने वाली गली सदाबाद, हाथरस
25859	रशिदा खानम रियाज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15488 20/11/12	ग्राम रनिकपुर थाना कुमारगंज परगना खंडासा तहसील मिल्कीपुर लखनऊ
25860	रशिदा जमाल जुनेद आलम	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2006	15412 09/10/12	ग्राम गरियावान, पो.ऑ. मन्सूराबाद इलाहाबाद
25861	रजा हैदर जैदी मुस्तहसिन रजा जैदी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15204 03/09/12	मोहल्ला पंजी सराय सम्मल पंजु सराय के पास पुलिस चौकी भीमनगर
25862	रजमी यूनूफ के.एस.एम. यूनूफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15260 13/09/12	ए 254, इन्द्रा नगर, लखनऊ
25863	रहमान तसलीम तसलीम अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2012	15596 30/01/3	मकान नं. 70 के/26, मोहल्ला सबनीग्रान नजीबाबाद बिजनौर
25864	ऋचाखन्ना ओसामा खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15267 13/09/12	ख्वाजाबाग कॉलोनी मकान नं. 624, डी/102, चिन्हट, लखनऊ
25865	रिहाना एम.ए. खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15381 03/10/12	मकान नं. 3/377/3 गुराना रोड़ गली नं. 6 बड़ौत बागपत
25866	रियासत अली जाहिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15645 07/03/13	शाहबपुर उर्फ हिन्दूपुर पो. ऑ. गुनियापुर नजीबाबाद, बिजनौर
25867	रियाज खान असलम खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2001	15657 19/03/13	मोहल्ला अफगानन ननोता, सहारनपुर
25868	रियाजुद्दीन रउफ खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15331 21/09/12	मोहल्ला लक्ष्मणपुरी चित्रकूट
25869	रिजवान अहमद मोहम्मद मंजूर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15407 09/10/12	गुज्जर वाड़ा, निकट भूमिया खेड़ा जी.टी.रोड़, देवबन्द, सहारनपुर
25870	रिजवान अहमद इरशाद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2009	15073 19/06/12	ग्राम नरपत नगर, पो.ऑ. टुंडावाला सवर, रामपुर

25871	रिजवान अहमद अबुल हफिज	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15202 31/08/12	ग्राम बुद्धि खास पो.ऑ. बिस्कोहट बाजार सिद्धार्थ नगर
25872	रिजवाना शमीम गयासुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2001	15303 19/09/12	मकान नं. 855, गली नं. 5 मेन सागरपुर, दिल्ली
25873	रोबाना खातून मसूद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15575 03/01/13	मकान नं. 25, मोहल्ला पुरानी बस्ती मुबारकपुर आजमगढ़
25874	रौनक अफरोज मोहम्मद मुस्लिम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14977 03/05/12	4/887, हमदर्द नगर, जमालपुर अलीगढ़
25875	रौनक अली आशिफ अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15480 07/11/12	433/1029, यासीन गंज रामनगर, लखनऊ
25876	रुबीना इन्साफ अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15608 12/02/13	ग्राम और डाकघर दोतई गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़
25877	रुबीना सैय्यद अहमद हसन सैय्यद अहमद हसन	बी.यू.एम.एस. मुम्बई वि.वि., मुम्बई 2001	15347 25/09/12	मकान नं. 451/26/2, जफारिया कॉलोनी मुफ्तीगंज ठाकुरगंज चौक लखनऊ
25878	रुही ऐवज अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15500 27/11/12	किदवई क्लीनिक, पलटन छावनी सीतापुर रोड़, लखनऊ
25879	रुही तबस्सुम नासिर अशरफ खान	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1996	15659 21/03/13	बी 1-154, दिलशाद एक्स 2 डी.एल.एफ., गाजियाबाद
25880	रुकैया खातून इजहारूल हक	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15227 07/09/12	मोहल्ला बिस्मिल नगर वार्ड नं. 22 नगर पालिका परिषद महाराज गंज
25881	रूपम वर्मा राम स्वरूप वर्मा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15354 26/09/12	ग्राम सिपाह, पो.ऑ. रामनगर अम्बेडकर नगर
25882	सबा अंजुम मोहम्मद नसीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15219 06/09/12	सी 2881, राजाजीपुरम लखनऊ
25883	सबा खानम बदियुज्जमा खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15290 18/09/12	ग्राम और डाकघर संजारपुर आजमगढ़
25884	सबा परवीन मोअज्जम अली खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15034 30/05/12	मकान नं. 4/783, सल्फिया कॉम्प्लैक्स मस्जिद अहले हदिस जमालपर अलीगढ़

25885	सबोर रहमान मुन्नन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15055 07/06/12	556/8ख/7, सुजानपुरा आलमबाग, लखनऊ
25886	सबिहा फातिमा सैय्यद सरवर हुसैन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14958 01/05/12	निकट अलीगढ़ मार्डन स्कूल, हादीनगर खादिजा, मस्जिद धोरा माफी, अलीगढ़
25887	साबिर अली मुल्लन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15141 20/07/12	मुहल्ला सरायबली, पो.ऑ. अतरौली अलीगढ़
25888	साबिर हुसैन मोहम्मद सिद्दीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15620 14/02/13	74, ठाकुरगंज खड़गपुर पुरानी बाजार ऐडजसेन्ट पो. ऑ. गोण्डा
25889	सादिया जब्बार अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15625 19/02/13	ग्राम मुस्तफाबाद पो.ऑ. पचेंडा कला, मुजफ्फरनगर
25890	सादिया रैसुद्दीन अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15582 17/01/13	गुलामी की पुरा, रहमत नगर सदर कोतवाली, आजमगढ़
25891	सादिया सलीम सैय्यद सलीम अख्तर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14979 03/05/12	4/762 जे 1, महक गली हमदर्द नगर बी, अलीगढ़
25892	सादिया शेरवानी एस.यू.के. शेरवानी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14950 23/04/12	4/749, फ्रैंड्स कॉलोनी नगला रोड़, अलीगढ़
25893	सादिक हुसैन नुरूल हुसैन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2005	15494 22/11/12	8, छितरपाड़ा, मझरेटी, बलरामपुर
25894	सैफुल इस्लाम ताहिर हुसैन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2012	15576 11/01/13	ग्राम और डाकघर राधना इनायतपुर किठोर, मेरठ
25895	सायमा रिजवान रिजवान अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15379 03/10/12	मुहल्ला शेखवाड़ा, मुहम्मदाबार, गोहना, मरु
25896	सल्लल्लाह आलम गोर	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2006	15369 01/10/12	ग्राम अमर डोमा, पो.ऑ. बखिरा सन्त कबीर नगर
25897	सलेहा खातून वसियुद्दीन अहमद सिद्दीकी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15206 03/09/12	बी-12, कल्याणपुर पश्चिम रिंग रोड़ हीरो होण्डा एजेंसी, लखनऊ
25898	सलमा अजीज नायब अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15610 12/02/13	ग्राम और डाकघर ओरन बौंदा

25899	समाएला मोहम्मद इदरीस	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15032 30/05/12	ग्राम और डाकघर कुजवना कुरुहेला बोबरा माया सलमारी जी कटिहार बिहार
25900	समन अफरोज मोहम्मद नदीम अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15474 05/11/12	110, बाईसी की मस्जिद मॉडल हाऊस, लखनऊ
25901	समीना बेगम एहतेश्याम अनवर	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2010	15341 25/09/12	एल.आइ.जी. 189 सैक्टर 2 आवास विकास कॉलोनी आगरा
25902	समीउल्लाह मोहम्मद मुस्तकिम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2012	15569 27/12/12	मकान नं. 142, ग्राम बेलुआ पी.एस., बंकाटा तहसील बंसी सिद्धार्थ नगर
25903	सना फातिमा नफीस हैदर	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15084 22/06/12	मकान नं. 92, पाठन 1 तहसील पहला कलां लखीमपुर खीरी
25904	सना फातमा शाहबुद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15635 01/03/13	ग्राम रोजा सैफन पट्टी पो.ऑ. खालिसपुर (सगड़ी) आजमगढ़
25905	सरफराज अहमद जमाल अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15263 13/09/12	मिरानपुर अकबरपुर अम्बेड़कर नगर
25906	सरफराज नवाज जाकिर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15382 04/10/12	ग्राम और डाकघर रिगोली बाजार, इलाहाबाद
25907	सरफराज उद्दीन अलाउद्दीन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15288 18/09/12	ग्राम छीतमउ पो.ऑ. महरौड़ा मऊ आइमा तहसील सोराव इलाहाबाद
25908	सरताज अहमद अब्दुल गफफार	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14942 19/04/12	मकान नं. 28, पीर अताउल्लाह अपर कोट, अलीगढ़
25909	सरताज अहमद सिराज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15283 18/09/12	ग्राम हुसैनपुर, पो.ऑ. डाक लाही, फरीदपुर, बदायूं
25910	सरताज अहमद खान मुख्तार अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	14923 10/04/12	मकान नं. 15, मोहल्ला कासिम पोखरी, लखनऊ
25911	सउदुर्हमान अनसार अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15487 19/11/12	मकान नं. 6/248, मोहल्ला अलहदादपुर छजजापुर, अम्बेड़कर नगर
25912	सायमा जबी खान एन.ए. खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	45421 11/10/12	एम 1230, केशवपुरम आवास विकास कल्याणपुर कानपुर



25913	सीमा मंसूर अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15390 08/10/12	1/846, विशाल खंड गोमती नगर, लखनऊ
25914	शबाना बानो मुहम्मद अनीस	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15648 11/03/13	मकान नं. 226, ग्राम कनकपुर पो.ऑ. सोहनारिया, देवरिया
25915	शबाना फरीदी महमूद अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15611 12/02/13	532/548 ए, बनारसी टोला, अलीगंज, लखनऊ
25916	शब्बीर अहमद सिकन्दर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15450 19/10/12	सी-20/9बी 3, नई पोखरी वाराणसी
25917	शबीना बानो जावेद रहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15481 07/11/12	ग्राम महमदपुर, पंचरूखी सिवान
25918	शबनम राशिद रशीद अहमद अंसारी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15036 30/05/12	मकान नं. 11/69, बनिया पाड़ा गली मस्जिद बु अली शाह अप्पर कोट अलीगढ़
25919	शादाब करुम सलाम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2012	15546 18/12/12	ग्राम और डाकघर भोजपुर मादीनगर, गाजियाबाद
25920	शादाब अहमद सिद्धीकी महमूद अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15192 28/08/12	मोहल्ला सहवान, आई.टी. आई. के पास नगीना, बिजनौर
25921	शफीक अहमद मोहम्मद सुलेमान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15439 17/10/12	ग्राम इटेला बुजुर्ग, पो.ऑ. सुरवार खुर्द छपिया, गोण्डा
25922	शफीकुर रहमान अजीजुर रहमान	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2012	15646 08/03/13	मकान नं. 211, अब्दुल हाकी रोड़ सीढी सराय, मुरादाबाद
25923	शगुफता परवीन मतलूब हसन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14970 02/05/12	फ्लेट नं. 1, सर सैय्यद रेजिडेन्सी के पास, अलीगढ़
25924	शगुफता जफर जफरूल इस्लाम आजमी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	15125 16/07/12	मुहल्ला बाग, पो.ऑ. अदरी मऊ
25925	शाह खालिद महफूजुरहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15360 27/09/12	मोहल्ला पुरारानी, पो.ऑ. मुबारकपुर, आजमगढ़
25926	शाह परवेज रमजान अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15532 11/12/12	मोहल्ला जैन नगर गली नं. 1 तहसील खतौली, मुजफ्फरनगर

25927	शहरयार खान शकील खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15449 19/10/12	202, तिवारी कैम्पस, वैस्टेंड रोड मेरठ
25928	शहबान अली सलमान अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14986 09/05/12	गोल्डन मेडिकल स्टोर, बड़ा नानुदान, छोटा इमाम बाडा के पास, बड़ा जैदपुर बाराबांकी
25929	शाहगुल मोहम्मद असलम खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15485 12/11/12	हजरत नगर, गाधी पो.ऑ. खास सम्भल, भीम नगर
25930	शाहिद हसन शाहिद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	14997 15/05/12	ग्राम और डाकघर मसीन थाना डीमपुर दीपा चांदपुर, बिजनौर
25931	शाहला तरन्नुम अंसारी अतीकुर्रहमान	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2010	15094 28/06/12	मकान नं. 25, उदयभान पुर आजमगढ़ सदर, आजमगढ़
25932	शाहनवाज महमूद हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14975 02/05/12	ग्राम सौदासपुर पो.ऑ. जहांगीरपुर तहसील ठाकुरद्वारा मुरादाबाद
25933	शाहनवाज आलम मोहम्मद मोइयुद्दीन	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2011	15630 28/02/12	ग्राम और डाकघर लोहरा थाना मुबारकपुर वाया मडियावाहा आजमगढ़
25934	शाहनाज खान शमसुद्दीन खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15313 20/09/12	536 के/28 न्यू मक्कागंज सीतापुर रोड, लखनऊ
25935	शहजाद हुसैन अफजल अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15225 07/09/12	ग्राम और डाकघर गोहावर जैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बिजनौर
25936	शाईस्ता मोबिन इजहार आलम अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15641 06/03/13	सी/15/219, लल्लापुर सिगरा लखनऊ
25937	शाईस्ता नाज मोहम्मद हकीम अंसारी	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15129 17/07/12	मकान नं. 360 दरियापुर सूरज टाकिज, सुल्तानपुर
25938	शाईस्ता परवीन नसीर हसन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15160 08/08/12	ए.पी.एल. 416, मुस्लिम कॉलोनी छतमलपुर, सहारनपुर
25939	शाईस्ता परवीन रेयाज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15324 21/09/12	करमेनी रैनापार, आजमगढ़

25940	शमा अब्दुल हई खान खान अब्दुल हई	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2005	15362 27/09/12	ग्राम जिया बहरी, पो.ऑ. बधेनी सिद्धार्थ नगर
25941	शमा परवीन सिराजुद्दीन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2011	15606 11/02/13	मकान नं. 695/1, खैराबाद सुल्तानपुर
25942	शमीम अहमद हकीम उल्ला	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2007	15395 08/10/12	ग्राम सेवदा, चायल कौशाम्बी इलाहाबाद
25943	शमीन अख्तर असरार अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15195 28/08/12	ग्राम और डाकघर पश्चिम खैराबाद, मऊ
25944	शमशेर आलम समीउल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15124 13/07/12	ग्राम और डाकघर करमाहा थाना बृजमन गंज, लखनऊ
25945	शमसुज्जुहा महबूब सुभानी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15366 28/09/12	मकान नं. 52, बसावन गंज अमरोहा, ज्योतिबा फूलेनगर
25946	शकील अहमद सिद्धीकी हसन अली सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2008	15429 12/10/12	ग्राम और डाकघर शाहपुर टाण्डा थाना हसनगंज, उन्नाव
25947	शकीला बेगम जहीरुल हसन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15345 25/09/12	एम 2, 214, सैक्टर 1, नवादा गाँव के पास जानकीपुरम, लखनऊ
25948	शाकिर मोहम्मद हनीफ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15193 28/08/12	मोहल्ला सराय मीर चूना भट्टी के पास ट्रांसफार्मर नगीना, बिजनौर
25949	शाकिर रजा मुहम्मद ताहिर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15536 12/12/12	मोहल्ला भोडा पट्टी कुरेशियां मस्जिद के पास ग्राम और डाकघर बस्ती चांदपुर बिजनौर
25950	शरीफ हुसैन मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15392 08/10/12	मोहल्ला मखूपुर, खैराबाद सीतापुर
25951	शावेज अहमद मोहम्मद शोएब	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2012	15607 12/02/13	श्रीमति तमहीद फातिमा द्वारा डा. सिद्धीकी स्व. मो. शोएब अहमद, गोण्डा
25952	शायमा खान मुस्ताफीज अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15652 15/03/13	मकान नं. 11, थिरीया निजवात खान, बरेली
25953	शाजान आसिफ सगीरुद्दीन अंसारी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15586 22/01/13	सुपर मेडिकल एजेंसी, आजाद रोड, भवन शामली, प्रबुद्ध नगर

25954	शाजिया खान इरफान उल्ला खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	15553 24/12/12	मेडिकल एड सैन्टर, चिड़िया खाना रायबरेली
25955	शाजिया महबूब कशफुद्दुजा	बी.यू.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2010	14955 23/04/12	482/38/2, निकट चमन वाली मस्जिद के पास मण्डी इरादत नगर डालीगंज लखनऊ
25956	शेख अनवर अहमद अब्दुल वहाब	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2009	15238 10/09/12	ग्राम और डाकघर बंदीघात मुहम्मादाबाद गोहना, मऊ
25957	शेख गुल मोहम्मद शेख रज्जब अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15117 13/07/12	हॉल रोड कमरा नं. 349 ग्राम कुरला पश्चिम मुम्बई
25958	शेख मोहम्मद दानिश बदरुद्दीन मोहम्मद यासीन	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1999	15445 18/10/12	ग्राम औसतपुर, पो.ऑ. चिरेयाकोट लखनऊ
25959	शिबा मुख्तार अली खान	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2012	15356 26/09/12	एमन जय जलाल नगर, भुल्लन खान की चोपाल शाहजहां पुर
25960	शिना खान बदीउज्जमा खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15137 19/07/12	57, सैय्यद मैशन अराजी बाग पो.ऑ. एवं तहसील सदर आजमगढ़
25961	शिवेन्द्र प्रताप सिंह पंवार जिलेदार सिंह पंवार	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15463 30/10/12	537ए/75, महाराजा अग्रसेन नगर सीतापुर, लखनऊ
25962	शूएब अहमद मोहम्मद अकरम सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15484 12/11/12	154, पंजाबियां खुर्द, मेरठ
25963	शूएब खान जराफत अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15096 29/06/12	ग्राम चिरोड़ी, गाजियाबाद
25964	सिद्धीकी फजला जैनब मोहम्मद मोहम्मद तय्यब	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15466 31/10/12	107/35/डी/1, मलका गेटी का फाटक वाइसी की मस्जिद लखनऊ
25965	सिकंदर खान सुबूर खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	14921 04/04/12	मोहल्ला मण्डई इमाम चौक तहसील संडीला हरदोई
25966	सीमा जिलानी मोहम्मद शाहनवाज आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	15578 15/01/13	मोहल्ला सराय रफी चांदपुर, बिजनौर

25967	सीमना परवेज सैय्यद उरुज मौउज्जम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15311 20/09/12	346/ए, बी.एन. रोड मक्का अपार्टमेंट लालबाग, लखनऊ
25968	सिराज अहमद शहरयार	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15240 10/09/12	ग्राम औसनपुर पो.ऑ. डुमारिया गंज, सिद्धार्थ नगर
25969	सिराज अहमद मोहम्मद अनीस	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14949 19/04/12	ग्राम और डाकघर करमपुर अकबरपुर, अम्बेडकर नगर
25970	सिराज अहमद जमील अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15333 24/09/12	ग्राम मनापर बहेरिया तेलियाजोत पो.ऑ. हुसैनाबाद तहसील उतरोला बलरामपुर
25971	सिराज अहमद खान खलील अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14952 23/04/12	ग्राम करीमनगर, पो.ऑ. बलभद्रपुर रिसिया, बहराईच
25972	शोहरब अहमद इकरामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15295 18/09/12	मोहल्ला मनिहारन, कस्बा शेरकोट बिजनौर
25973	शोमेन्द्र कुमार त्रिलोक चन्द्र	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15599 31/01/13	ग्राम और डाकघर रोहाना खुर्द मुजफ्फरनगर
25974	सुहेल इसरार अली खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15163 08/08/12	ग्राम और डाकघर हरपाल सहारनपुर
25975	सुहेल अहमद जुबैर अहमद	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2010	15591 28/01/13	ग्राम नेवादा पो.ऑ. सदुल्लाह नगर बलरामपुर
25976	सुहेल अहमद शमीम अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	15159 06/08/12	ग्राम बनकसिया रोड ऑफिस मगईपुर पो.ऑ. धोरहरा तहसील उतरोला बहराईच
25977	सुहेल खान तासिर अली खान	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2010	15387 05/10/12	मोहल्ला चौधरी, सराय, बदायूं
25978	सुलेमान वलीउल्ला खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15092 28/06/12	ग्राम रायपुर विचपुरी पो.ऑ. जोमराजपुर पुरनपुर पीलीभीत
25979	सुल्तान अहमद सैय्यद मोहम्मद अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2009	15298 19/09/12	ग्राम और डाकघर शाहनवाज फैजाबाद
25980	सुमन सिंह चौहान विजयभान सिंह चौहान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15391 08/10/12	632/24, सनातन नगर कमता चिनहट, लखनऊ

25981	सुमबुल हसन खान मलिक इतरत	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15208 04/09/12	मकान नं.162, भगवान गॉधी पो.ऑ. ए.डी.एफ. अलीगढ़
25982	सुमेरा अख्तर नजमुस साकिब खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2008	15471 01/11/12	चक्की वाली गली गुइया तालाब, रामपुर
25983	सुमैया सिन्धीकी एजाज अहमद सिन्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15567 27/12/12	सबा अस्पताल, सरायमीर आजमगढ़
25984	सुमैया उमर खान मोहम्मद उमर खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15143 25/09/12	538/427, दीनदयाल नगर लखनऊ
25985	सैय्यद अहमद खलील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2002	15658 19/03/13	मोहल्ला झोटेवालां, सहारनपुर
25986	सैय्यद अहमद मुख्तार अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14984 09/05/12	ग्राम तैयबपुर, पो.ऑ. परसोना बलरामपुर
25987	सैय्यद अहमद अली सैय्यद वकील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15456 19/10/12	मकान नं.860/113 गली नं. 6 अम्बा विहार, मुजफ्फरनगर
25988	सैय्यद आसिफ रियासत सैय्यद रियासत अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15223 06/09/12	मोहल्ला सराय रफी डिग्री कॉलेज के पास घोसी वाली गली, चांदपुर बिजनौर
25989	सैय्यद बिलाल हुसेन सैय्यद अकील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15495 23/11/12	1530 साँऊथ, खालापार मुजफ्फरनगर
25990	सैय्यद फरीदी अब्दुल समद फरीदी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2008	14985 09/05/12	ग्राम और डाकघर बारावन मछली शहर मीरगंज, जौनपुर
25991	सैय्यद मेहबूब अली सैय्यद हाशिम अली	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2002	15482 08/11/12	इमाम बड़ा, गोण्डा
25992	सैय्यद मोहम्मद जिया अशरफ सैय्यद सलाहउद्दीन अशरफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गॉधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15005 17/05/12	ग्राम और डाकघर बसरवारी थाना बसरवारी तहसील टाण्डा अम्बेड़कर नगर
25993	सैय्यद नदीम अहमद अब्दुल मारुफ	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	15310 20/09/12	मकान नं.84/823, सकेरा स्टेट अलवरगंज रेलवे स्टेशन के पास कानपुर

25994	सैय्यद नाजिर अब्बास सैय्यद अली कौसर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15272 14/09/12	ग्राम अहिरौली, पो.ऑ. मदारपुर जौनपुर
25995	सैय्यद निकहत असगर सैय्यद असगर हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15197 30/08/12	2सी/50, मिन्टो रोड इलाहाबाद
25996	सैय्यद शबीब रिजवी सैय्यद मोहम्मद सैय्यद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2005	15255 12/09/12	मोहल्ला मण्डाई इमाम चौक सन्दीला, हरदोई
25997	सैय्यद वसीम अहमद सैय्यद वकील अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 1990	15079 02/06/02	ग्राम खल्लेगांव पो.ऑ. गजीजपुर तहसील टाण्डा, अम्बेड़कर नगर
25998	सैयदा हुमैरा बानो शेख मोहम्मद तारिक	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	15136 19/07/12	24 के, भादी रोड पुरानी बाजार, शाहगंज, जौनपुर
25999	तबरेज आलम फिरोज अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15047 01/06/12	ग्राम संदहा, पो.ऑ. मानी कलां जौनपुर
26000	तैय्यबा फातिमा अब्दुल मुगनी	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2012	15574 03/01/13	ग्राम एनी हतिन्सी, पो.ऑ. कौसर गंज, बहराईच
26001	ताज मोहम्मद अजहर अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15656 19/03/13	417/692, बसंत विहार कॉलोनी
26002	तनवीर फातमा मोहम्मद असलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15350 26/09/12	ग्राम बसवाही, पो.ऑ. कुन्डा प्रतापगढ़
26003	तरन्नुम शाहिन मोहम्मद जलील	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15351 26/09/12	मोहल्ला सिरकाहन बडी मस्जिद के पास टाण्डा अम्बेड़कर नगर
26004	तरन्नुम हाफिज हफीज-उर रहमान खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15040 30/05/12	मकान नं. 16/24, काला महत मस्जिद के पास जयगंज अलीगढ़
26005	तरन्नुम परवीन अख्तर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2011	15534 12/12/12	पो.ऑ. कासमपुर गाँधी रहमत नगर कॉलोनी, धामपुर बिजनौर
26006	तारिक अनवर अखलाक अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	15205 03/09/12	सी 15/339, पो.ऑ. मताकुण्ड लल्लापुरा, वाराणसी
26007	तारिक खान याकूब अहमद खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2006	14924 10/04/12	महुआ टोला पो.ऑ. शाहबाद, हरदोई

26008	तारिक मुस्तफा गुलाम मुस्तफा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2006	15489 20/11/12	189, हमदर्द नगर ए जमालपुर सिविल लाइन अलीगढ़
26009	तारिक परवेज अंसारी सगीर अहमद अंसारी	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2009	15286 18/09/12	ग्राम हरैया थाना हाता तहसील सदर, देवरिया
26010	तारिक जमालखान मुजीबुल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15642 07/03/13	89ए, मोइनपुर, बलरामपुर
26011	तशरीफ आलम अब्दुल मजीद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15277 14/09/12	ग्राम परसोनी पो.ऑ. रुद्रपुर शिवनाथ महाराजगंज
26012	तसोवर हुसैन सरमद हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15242 11/09/12	ग्राम भावपुर मीरा पो.ऑ. भादोखर इटावा थाना बाजार सिद्धार्थ नगर
26013	तय्यबा गुल्फाम मोहम्मद मुतीउर्रहमान खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15399 09/10/12	टाण्डा अम्बेडकर नगर
26014	तैय्यबा इकबाल इकबाल खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	15091 27/06/12	मुस्तफा मस्जिद, शान मैरेज हॉल के पास, रामपुर
26015	तहमीना रेहमानी मुसतकीम सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2003	15358 27/09/12	ग्राम बखारिया पो.ऑ.सुमहा डीह थाना पवाई फूलपुर, आजमगढ़
26016	तौकीर आलम फारूकी मोहम्मद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15145 24/07/12	ग्राम मोहम्मदपुर सोहाग पो.ऑ. कोटा भवानीगंज, प्रतापगढ़
26017	तौसीफ अहमद रईस अहमद	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि. वि.) दिल्ली 2010	15068 18/06/12	मोहल्ला नीमताल, पो.ऑ. जलालपुर, अम्बेडकर नगर
26018	तौसीफ अली मोहम्मद शकूर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15452 19/10/12	ग्राम फूलासी पो.ऑ. सांपला खत्री देवबन्द, सहारनपुर
26019	उमर मोहम्मद मोहम्मद हसमत	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14965 01/05/12	ग्राम रियावली नागला बुढाना रतनपुरी पो.ऑ. खास मुजफ्फरनगर
26020	उम्मे हबीबा अबू ओसामा	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15380 03/10/12	ग्राम पारा, पो.ऑ. रंगड़ीह आजमगढ़
26021	उरुसा बी वाजिद अली खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2007	15105 05/07/12	द्वारा इक्तेदार अहमद, मोहल्ला चाहमुल्ला, अमन अमरोहा ज्योतिबा फूलेनगर



26022	उरुज अहमद खान अब्दुल शकील खान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15217 05/09/12	वार्ड नं.19 मोहल्ला निबिया ग्राम और डाकघर ककराला बदायूं
26023	उस्मान अली नूर हसन	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2012	15660 21/03/13	ग्राम वीरपुर वरियार उर्फ खारक पो.ऑ. चन्दनपुर मंथापांडे मुरादाबाद
26024	उवेद उल रहमान रफीक अहमद	बी.यू.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2012	15650 15/03/13	211, किसरोल, नगफी मुरादाबाद
26025	उजैर अहमद वकील अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	15134 18/07/12	ग्राम पंथर पो.ऑ. रामपुर कलां थाना टाण्डा अम्बेड़कर नगर
26026	उजमा शाहिन अजीजुर्रहमान	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2009	15367 28/09/12	ग्राम और डाकघर रसूलपुर मुंदेरा नारायणपुर प्रीतमपुर अम्बेड़कर नगर
26027	विजय पाल पुरन लाल	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2009	15169 09/08/12	डी फिटी नया विजय नगर सैक्टर 9, गाजियाबाद
26028	विनय कुमार सिंह ओमपाल सिंह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15589 22/01/13	श्याम सिंह बिल्डिंग हरमुखपुरी, मोदीनगर गाजियाबाद
26029	विवेक सिंह रसिक बिहारी सिंह	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15479 07/11/12	21, आशीष नगर तेडी पुलिया रिंग रोड, लखनऊ
26030	वहाब अली राशिद अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15515 04/12/12	मोहल्ला मुल्लन टोला, अशरफ टोला, सन्दीला हरदोई
26031	वहीदउद्दीन जमालउद्दीन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15453 19/10/12	छोटा बाजार, बुढाना, मुजफ्फरनगर
26032	वहीदुल हसन नजफ हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान वि.वि., जयपुर 2003	15113 11/07/12	ग्राम पीपरा पो.ऑ. इतई उतरोला, बलरामपुर
26033	वामिक उमर मुहम्मद उमर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2009	15386 05/10/12	राजापुर सिकरौर सरायमीर, आजमगढ़
26034	वारिस अहमद मोहम्मद इदरीस	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15557 24/12/12	ग्राम सुहागपुर, पो.ऑ. धामपुर बिजनौर
26035	वसीम अहमद रफीक अहमद	बी.यू.एम.एस. भारतीय चिकित्सा बोर्ड, जयपुर 2010	15189 28/08/12	ग्राम और डाकघर भोजपुर मोदीनगर, गाजियाबाद

26036	वसीम अहमद अब्दुल हई	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15235 18/10/12	मकान नं. 24, ग्राम और डाकघर आसिफाबाद चांदपुर, मेरठ
26037	वसीम अहमद शमीम अहमद	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14969 01/05/12	मोहल्ला खेड़ा, हलडोर बिजनौर
26038	वसीम अहमद महबूब अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15409 09/10/12	मोहल्ला काली पगड़ी अमरोहा, ज्योतिबाफूले नगर
26039	वसीम पाशा नसीम अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15539 12/12/12	ग्राम और डाकघर पटोला अमरोहा, ज्योतिबाफूले नगर
26040	यशमीन सिद्धीकी मोहम्मद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15037 30/05/12	4/81, एम कबीर कॉलोनी अनूप शहर रोड़, अलीगढ़
26041	जफर अहमद मोहिवउल्ला	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15243 11/09/12	पप्पू जरनल स्टोर, 143/99 नियामतुल्लाह रोड़, अमीनाबाद फैजाबाद
26042	जफर परवेज परवेज अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15428 12/10/12	मोहल्ला कजियाना रुदोली, फैजाबाद
26043	जफर सईद अबूल वला	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15634 01/03/13	504/004, टैगोर लेन, निकट मनकामेश्वर मन्दिर, नदवा बरोलिया, लखनऊ
26044	जफर जावेद खान मोहम्मद जावेद खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	14961 01/05/12	ग्राम मोहम्मदपुर सदर, आजमगढ़
26045	जाहेदा मोहम्मद इरशाद सरवर आलम	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 1997	15107 05/07/12	सा मो. सबरहद, पो.ऑ. सबरहद जौनपुर
26046	जाहिद अख्तर अंसारी शरफूद्दीन	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2011	15503 29/11/12	पश्चिम मोहल्ला, रसदा बलिया
26047	जाहिद अली बाबू खान	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2006	15132 18/07/12	4/291, जोहराबाग फरीद डायरी के पास सिविल लाइन दोधपुर अलीगढ़
26048	जाहिद अली शराफत अली	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15157 06/08/12	ग्राम और डाकघर भैनसा वाया नूरपुर चांदपुर, बिजनौर
26049	जाहिद कुसैन जमील अहमद	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2010	14994 14/05/12	रसूलपुर अजय नगर गोरखनाथ, गोरखपुर

26050	जमील अहमद मंजूर अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15296 19/09/12	ग्राम सोलाना प्रतापुर पो.ऑ. गोविन्दपुरी मेरठ
26051	जमील अहमद सेराजुद्दीन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15101 03/07/12	ग्राम एकोना पो.ऑ. मीरपुर रहीमाबाद, मऊ
26052	जमजम शाहिद मोहम्मद अकमल	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2009	15510 03/12/12	172, मस्जिद कल्लाश गय्या तालाब 2 सदर, रामपुर
26053	जाकिर बुरैर जाफरी मोहम्मद बुरैर जाफरी	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14976 02/05/12	मोहल्ला चौधरियां, कस्बा सिरसी सम्भल, भीम नगर
26054	जावेद अख्तर मुहम्मद इसहाक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2010	15028 29/05/12	ग्राम लेडुआ महुआ नया मोहल्ला पो.ऑ. बखिरा सिद्धार्थनगर
26055	जावेद आलम जहीर आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15422 11/10/12	56, सडक धुधली खंड 1 सहारनपुर सहारनपुर
26056	जावेद अली रफीक हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	14968 01/05/12	दोलतबाग मठ वाली गली 7, मुरादाबाद
26057	जावेद अजीम अब्दुल अजीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2006	14926 11/04/12	मकान नं. 8, आवास विकास कॉलोनी हारा की चुंगी, आजमगढ़
26058	जावेद फरीदी साबिर अली	बी.यू.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2001	14929 12/04/12	बारावान पो.ऑ. बारावान मछली शहर, जौनपुर
26059	जावेद खान वारिस अली खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	14988 10/05/12	ग्राम और डाकघर आसिफाबाद चांदपुर, बुलन्दशहर
26060	जेबा खान इसराईल खान	बी.ए.एम.एस. पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, कोलकाता 2009	15478 07/11/12	ग्राम और डाकघर सिकारिया कलां, बलिया
26061	जैद हसन मोहम्मद हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15031 10/05/12	ग्राम कल्याणपुर बरगदवा पो.ऑ. बंधुसरी तुलसीपुर बलरामपुर
26062	जैनुल अब्दीन अब्दुल कादिर	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15461 30/10/12	मलिक टोला, मऊनाथ भंजन मऊ
26063	जिया-उल इस्लाम महबूब इस्लाम	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15088 27/06/12	मोहल्ला धोसियानं ग्राम सलैमपुर खास पो.ऑ. गॉंधी काण्ट मुरादाबाद
26064	जियाउल हक खान अब्दुल हक खान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15530 11/12/12	मकान नं. 425/116, अम्बरगंज के पास, लखनऊ

26065	जियाउल हक केमुल हक	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2009	15297 19/09/12	ग्राम और डाकघर पीरो भोजपुर, बिहार
26066	जियाउर्रहमान अजीजुर्रहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15555 24/12/12	बालदा रोज जलील का होटल पीर बतावां, बाराबांकी
26067	जियायुद्दीन आरिफी फरीदुद्दीन आरिफी	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15081 22/06/12	ग्राम और डाकघर गोधाना पवई, आजमगढ़
26068	जियाउर्रहमान खान हबीबुर्रहमान	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15588 27/01/13	435/25, रज्जाबगंज लखनऊ
26069	जिशान मोहम्मद शमीम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2013	15623 18/02/13	ग्राम कुरखिला, पो.ऑ. हरई बाराबांकी
26070	जिशान अहमद खान नवाब शेर खान	बी.यू.एम.एस. जामिया हमदर्द, (मानित वि.वि.) दिल्ली 2012	15375 01/10/12	ग्राम और डाकघर गोरा तहसील पुरानपुर, पीलीभीत
26071	जिशान हैदर रिजवी सैय्यद सरदार हुसैन	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15540 14/12/12	ग्राम और डाकघर शिवली निजामाबाद, आजमगढ़
26072	जोहेब सिद्धीकी जावेद सिद्धीकी	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2011	15538 12/12/12	139, पंजाबियान, खुर्द बुलंदशहर
26073	जोहरा जबी वसीम	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15167 09/08/12	द्वारा इब्राहिम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, मोहल्ला पटानपुरा नजीवाबाद, बिजनौर
26074	जुबैर अहमद अब्दुल रौफ	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2011	15080 22/06/12	ग्राम डुमरिया, पो.ऑ. नंदोरी बलरामपुर
26075	जुबेर आलम जलील अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15318 21/09/12	ग्राम अम्बेद, पो.ऑ. डांग पीलीभीत
26076	जुबेर आलम हाफिज मुजफ्फर आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2010	15361 27/09/12	ए-13/199, घासियारी टोला, भदउ चुंगी, वाराणसी
26077	जुल्फिकार हबीब अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2012	15571 31/12/12	बुक्सर मेन रोड़, सिम्भावली मेरठ

26078	जुनेद अहमद शमशाद उल हक	बी.यू.एम.एस. राजस्थान आयु वि.वि., जोधपुर 2010	15241 04/09/12	मकान नं. 64, मोहल्ला सलातीन कस्बा किठौर मवाना, मेरठ
26079	जुनेद अहमद फारुक अहमद	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2007	15177 24/08/12	मुहल्ला पुरानी बाजार पो.ऑ. नानपारा, पीलीभीत
26080	जुरीन जमाल जमालुद्दीन	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2010	15161 08/08/12	द्वारा श्रीमती जिनत जमाल फरसोती टोला, बदायूं

### CENTRAL COUNCIL OF INDIA MEDICINE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 6<sup>th</sup> June, 2014

**No. 20-21/2014 –CR (Uttar Pradesh).**— Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Uttar Pradesh and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Uttar Pradesh state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from 1st April 2012 to 31<sup>st</sup> March 2013 by inserting serial No. 183159 of Ayurveda and 25358 of Unani onwards after the existing last Serial No. 184261 of Ayurved and 26080 of Unani which is to be published in the Gazette of India for general information.

[Advt. III/4/Exty./124/14]

P.R. SHARMA, Registrar

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Uttar Pradesh) from 1st April 2012 to 31<sup>st</sup> March 2013 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

**CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE**  
**UTTAR PRADESH**  
**PART - I - AYURVED**

<b>CR. NO.</b>	<b>NAME &amp; FATHER'S NAME</b>	<b>QU ALIFICATION AWARDING BODY &amp; YEAR OF AWARD</b>	<b>REGN. NO. &amp; DATE</b>	<b>ADDRESS</b>
183159	A Amir Khurshid SM Khurshid	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57680 05.10.12	VPO Karjahan Deoria
183160	Aarif Khan Akbar Ali Khan	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57827 04.01.13	197, Vill. Sarfabad Noida Gautam Buddh Ngr
183161	Abha Gour Puran Chand Gour	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57379 28.08.12	Vill. Lachhampur PO Kalaghati Kotdwar Pouri Garhwal
183162	Abhay Chouhan Surendra Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57126 13.07.12	H No.2/112, Buddhi ViharAvas Vikas Cly Majhola Muradabad
183163	Abhay Kumar Rana Rajaram Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57707 12.10.12	VPO Gordhanpur NavkaThana Afzalgarh Bijnor
183164	Abhay Pratap Singh Rajendra Pal Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57814 24.12.12	Awadhपुरi Cly, Subhash Nagar Bareilly
183165	Abhay Singh Lodhi Zahar Singh Lodhi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57258 14.08.12	VPO Bamhori KalanJakhlon Block Jakhora L Alitpur
183166	Abhijit Kumar Shrivastava Ravi P. Shrivastava	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57111 09.07.12	7/13, Baghambri Gaddi Allapur Allahabad
183167	Abhilash Sharma Kunj Bihari Lal Sharma	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	57792 12.12.12	Nai Basti, SamtharTehsil Month Jhansi
183168	Abhilasha Devi Rishi Chorasias	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57393 30.08.12	252, Malakpura Mahoba
183169	Abhilasha Verma Ajay Kumar Verma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57766 30.11.12	87/16/1, Tyagi Rd Dehradun Uttarakhand
183170	Abhinav Kumar Anand Prakash Kaka	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57789 11.12.12	H No.13, Bazar Madhudas Secunderabad Bulandshahar
183171	Abhinav Pandey Suresh Chandra Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57840 16.01.12	Vill.Rasulpur PO GopinathTappa Bangavan Hareiya Basti
183172	Abhishek Mohan Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57261 16.08.12	389, Khushipura Jhansi

183173	Abhishek Dwivedi Rajeshwar Dwivedi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57788 11.12.12	H No.202 B, Basharatpur Purvi PO Gitavatika Gorakhpur
183174	Abhishek Jadoun Pratap Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57795 13.12.12	8/48, New Ashok Nagar Aligarh
183175	Abhishek Kumar Chandra Mohan Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57415 31.08.12	VPO Bhadfar Sitapur
183176	Abhishek Maheshwari Ashok K. Maheshwari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57334 27.08.12	Wata W Ali G Ali Jogipada, Dibai Bulandshahar
183177	Abhishek Matwani Shanti Kumar Matwani	BAMS CSM Univ., Kanpur 2006	56943 10.05.12	G 1084, ShakurpurNear Wazirpur Depot Delhi
183178	Abhishek Saxena Balvir Bahadur	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2009	57455 04.09.12	Bansipura L Alitpur
183179	Abhishek Shrivastava Dinesh C. Shrivastava	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57484 07.09.12	Vill.Valapur Thana Nawabganj Gonda
183180	Abhishek Singh Devendra P. Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57162 24.07.12	C/o Shri Tehsildar SinghTilmapur Ashapur Sarnath
183181	Adarsh Pratap Singh Rajendra Pratap Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57902 25.02.13	168 B, Hind Nagar Kanpur Road, Purani Chungi Lucknow
183182	Aditi Choudhry Niraj Choudhry	BAMS MD Univ., Rohtak 2009	57391 30.08.12	Gandhi Market Opp.Sugar Mill Bijnor
183183	Aditi Yadav Rajendra Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57821 27.12.12	Vill.JajpurThana Mohammadabad Farrukhabad
183184	Aditya Kumar Mahendra K. Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57357 28.08.12	IPP Lohia Campus 2/2, Avas Vikas Cly Farrukhabad
183185	Adwet Tripathi Achyut Kumar Tripathi	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57029 19.06.12	H 129, Secetor 41Noida Gautam Buddh Nagar
183186	Agnivesh Tripathi Suresh C. Tripathi	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57053 28.06.12	719A, Ramanand NagarAllapur Allahabad
183187	Ahmad Nawaz Shamshir Hassan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57551 13.09.12	Mohalla Usmanpur PO Jalalpur Ambedkar Nagar
183188	Aivran Singh Mool Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57108 06.07.12	H. No. 20, G Ali No.4, jagjivan Ramnagar No. 6 Ferozabad

183189	Ajay Kant Dwivedi Vishnu Shankar Dwivedi	BAMS BHU, Varanasi 2013	57971 12.03.13	Vill. Sonai PO Onta Allahabad
183190	Ajay Kumar Raghuvir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56944 10.05.12	VPO AurangabadSadar Mathura
183191	Ajay Kumar Mahendra Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2012	57887 15.02.13	Moh Makbara Gurdwara Najibabad Bijnor
183192	Ajay KumarKushwaha Jiut Vandhan Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57094 12.12.12	VPO Avjapur Chandoli
183193	Ajay Kumar Brijesh Chandra Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57409 31.08.12	Sakaldeeha Bazar Chandoli
183194	Ajay Kumar Dev Nandan P. Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2008	57628 27.09.12	Vill.Chandhasi Thana & PO Mugalsarai Chandoli
183195	Ajay Kumar Pawan Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57025 14.06.12	Egist Gaura Chowki Bamnan Rd Gonda
183196	Ajay Kumar Jaiswal Shibban Lal Gupta	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57496 10.09.12	Ratsiya Morh Bhatpar Rani Deoria
183197	Ajay Pratap Singh Chandra Bhan Singh	BAMS SS Univ., Varanasi 2008	57627 27.09.12	Vill.Rajepur Malouli PO Jahangirwa Gonda
183198	Ajay Rawat Ram Kishor Rawat	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57822 27.12.12	SS 3/626, Ruchi Khand LDA Colony Lucknow
183199	Ajay Sharma Panna Lal Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57587 19.09.12	G 1, 562, K Alindi Puram Rajrup Pur Allahabad
183200	Ajit Kumar Rai Ram Chandra Rai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57209 07.08.12	Vill.Barehata PO Farsad Gorakhpur
183201	Ajit Pal Singh KP Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56914 23.04.12	33/1A/4T, Radha Nagar Bulkeshwar Aligarh
183202	Ajit Singh Awdhesh Yadav	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2012	57855 28.01.13	VPO Gandhuvai Azamgarh
183203	Ajit Singh Markandey Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57246 13.08.12	Vill. Rabngwa PO AleyaTehsil Machhli Shahar Jounpur
183204	Akashdeep Sahu Ramsewak Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57768 30.11.12	H No.182, Muh Milan PO Barua Sagar Jhansi



183205	Akhand Pratap Singh Haridwar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57293 22.08.12	VPO Mirpur Chilua Tal Block Jangal Kodia Gorakhpur
183206	Akhilesh Kumar Aniruddh Mishra	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57546 12.09.12	Vill. Ganvaria Khurd PO Mahua Buzurg Siddharth Nagar
183207	Akhilesh Katyayan Devvrat Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57021 08.06.12	Anand Clinic Vill. Binoli Bagpat
183208	Akhilesh Kumar Mourya Arvind Kumar Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57313 23.08.12	Vill. Malaka PO Garapur Allahabad
183209	Akhilesh Kumar Gupta Bhagwan Das Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57489 10.09.12	Vill. Pakaria Gaon PO Hariharpur Kaya Sthan Faizabad
183210	Akhilesh Kumar Satguru Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57355 28.08.12	E 4/92, Amrap Ali Avas Vikas Colony Hardoi Road Lucknow
183211	Akhilesh Kumar Singh Virendra B. Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2001	57534 12.09.12	4/792, Shastri Chowk Purana Ram Nagar Varanasi
183212	Alka Gupta Rajiv Kumar Gupta	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57781 07.12.12	Ward No.13, Bhikhampur Road, Shastri Nagar Deoria
183213	Alok Jain Anand P. Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	57040 22.06.12	Bhagwati Clinic Moh Kayastan PO Rampur Maniharan Saharanpur
183214	Alok Kumar Naresh Chandra	BAMS MD Univ., Rohtak 2012	57819 27.12.12	Shivani Garments Kotana Rd, Barout Bagpat
183215	Alok Kumar Sone Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57450 04.09.12	VPO Baror Kanpur Dehat
183216	Alok Kumar Jaiswal Kripa Shankar Jaiswal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57330 27.08.12	Vill. Kalna PO Haripur Marro Tehsil Hadia Allahabad
183217	Alok Kumar Singh Narsingh Bahadur Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57010 28.06.12	VPO Mehrikala Behraich
183218	Alok Kumar Verma Sukhram Verma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57461 05.09.12	Vill. Bhakurahia PO Dasia Basti
183219	Alok Kushwaha Lalaram Kushwaha	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56930 02.05.12	Pratap Nagar Jalalabad Shahjahan Pur
183220	Alok Pandey Ashok Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57514 11.09.12	Mohalla Kasbhara Puwayan Shahjahan Pur

183221	Alok Sharma Sharda Sharan Sharma	BAMS Jiwaji Univ., Gw Alior 2007	57813 21.12.12	Harsh Nagar Kachahari Rd Vidhayak Naurangabad Itawa
183222	Alok Singh Prahlad Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57005 06.06.12	Vill. Gursel PO Sademau Tehsil Fatehpur Barabanki
183223	Altaf Hussain Mazhar Hussain	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57681 05.10.12	VPO Chokia Gazipur
183224	Amir Abbas Mohammad Hassan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57692 08.10.12	Hassan Hospital Miranpur, Akbarpur Ambedkar Nagar
183225	Amit Dixit Awdhesh Dixit	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57568 18.09.12	Opp. Sindhi Colony Rly. Rd Farrukhabad
183226	Amit Kumar Mansingh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57749 20.11.12	Vill. Paharpur PO Belahar Mainpuri
183227	Amit Kumar Kanhaiya Prasad	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57064 28.06.12	VPO Raniganj Bazar B Alia
183228	Amit Kumar Mishra Shrawan Kumar Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57823 27.12.12	H No. 62, Bazar Uttari 3 H No. 162 to 331 Fatehpur
183229	Amit Kumar Mourya Banke Lal Mourya	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57034 20.06.12	F 1/96, Sector 1 Rajajipuram Lucknow
183230	Amit Kumar Rai Arun Kumar Rai	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57185 30.07.12	H No. 339, MohBhairoganj, Charkhari Mahoba
183231	Amit Kumar Ram Anand Ram	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57300 22.08.12	VPO GouraThana Rampur Karkhana Deoria
183232	Amit Kumar Sahu Ashok Kumar Gupta	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57067 28.06.12	Near Zubleee Cinema Sahu Tola, Bakshipur Gorakhpur
183233	Amit Kumar Shukla Suresh Kumar Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57698 11.10.12	H No. 666, Aluthok Hardoi
183234	Amit Kumar Singh Ramji Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57969 12.03.13	H No. S2/509 A Sikrol, Thana Cantt. Varanasi
183235	Amit Kumar Singh Garud Pratap Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57582 19.09.12	H No. 46, Mohalla Katra, PO Ayodhya Faizabad
183236	Amit Kumar Sony Hiralal Sony	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57666 03.10.12	H No. 46, Mohalla Civil Line Ganda Nala Sultanpur

183237	Amit Kumar Yadav Shyam Kumar Yadav	BAMS BHU, Varanasi 2013	57947 12.03.13	Nai Basti Didhar VPO Majhowan B Alia
183238	Amit Shukla Krishan S. Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57479 07.09.12	289/A, Pokharpur VishwaBank Colony Jajmau Kanpur
183239	Amit Singh Surendra B. Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57236 13.08.12	Vill.Ferozpur PO Rampur Kalan Sareni Lalganj Beswara Pratapgarh
183240	Amit Singh Yadav Charan Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57727 30.10.12	Vill.Chakla Purva PO Pohar Banda
183241	Amit Verma Amit Maheshwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57729 30.10.12	Vill.KheriThana Bilsa Badayun
183242	Amresh SinghKushwaha Babu Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57069 28.08.12	115/1, Gandhi Gram PO Harjindra Nagar Kanpur
183243	Amrita Pandey Ashutosh Pandey	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57190 30.07.12	Vill.Bhinkhini Chak PO Hariharpur Sant Kabir Nagar
183244	Amrita Singh Brijesh Kumar Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57444 03.09.12	134, Aga ColonyCivil Lines Sitapur
183245	Amzad Ali Babu Khan	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57825 31.12.12	H No. 492, Vill Dabki Junnardar Saharanpur
183246	Anamika Kumari Ramnarayan Lal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57959 12.03.13	B 32/113B, BHU Naria Varanasi
183247	Anand Kumar Pandey Chandra Bhan Pandey	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	56908 20.04.12	Vill.Gopri Chandpur PO Tighra Ambedkar Nagar
183248	Anand Kumar Patel Shanti Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57487 10.09.12	Vill.Sisuar Andupur PO Vishupur Beriya Gonda
183249	Anand Kumar Singh Mewa Lal Singh	BAMS MUHS, Nashik 2009	56941 09.05.12	VPO Chobeypur Varanasi
183250	Anand Prakash Dwivedi Shrikant Dwivedi	BAMS BHU, Varanasi 2011	57119 13.07.12	Vill. BirpurTehsil Hadia Allahabad
183251	Anand PrakashTiwari Govardhan Tiwari	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	56964 21.05.12	Ward No.11, Sanjay Nagar Opp. Chourasia Chandoli
183252	Anikesh Kumar Paras Nath Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57549 13.09.12	Chandoli Purani Bazar Ward No. 6, Indra Nagar Chandoli

183253	Anil Kumar Badle Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57206 06.08.12	Vill.Tusyana, Greater Noida Exten Gautam Buddh Ngr
183254	Anil Kumar Harish Chandra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57136 16.07.13	Vill. Kudihar Thana Bardah Lalganj Azamgarh
183255	Anil Kumar Vishwakarma Rajendra P. Vishwakarma	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2008	57761 27.11.12	Vill. Karma PO Surtanipur Varanasi
183256	Anil Kumar Rajdev	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	52138 16.07.12	H No. 395, Vill.Chhapia PO Bhingari Bazar Deoria
183257	Anil Kumar Gayadeen Saroj	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57639 28.09.12	H No. C 15, Avas Vikas Colony Amethi
183258	Anil Kumar Pal Jagdish Pal	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56980 29.05.12	PO Kamaharia PO Badri Bazar Deoria
183259	Anil Kumar Patel Chunni Lal Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57654 01.10.12	Vill.Vadova PO Shitalganj, Tehsil Madiyahu Jounpur
183260	Anil Kumar Sony Shyam Kishore Sony	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2013	57907 27.02.13	H No 432, Madavara 2Tehsil Mahroni L Alitpur
183261	Anil Kumar Tiwari Ghanshyam Tiwari	BAMS SS Univ., Varanasi 2009	57478 07.09.12	Tilak Nagar Colony Mahua Bagh Gazipur
183262	Anil Kumar Tripathi Satya N. Tripathi	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56904 18.04.12	220/14, JL Chak Niratul Jagmal Hata Rajrup Pur Allahabad
183263	Anil Kumar Tripathi Ram Nayan Tripathi	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57520 11.09.12	Vill. Rahimpur PO Katdharmusa Ambedkar Nagar
183264	Anil Kumar Verma Munshi Lal Verma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57150 19.07.12	H No. 173/9, BelnaparaThana Kesarganj Behraich
183265	Anil Kumar Yadav Ram Swarth Yadav	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57155 20.07.12	H No. 120 Moh Pandeypur Cly Jalalpur Dehat Ambedkar Nagar
183266	Aniruddh Ashok	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57443 03.09.12	VPO Mungmas Mau
183267	Anita Upadhyaya Ram Bahal Upadhyaya	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57771 03.12.12	W No. 14 H No. 70 Nagar P Alika Parishad Bansi Siddharth Nagar
183268	Anita Yadav Dinesh Chandra Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57085 02.07.12	E 574, Sahodra SadanBhujoli Colony Deoria

183269	Anj Ali Pandey Ashok Kumar Pandey	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57081 02.07.12	C 4420, Sector 12 Rajajipuram Lucknow
183270	Anj Ali Shrivastava Pramod K. Shrivastava	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57302 22.08.12	Mohalla Tedi Bazar Near Gurudwara Balrampur
183271	Anjana Singh Satyapal Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2011	57794 12.12.12	Vill.Merti Kalan PO Bamhoti Kalan L Alitpur
183272	Anjani Kumar Singh Vijay Bahadur Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2008	56916 26.04.12	Vill. Jalalpur, PO Bikapur Faizabad
183273	Anju Rai Rohit Rai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57472 06.09.12	Old Katehara Rd Dadri Gautam Buddh Ngr
183274	Ankaj Kumar Pawan Kumar Mishra	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2013	57911 01.03.13	Vill. Khanapur PO Durgapur Amethi
183275	Ankesh KumarSaxena Munish Chandra Saxena	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56924 02.05.12	Rambagh Colony Muzaffar Nagar
183276	Ankit Jaiswal Om Prakash Jaiswal	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2013	57999 22.03.13	H No. 81, Kasai TolaTehsil Sagdi Azamgarh
183277	Ankit Sharma Daya Shankar Sharma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57696 0.10.12	VPO Gadhera Bazar Maharaj Ganj
183278	Ankita Garg Anil Kumar Aggarwal	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57919 05.03.13	120/42, Beldari Lane Lalbagh Lucknow
183279	Ankur Satya Prakash Bajpai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57156 20.07.12	Vill. Saktapur PO Fardhan Lakhimpur Khiri
183280	Ankur Gautam Asharam	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57295 22.08.12	Vill. Kohrain PO Nedula Parasram Pur Hareiya Chandoli
183281	Ankur Khare Mukesh Kumar Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57463 05.07.12	Nr Bus Stand Khare Clinic Kulopahad Mahoba
183282	Ankur Pati Tiwari Baccha Pati Tiwari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57353 28.08.12	L/2, 476 Vinitkhand Gomati Nagar Lucknow
183283	Ankur Sharma Rakesh K. Sharma	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	56896 17.04.12	300, Dakshini Bhopa Rd Nai Mandi Muzaffar Nagar
183284	Ankur Tyagi Omdutt Tyagi	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2007	56958 18.05.12	Moh AtradaTehsil Sadar Meerut

183285	Anmol Verma Shankar Lal Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57433 31.08.12	Athai Tola, Main Rd Sirsaganj Ferozabad
183286	Annapurna Kumari Aniruddh Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57202 06.08.12	Purani Chowk Gopalganj Thana, Gopalganj Bihar
183287	Anshu Patel Ashok Kumar Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56898 17.04.12	151, Dadra, Tehsil Madihan Mirzapur
183288	Anshul Chandak Rajiv K. Chandak	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57572 18.09.12	Moh Bajaria PO Sahaswan Badayun
183289	Anshul Vishwakarma Ashok K. Vishwakarma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57339 28.08.12	H No. 5/159, Moh Kheda Ajmat Khan P Ali Rd Shahabad Hardoi
183290	Anshuman Chouhan Balram S. Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57183 30.07.12	H No 704, Rajendra Nagar Karmer Rd, Urai Jalon
183291	Anshuman Mishra Suresh C. Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57286 21.08.12	VPO M Alipur Vill. Jalalpur Ambedkar Nagar
183292	Antar Prit Singh Balvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57519 11.09.12	Near Dr. Vohra Clinic Nainital Rd, Baheri Bareilly
183293	Antriksh Pal Girish Chandra Pal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	56989 31.05.12	Keshopur Bajebur Itawa
183294	Anu Mishra Shashikant Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57665 03.10.12	6 Duprapaur Unnao
183295	Anubandh Tripathi Ashok Kumar Tripathi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57853 23.01.13	84, Sahapur VPO Sahapur Sitapur
183296	Anubha Choudhry Digpal Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57304 23.08.12	H 331 Govindpuram H Block Gaziabad Gaziabad
183297	Anubha Pandey Sunil Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57739 08.11.12	H No. 178/99, Sanjay Gandhi Nagar Naubasta Kanpur
183298	Anubha Singh Anand Kumar Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57961 12.03.13	C 4/14, Sarai Govardhan, Chetganj Varanasi
183299	Anubha Yadav Mohit Deshwal	BAMS Delhi Univ., Delhi 2008	56948 17.05.12	27/80/2A, Ashok Nagar Loha Mandi Agra
183300	Anup Kumar Ashok Kumar Chourasia	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	57043 27.06.12	VPO Tajpur Dehma Gazipur

183301	Anup KumarPrajapati Rangila Prasad Prajapati	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56882 04.04.12	Vill.Tola Ahibaran Rai PO Bankul Deoria
183302	Anup Kumar Adhikari Ganesh C. Adhikari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57178 26.07.12	VPO Shivli Chouraha Raibareilly
183303	Anup Kumar Gupta Hari Vratt Gupta	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57129 13.07.12	VPO Khairgarh Ferozabad
183304	Anup Kumar Gupta Arun Kumar Gupta	BAMS MUHS, Nashik 2009	56988 31.05.12	133, Nim Tola Khaga Fatehpur
183305	Anup Kumar Mishra Umesh Chandra Mishra	BAMS BHU, Varanasi 2013	57966 12.03.13	Flat No. 67, Nagar Nigam Colony, Shivpur Varanasi
183306	Anup Kumar Singh Shiv B Ali Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57942 12.03.13	Oran Rd, Krishna NagarAttarra Banda
183307	Anupam Kumar Verma Amresh Rai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57844 21.01.12	Vill. Mohnapur PO Dhuswan Kalan Maharaj Ganj
183308	Anupam Trivedi Shivtirth Trivedi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57360 28.08.12	VPO Jahanganj Farrukhabad
183309	Anupama Sharma Rajkumar Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57320 27.08.12	131, Hari Enclave Chandpur Rd Bulandshahar
183310	Anupama Singh Ravishankar Singh	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57252 13.08.12	Vill. Bardeeha Dalpat PO Bardeeha Parshuram Deoria
183311	Anuradha Mishra Saroj Kumar Mishra	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 2011	57786 11.12.12	Vill. Kouria PO Navalpur Deoria
183312	Anuradha Mourya Bal Mukund Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57398 30.08.12	69 C/1, Tilak Nagar Allapur Allahabad
183313	Anurag Gupta Krishan Kumar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57269 16.08.12	Jalalabad Shahjahan Pur
183314	Anurag Mishra Anil Kumar Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57376 28.08.12	Nr Railway Rd Block Kayamanj Farrukhabad
183315	Anurag Saxena Ramasre Das Saxena	BAMS CSM Univ., Kanpur 2003	57445 03.09.12	330/5, Asharafi Bhavan GGIC Road Bareilly
183316	Anurag Singh Chandel Jagdish Singh Chandel	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57240 13.08.12	Vill.Alavalpur PO Khimsepur Farrukhabad

183317	Apurwa Kanth Shrinath	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57466 06.09.12	H No.81, Rly. Colony Dibiya Fafund Oreiya
183318	Archana Lalta Prasad	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57048 28.06.12	90, Itora Guru Ka Kalpi Jalon
183319	Archana Kumari Birendra Bahadur	BAMS Delhi Univ., Delhi 2012	57891 19.02.13	61K/3J, Pushpanj Ali NagarBhavapur Kareli Allahabad
183320	Archana Panwar Rajpal Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57674 05.10.12	Vill.KataiAmroha Jyotiba Phule Ngr
183321	Archana Saroj Jageshwar Prasad Saroj	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57343 28.08.12	560/24 Civil Line Unnao
183322	Archana Shivaji RavTonpe Vinay Shankar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57124 13.07.12	Mohalla Hata Buzurg Gagaha PO Shivpur Gorakhpur
183323	Archana Singh Vishen Yogendra Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57312 23.08.12	339/70, PTPP Colony Type II, Parichha Jhansi
183324	Archana Verma Manohar Lal Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57011 07.06.12	676, Shivaji Nagar Kanpur Rd Jhansi
183325	Arendra Singh Mahendra Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57695 08.10.12	Vill.Sikri Kalan PO Chilkana Saharanpur
183326	Arpan Dave Shashi Kant Dave	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57281 21.08.12	Siddhi SadanVill.Goraiyan Chandoli
183327	Arpit Swatantra M. Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57796 13.12.12	Moh Bhatnagar Kasba Islam Nagar Badayun
183328	Arpit Dwivedi Trimohan Dwivedi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57745 09.11.12	685, Sushil Nagar Rajkiya Cly, Urai Jalon
183329	Arpit Gupta Ashok Kumar Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	56982 30.05.12	34, Pipal Tola Kancha Parmeshwari Das
183330	Arun Kumar Kunji Lal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57939 12.03.13	VPO Kakri Sonbhadra
183331	Arun Kumar Janardan Tiwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57723 25.10.12	Muhalla Semra NO. 1PO Chargavan Gorakhpur
183332	Arun Kumar Fekuram	BAMS SS Univ., Varanasi 2010	56984 30.05.12	Vill.Sattarpur PO RedaTehsil Phulpur Azamgarh



183333	Arun Kumar Awasthi Ashok Kumar Awasthi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57691 08.10.12	Vill.Pratap Pur Luxmi PO Madroli Shahjahan Pur
183334	Arun Kumar Vishwas Anath Kumar Vishwas	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57793 12.12.12	Vill.Gulra PO Hempur Thana Sirsia Shrawasti
183335	Arun Pratap Singh Chouhan Satyendra S.Chouhan	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57548 13.09.12	H No.197, G Ali No.7Ashok Nagar Itawa
183336	Arun Upadhyay Vishesh Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57113 09.07.12	VPO Sanjarpur Badayun
183337	Arvind Kumar Shakya Sher Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57285 21.08.12	Moh No.8, Sahabganj Bypass Rd, Bilsa Badayun
183338	Arvind Kumar Upadhyaya Ramji Upadhyaya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57715 15.10.12	S7/40, K 3, R Benipur Sarnath Varanasi
183339	Arvind Kumar Kunj Bihari	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57065 28.06.12	H No.123, Gandhi Nagar Sidholi, Lucknow
183340	Arvind Kumar Gupta Brinda Gupta	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56963 21.05.12	VPO Gouri JagdishThana Sevrahi Kushi Nagar
183341	Arvind Kumar Jain Vimlesh Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57544 12.09.12	129-BKatra Tek Chandra Itawa
183342	Arvind Kumar Singh Virendra Kumar Singh	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2013	57983 18.03.13	Luxmi Vihar Mibhrolia Roza Gazipur
183343	Arvind Singh Narwaria Bhagirath S. Narwaria	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57893 21.02.13	Vill.Gursora Th JakhoraTehsil L Alitpur L Alitpur
183344	Asha Yadav HS Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57308 23.08.12	Jai Narayan Verma Rd Sorakathi, Fatehgarh Farrukhabad
183345	Ashish Gupta Indra Kumar Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57166 25.07.12	Moh Than Singh Pilibhit
183346	Ashish Kumar Mishra Udai Narain Mishra	BAMS Jiwaji Univ., Gw Alior 2010	57642 28.09.12	Mishra Tyres Pakka Bagh Itawa
183347	Ashish Kumar Mishra Ram Swaroop Mishra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56997 01.06.12	Nadipar Station Nai Basti Mauranipur Jhansi
183348	Ashish Kumar Mishra Krishan Kumar Mishra	BAMS North Orissa Univ., Baripada 2009	56906 19.04.12	Vill.Tilnapur Ghazipur Rd PO Sarnath Varanasi

183349	Ashish Kumar Mishra Vashishtha Mishra	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57024 14.06.12	H No.A-126 Avas Vikas Colony Mahua Bagh
183350	Ashish Kumar Mishra Chhavinath Mishra	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	56968 23.05.12	234, Narottam Nagar Sidholi Sitapur
183351	Ashish Kumar Singh Vishwa Nath Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57490 10.09.12	C 1051/7, Indra Nagar Lucknow
183352	Ashish Kumar Sony Om Prakash Sony	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57118 10.07.12	48, Mauthana L Alitpur
183353	Ashish Kumar Verma Bindra Prasad Verma	BAMS BHU, Varanasi 2013	57967 12.03.13	532 A/4KH/3 Choudhri Tola Aliganj Lucknow
183354	Ashish M Alik Vijendra Singh M Alik	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57176 26.07.12	VPO Baseda (Ranika) Muzaffar Nagar
183355	Ashish Pratap Singh Chandra Vir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56913 23.04.12	VPO Nagla Ram Sunder Jaswant Nagar Itawa
183356	Ashish Shukla Ashwani Kumar Shukla	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57920 05.03.13	B 768, MIG Avas Vikas Hansapuram, Naubasta Kanpur
183357	Ashish Tiwari Brij Mohan Tiwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57872 04.02.13	VPO Sairamau Dakshini Shahjahan Pur
183358	Ashok Kumar Rajendra Ram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57233 13.08.12	Vill. Sarfuddinpur PO Khoripakar B Alia
183359	Ashok Kumar Kushwaha Banshi Prasad	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57137 16.07.12	Vill. Tarya BaikunthTamkuhi Raj Kushi Nagar
183360	Ashok Kumar Santosh Kumar	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2012	57805 19.12.12	Vill. Ajroi PO Kanya Gurukul Hathras
183361	Ashok Kumar Rai Khitish Chandra Rai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2012	57832 09.01.13	VPO Jakhlon L Alitpur
183362	Ashok Kumar Singh Kanhaiya Lal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	57640 28.09.12	Vill. J Alilpur PO Kushth Sewa Ashram Padav Chandoli
183363	Ashu Bansal Lakhi Chandra Bansal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57579 18.09.12	C10/1, Yamuna Vihar Delhi
183364	Ashutosh Dhar Dubey Suresh Prasad Dubey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57373 28.08.12	Vill. Horilapur PO Gori Badai Purwa Siswa Bazar Maharaj Ganj

183365	Ashutosh KumarMishra Ram Lakhan Mishra	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57337 27.08.12	195/1, Pitambar NagarTeliarganj Allahabad
183366	Ashutosh Kumar Gupta Avdhesh Kumar Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57148 18.07.12	Muh Siddheshwari NagarPO Tetri Bazar Siddharth Nagar
183367	Ashutosh Kumar Patel Ram Awdhesh Patel	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57542 12.09.12	Patel Medical StoreHospital Road Siswa Bazar Maharaj Ganj
183368	Ashutosh Kumar Rai Ganga Prasad Rai	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	56929 02.05.12	Vill.Mouna PO DurwashaThana Phulpur Azamgarh
183369	Ashutosh Kumar Rai Daya Shankar Rai	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57774 03.12.12	VPO GouraThana Rampur Karkhana Deoria
183370	Ashutosh Mishra Gulab Chandra Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57227 13.08.12	Vill.ParwaPO Madra Mukundpur Allahabad
183371	Ashutosh Pandey Roop Narayan Pandey	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	56890 13.04.12	VPO Sukhi BajgarhJamo Sultanpur
183372	Ashutosh Shukla Virija Prasad Shukla	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57041 22.06.12	H No.732/1, GayatriKunj Civil Line 1 Sultanpur
183373	Ashutosh Vishwakarma OP Vishwakarma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2012	57829 07.01.13	VPO Chobey Pur Kanpur
183374	Ashwani Kumar Subhash Chand	BAMS MD Univ.,Rohtak 2009	56995 01.06.12	Moh Afganankasba Nakud Saharanpur
183375	Ashwani Kumar Kailash Chandra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57208 06.08.12	VPO Sakipur Greater Noida Gaziabad
183376	Ashwani Kumari Ajit Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2010	57684 08.10.12	Vill.RedimalakpurPO Saharanpur
183377	Ashwani Singh Vijay Pratap Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57474 06.09.12	Tarapur Colony Jounpur
183378	Ashwini KumarPandey Harihar P. Pandey	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57222 09.08.12	95 121 A/1, New ColonySohabatia Bagh Allahabad
183379	Ashwini Kumar Singh Subhash Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57396 30.08.12	Vill.BhikharipurPO DLW Varanasi
183380	Atahar HussainAnsari Intzar Ali	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56886 11.04.12	Sultan Azampur BaniGanesh PO Harganpur Nagina Bijnor

183381	Atiur Rehman Siddiqui Faizur Rehman Siddiqui	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57002 05.06.12	VPO Dhaneva Dhanei Maharaj Ganj
183382	Atul Aggarwal Govardhan Aggarwal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57962 12.03.13	Ganesh Kirana StoreNasirabad Rd,Jayas Raibareilly
183383	Atul Choudhry Shiv Sewak Choudhry	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57345 28.08.12	Vill.Jalon KhurdPO Shekhpur Ahir Jalon
183384	Atul Upadhyaya Rajendra N.Upadhyaya	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	57655 01.10.12	57, Luxmi NiwasNew Chogarzi Itawa
183385	Avinash Choudhry KS Choudhry	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57869 01.02.13	Flat No.12315, Sec 29GB Nagar Noida
183386	Avinash Kumar Tiwari Ramesh Kumar Tiwari	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	56897 17.04.12	VPO Kurebhar Sultanpur
183387	Avinash Kumar Yadav Paras Nath Yadav	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57661 03.10.12	Shiv Medical StoresStation Rd, Bhadohi
183388	Avinash Tiwari Shashi Kant Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2012	57816 26.12.12	4, T Aliyapura L Alitpur
183389	Avlok Kumar Singh Raj Bahadur Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57770 03.12.12	Vill.Mujha KalanPO Puranpur Pilibhit
183390	Avnindra Awasthi Sanjay Awasthi	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57901 25.02.13	319 B, H Amirpur RdNaubasta Kanpur
183391	Avnish Kumar Kishaun Singh	BAMS BHU, Varanasi 2011	57500 10.09.12	Vill.Dohri PO ShivpurTehsil Chunar Mirzapur
183392	Avnish Kumar Rajeshwar Prasad	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57882 14.02.13	Vill.Sandaha MajgawanPO Majgavan Alapur Ambedkar Nagar
183393	Avnish Kumar Rai Ramesh Rai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	56973 24.05.12	Vill.ArayaPO Nasiruddinpur Azamgarh
183394	Avnish Kumar Singh Jhullur Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	56932 02.05.12	Rainagar PO & ThanaKadipur Sultanpur
183395	Avnish Pandey Kanhaiya Lal Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57335 27.08.12	Bhushan Bhavan TandanpuriCly Bathua Mirzapur
183396	Avnish Shukla Jagdev Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57513 11.09.12	8/4/176, Shil BhavanJharkhandi, Dhaniram ka Purwa Faizabad

183397	Azim Kumar B Alik Ram Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57471 05.09.12	VPO Vaina Aligarh
183398	Baldev Singh Suresh Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57014 07.06.12	YaktadhporaGonda Aligarh
183399	Balvir Singh Ram Suman	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57369 28.08.12	H No.C 667, Shrinagar Civil Lines Deva Road Barabanki
183400	Balvir Singh Rajput Shankar Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57593 20.09.12	Vill.Nagla Teja PORithori Katra Khera Garh Agra
183401	Banwari LalVishwakarma Krishan K. Vishwakarma	BAMS BHU, Varanasi 2011	57038 22.06.12	VPO Badhya Buzurg Sadhu Tola Deoria
183402	Bhanu PrakashSingh Jai Prakash N. Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57298 22.08.12	Vindhya Vasini Colony Bharuhana Road Mirzapur
183403	Bhanu Pratap Katiyar Mahendra K. Katiyar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57787 11.12.12	2-B-C/40, AvasVikas Farrukhabad
183404	Bharat Bhushan Prahlad Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57417 31.08.12	G 493Govindpuram Gaziabad
183405	Bharat Lal Yadav Birbal Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56876 02.04.12	Vill.Chakarbiyan PO Madiyahun Jounpur
183406	Bhupendra Kumar Choudhry Vinod Kumar Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	56965 22.05.12	112B/18K, Imam Nagar Phulwaria Rd,Daraganj Allahabad
183407	Bhupendra Singh Pradip Kumar Singh	BAMS Vikram Univ.,Ujjain 2012	57978 15.03.13	H No.220, 14/4, VikasNagarNeemach Cantt Madhya Pradesh
183408	Bhupesh Kumar Yadav Ram Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57327 27.08.12	Vill.Unchani Khurd PO Ramdayal Ganj Jounpur
183409	Biresk Kumar Asharam	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57686 08.10.12	Vill.BhojpurPO Janjalpur Bijnor
183410	Bislesh Kumar Rajput Ramlal	BAMS SS Univ.,Varanasi 2011	57066 28.06.12	Qila Mohammadi NagarPO Bhadrukh Thana Ashiana Lucknow
183411	Brijendra Pal Singh Santram Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56892 16.04.12	500/3, Datia GateBahar Pathoria Jhansi
183412	Brijendra Upadhyaya Kaushal K. Upadhyaya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	57746 09.11.12	H No.617, Siya HouseNai Basti, Gandhi Nagar L Alitpur

183413	Brijmohan Rajput Hariram Rajput	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57257 14.08.12	Vill.Riwaria PO VirguanThana Badagaon Jhansi
183414	Chanchal Agnihotri Mahesh C. Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2007	57702 11.10.12	32, Suresh SharmaNagar Nawada, Jogyan Bareilly
183415	Chandra Chud Mishra Vinod Kumar Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57229 13.08.12	Vill.Avradah PO KoyalsaThana Atrolia Azamgarh
183416	Chandra HasMishra Lal Mani Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57833 09.01.13	H No.4, G Ali No.5Dhukna Morh, Gaziabad
183417	Chandra Singh E. Pravin Kumar Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57453 04.09.12	NeripachwanAdalhat Mirzapur
183418	Charu Gaba Tarun Gaba	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 2002	57679 05.10.12	HNo1083Sec 69 Moh Ali Punjab
183419	Charu Yadav Rishi Prakash Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57356 28.08.12	Vill.N.Garh PO NanamauKuraw Ali Mainpuri
183420	Chetan Sharma Vinod Kumar Sharma	BAMS MD Univ.,Rohtak 2007	57250 13.08.12	G11A, Sec 9Vijay Nagar Gaziabad
183421	Chetna Brij Bhushan Gour	BAMS MD Univ.,Rohtak 2011	57998 22.03.12	H No.529/2,Moh KalyanSingh, Mawana Meerut
183422	Chetna Choudhry Sachin Choudhry	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57809 20.12.12	H No.188, Kotla ATehsil Chandpur Bijnor
183423	Chhavi Yadav Ashutosh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57504 10.09.12	B 38/62Mehmoor Ganj Varanasi
183424	Chhaya Yogendra Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57569 18.09.12	Vill.MubarakpurMansoorpur Muzaffar Nagar
183425	Choudhry SandipSingh Dalvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57613 25.09.12	Vill.Diwana KalanPO Siria ki Nagaria Mathura
183426	Dayawati Prem Bihari Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56946 11.05.12	566, Vill.Pora, PO BoriMahamaya Nagar Hathras
183427	Deepak Choudhry Rajpal Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57114 09.07.12	Vill.Ilhapur Patt JatPO Tada Afzal Muradabad
183428	Desh Dipak Gour Deen Dayal Sharma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57501 10.09.12	Nr Chief Post OfficeCivil Lines, South Pilibhit

183429	Dev Dutt Mishra Vasudev Mishra	BAMS Univ. of Bihar, Muzaffarpur 1989	57042 27.06.12	Vill. Sehjor PO Mugalsarai Chandoli
183430	Devendra Sukhvir Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57380 22.08.12	E-1/173, Uttaranchal Cly Loni Gaziabad
183431	Devendra Kumar Ram Prakash Jatav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57336 27.08.12	Vill.Chholapur PO Jalon Jalon
183432	Devendra KumarYadav Dinanath Yadav	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57199 03.08.12	VPO Anjirpur B Alia
183433	Devendra Singh Jaswant Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57000 05.06.12	VPO Piplinayak Tanda Badli Rampur
183434	Devesh Shukla Rajesh Kumar Shukla	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	57646 14.02.13	H No. 208,Uncha Thok Hardoi
183435	Devraj Patel Kishore Kumar	BAMS BHU, Varanasi 2013	57949 12.03.13	H No 438/2, Bichhdi Alinagar Mugalchak, Mugalsarai Chandoli
183436	Dhananjay KumarBari Ramayan Prasad Bari	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57159 23.07.12	Vill.Koindi, Bariapur POTamkuhi Raj Kushi Nagar
183437	Dharmendra NarayanSingh Sant Bahadur Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57274 16.08.12	176, Changeri A POChangeri Thana Umri Begumganj Gonda
183438	Dharmendra Chetram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57926 07.03.13	PO Baloni Bagpat
183439	Dharmendra Kumar Rajendra Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57656 01.10.12	Vill.Haizrabad Tehsil Nagina Bijnor
183440	Dharmendra Kumar Verma Chunni Lal Verma	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57074 29.06.12	Town Area Jangipur PO Jangipur Gazipur
183441	Dharmendra Saroj Phool Chandra Ram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57438 03.09.12	Vill.Basti PO Rani ki Sarai Azamgarh
183442	Dhirendra Kumar Mishra Rajendra Prasad Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57688 08.10.12	Mishra Medical Store Kondhiari Zari Bazar Allahabad
183443	Dhirendra Kumar Dwivedi Hari Mohan Dwivedi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57782 07.12.12	VPO Jaitpur Tehsil Kulpahad Mahoba
183444	Dhirendra Singh Rajendra B. Singh	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57059 28.06.12	H. No. 837, Rajendra Nagar Urai Jalon

183445	Dhruv Shankar Yadav Shyamlal Yadav	BAMS BHU, Varanasi 2011	57121 13.07.12	Vill. Phulwari Khurd PO Holypur Saidpur Gazipur
183446	Digvijay Singh Pushpendra P. Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57778 04.12.12	Vill. Pathakarka PO Bangra, Tehsil Mauranipur Jhansi
183447	Diksha Tiwari Raj Narayan Tiwari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57857 28.01.13	H No.106, Mirakhpur Kasba Bindki Fatehpur
183448	Dilip Kumar Yadav Ram Raj Yadav	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2013	57988 18.03.13	63/1K/6C, Shiv Kuti PO Teliyar Ganj Allahabad
183449	Dilnawab Ahmad Shah Abdul Wahab	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57755 21.11.12	H No. 536/2/64, New Medra Ganj Khadra Lucknow
183450	Dilshad Ali Abad Ali	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57865 30.01.13	Vill. Rampur Kurmipan PO Tala Bazar Pratapgarh
183451	Dinesh Kumar Satya Narayan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57348 28.08.12	Vill. Sadullapur PO Dodi Jounpur
183452	Dinesh KumarBhardwaj Jagdish Prasad	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1980	57557 14.09.12	Naya Shivaji Road Nagar Nigam Meerut Meerut
183453	Dinesh Kumar Yadav Suryabhan Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57084 02.07.12	538K/180, Behind Central Bank Triveni Nagar 2, Lucknow
183454	Dinesh Ram Ramphal Ram	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57830 07.01.13	B 1/13, Assi P/S Lanka Varanasi
183455	Dipak Chouhan Ram Poojan Chouhan	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	57610 24.09.12	Vill.Surahi Buzurg PO Saraimeer Azamgarh
183456	Dipak Kumar Prem Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57405 31.08.12	VPO MathiaShriram Via Tarya Sujan Kushi Nagar
183457	Dipak Kumar Kushwaha Satya N. Kushwaha	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57531 12.09.12	Vill.Mathia BhokariaThana Sevrahi & Dharampur Parvat Kushi Nagar
183458	Dipak Kumar Singh Tribhuvan Nath Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57523 11.09.12	Vill.BarendaThana Mardah Mau
183459	Dipanji Ali Gupta Shiv Murti Gupta	BAMS SS Univ.,Varanasi 2011	57076 29.06.12	Madya Achkavapur Near Adarsh Vidya Mandir Sant Kabir Nagar
183460	Dipankar Mandal Bhartosh Mandal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57193 31.07.12	Vill. Chandia Hajara Beng Ali Cly, Puranpur Pilibhit



183461	Dipika Sharma Yogesh Kumar Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57643 28.09.12	VPO Nimka Zevar Gautam Buddh Ngr
183462	Dipti Kaushal Rajesh Kumar Arya	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57505 10.09.12	Bartan VikretaChowk Bazar Shoharat Garh Siddharth Nagar
183463	Dipti Singh Ramkumar Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57958 12.03.13	Khushal Nagar Sec APlot No.817, PO Lamhi Varanasi
183464	Dipti Sinha Ajay Kumar Viswas	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57142 17.07.12	Moh Gyaspur Thana RdBisalpur Pilibhit
183465	Divya Singh Amit Kishore	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57634 27.09.12	PNo.221, Saket Nagar ClySankat Mochan Varanasi
183466	Divya Verma Amit Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57925 07.03.13	H No1922, Banjaran 2Nakud Saharanpur
183467	Divya Verma Baburam Verma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57110 09.07.12	Vill.Malethu, Imampur PO Chanaipur, Akbarpur Ambedkar Nagar
183468	Divyabh Om Prakash	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57870 01.02.13	S 5/176,P3,ChitraguptNagar Ramrepur Pahadia Varanasi
183469	Drishti Jaiswar Sant Lal Jaiswar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57328 27.08.12	2C/59, Sourashtra SadanMIG Sec2 Vrindavan Cly Lucknow
183470	Durga Prasad Singh Shiv Kumar Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57101 05.07.12	H No.180Vill. Irni Thana Bardah Azamgarh
183471	Durgesh Kumar Mishra Mahesh Prasad Mishra	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57174 26.07.12	Near Rly.CrossingTola Banki Barabanki
183472	Durgesh Nandini Soran Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57831 08.01.13	64 K, Moh DhanpalKashiram Nagar Ferozabad
183473	Durgesh Singh Ranjit Singh	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	57647 01.10.12	VPO Mehnagar Azamgarh
183474	Esrar Ahmad Hakim Shai	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2010	57601 21.09.12	Vill.Rampur Litiha PO Bhatpar Rani, W No.2 Deoria
183475	Gagan Dip Singh Dilip Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57262 16.08.12	Vill.Salavat Nagar PO Melani Lakhimpur Khiri
183476	Gajendra Singh Khamani Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57175 26.07.12	B-7/59 Sector 5, Rohini Delhi

183477	Garima Gautam Sudhir Gautam	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2008	57201 03.08.12	S 5/40, S 5 Snjay NagarPahadia Pandeypur Varanasi
183478	Garima Nirvan Ranpal Singh	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57596 21.09.12	903, Moh Kabli GateMawana Kalan Meerut
183479	Gaurav Choudhry Mehtar Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57581 19.09.12	HNo.E 252, G Ali No.6Prem Nagar Line Par Muradabad
183480	Gaurav Dixit Rammurti Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57368 28.08.12	VPO Sighnapur Sitapur
183481	Gaurav Garg Rakesh Garg	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2012	57863 30.01.12	Gandhi Road Bagpat
183482	Gaurav Goyal Ashok Kumar Goyal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56900 17.04.12	Mohalla PansarianJalesar Etah
183483	Gaurav Gupta Anil Kumar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57361 28.08.12	417,Gupta MediStoreKakrtala Navalpura Khurza Bulandshahar
183484	Gaurav Jain Yogesh Chandra Jain	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57091 04.07.12	Chhota BazarBhogaon Mainpuri
183485	Gaurav KumarSharma Rajesh Kumar Sharma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57498 10.09.12	VPO Kamal NainpurCott Shahjahan Pur
183486	Gaurav Kumar Katyayan Ramlakhan Agnihotri	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2005	57810 31.12.12	Hardoi RoadSayawajpur Hardoi
183487	Gaurav Sharma Rajnath Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2009	56911 20.04.12	199,Vill. JhanjholiMehmoodpur, PO Saharanpur
183488	Gaurav Sharma Beng Ali Babu Sharma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57615 25.09.12	G 3, Nr Bandari Byepass Chouraha Agra
183489	Gaurav Sharma Pradip Kumar Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57251 13.08.12	VastiGajrola Jyotiba Phule Ngr
183490	Gaurav SinghSisodia Radhey S.Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56953 17.05.12	Q.No.A 5BHEL Cly Jhansi
183491	Gaurav Singh Yadav Suraj Singh Yadav	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57475 06.09.12	Vill.Hardua PO Jakholi Jalon
183492	Gaurav Tripathi Ashok Kumar Tripathi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57297 22.08.12	Kumar Medical StoreKhutar Shahjahan Pur

183493	Gaurav Vaishya Mahesh Prasad Gupta	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57709 12.10.12	H No.187Mohalla Mishrana Lakhimpur Khiri
183494	Ghanshyam Mishra Jaidev Mishra	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	57725 26.10.12	Vill.Sihora PO Benigoura Azamgarh
183495	Girish Chandra Pal Amrit Lal Pal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57408 31.08.12	VPO Pipalgaon Allahabad
183496	Girish Kumar Mishra Girja Shankar Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56979 29.05.12	Vill.Panditpur Harinahpur PO Raniganj Pratapgarh
183497	Gita Singh Nishan Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57651 01.10.12	H No.6, Jawahar NagarGajrola, Amroha Jyotiba Phule Ngr
183498	Gitima Shukla Ganesh Prasad Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57585 19.09.12	VPO Barw Alia Lucknow
183499	Gopal Ji Mishra Ramsewak Mishra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57087 03.07.12	H No.523 1D-4K TelwariaChokaghat Th.Jaitpura Varanasi
183500	Gopal Singh Bhadoria Jhabbu S. Bhadoria	Ayurved Bhishak A.I.Ay.Vidyapeeth Delhi 1969	57866 30.01.13	675A, Thana VidhnuKunj Vihar, Kanpur
183501	Gour Dutt Mishra Govind Mishra	BAMS BHU, Varanasi 2013	57964 12.03.13	VPO BariganjTakhwa Bazar Thana Sikriganj Gorakhpur
183502	Gourav Arya Anand Swaroop	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57877 07.02.13	Moh Indraprastha ClyShahbad Rd, Nr Chakki BodhrajRampur
183503	Govind Rai Shambhu Nath Rai	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2009	57735 05.11.12	VPO Gopalpur AnumandalGopalganj, Gopalganj Vihar Lucknow
183504	Gulab Chandra Triloki Gupta	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57062 28.06.12	VPO Sarawan Sultanpur
183505	Gunjan Aggarwal Navin Aggarwal	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57200 03.08.12	Moh Mahal KumedanNr Nag Mandir Rampur
183506	Gyan Prakash Sony Panna Lal Sony	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57636 27.09.12	B3/17, World Bank ColonyNaini Allahabad
183507	Gyan Shankar Jiya Ram	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57056 28.06.12	VPO Virbhan PurRajatalab Varanasi
183508	Hafiz Ahmad Zahir Ahmad	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57854 28.01.13	50, Sarai Thok PurviBhag 5 Moh Mominabad Hardoi

183509	Hanumant Lal Mishra Siddhnath Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57555 13.09.12	Vill.Gehrola PO Utrola Balrampur
183510	Hanumant Sharan Singh Shobha Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57145 17.07.12	Vill.Katar PO ChetiaMurar Thana Girrola Shrawasti
183511	Hari Krishan Dubey Lajja Ram Dubey	GAMS State Fac.of Ay.& UnaniMed., Patna 1998	57738 07.11.12	Araji No.1700, Nr SukhdevPrasad Prem Nagar Kanpur
183512	Hari Mohan Shiv Prasad	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2012	57910 01.03.13	Mohalla TiharThana Vivar H Amirpur
183513	Hari Shankar Yadav Panchu Ram Yadav	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2013	57991 18.03.13	Ganeshipura Wamania TaraDumduma, Handia Allahabad
183514	Harinivas Ramprasad Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56884 10.04.12	VPO DehgavanSahaswan Badayun
183515	Harish ChandraPandey Hira Prasad Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57131 13.07.12	Vill.Kotia Pandey PO Kudja Siddharth Nagar
183516	Harish KumarSharma Manik Chandra Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57600 21.09.12	Ramlila MaidanVPO Shergarh Mathura
183517	Harish Kumar Rajendra Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57079 29.06.12	VPO Chandak Bijnor
183518	Harsh Kamal Kishor	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57687 08.10.12	H No.2/1406/90ENavin Nagar Saharanpur
183519	Harsh Prakash Om Prakash	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57550 13.09.12	C/o Digital Electronic PO Markinganj Mirzapur
183520	Hassan Ashraf Ehtesham Siddiqui	BAMS North Orissa Unv., Baripada 2011	57077 29.06.12	C 19/1 GC-3-1Lallapura Varanasi
183521	Hassan Nawaz Shamshir Hassan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57552 13.09.12	Mohalla Usmanpur PO Jalalpur Ambedkar Nagar
183522	Himani Verma Prem Prakash Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57310 23.08.12	B 115, Ganga DhamGanga Ngr Mawana Rd Meerut
183523	Himanshu RajChouhan Hariraj Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57776 04.12.12	Hukmatpur Rd MohShahid Nagar Noorpur Bijnor
183524	Himanshu Saxena Rajiv Saxena	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57720 19.10.12	Johri Clinic, Near BlockBilsanda Pilibhit

183525	Hitendra Purohit Jugal Kishore Purohit	BAMS Devi Ahilya Unv., Indore 2009	57744 09.11.12	Govind GanjPatthapura Datia L Alitpur
183526	Honey Bhardwaj Jitendra K. Bhardwaj	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57856 28.01.12	MIG 50, Bada ADAcly Vikas Ngr Aligarh
183527	Iltefat Ahmad Khan Imtiyaz Khan	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57188 30.07.12	107, Kaziyana Fatehpur
183528	Indra Jit Verma Sati Ram Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57265 16.08.12	Vill.Saddipur PO Mubarakpur Tanda Ambedkar Nagar
183529	Indra Mohan Singh Brij Mohan	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2010	56878 04.04.12	H No.59Dhokaran Tola Itawa
183530	Indresh Kumar Balram Agnihotri	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57757 22.11.12	Vill.Dahliya PO Gandhi Farrukhabad
183531	Indu Bhardwaj Gyan Prakash Bhardwaj	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57267 16.08.12	Mohalla Purvi Lakhpeda PO Mohammidi Lakhimpur Khiri
183532	Indu Kumari Jagdish Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56945 11.05.12	H No.12, Vill.AjnothThana Nohjheel Mathura
183533	Indu Shekhar Sinha Nemish Kumar Sinha	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57543 12.09.12	Nemish SadanBahadur Nagar Lakhimpur Khiri
183534	Indu Tripathi Ram Naresh Tripathi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57275 16.08.12	117/N/99Nagar, Kakadev Kanpur
183535	Irshad Ahmad Siddiqui Gulam Waris Siddiqui	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57806 20.12.12	Vill.Asadha PO Baishkoti Koshambi
183536	Ishtiyaq Ahmad Adalat Hussain	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57237 13.08.12	Vill. PO kharbhinda PO Jora Bazar Kushi Nagar
183537	Ismat Rehana Mohd.Abid Ehsan	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57151 19.07.12	200, Vill. Moh Avas VikasGorakhpur Sadar Lucknow
183538	Jai Krishan Pandey Ratish Chandra Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2005	56923 01.05.12	Vill.Dhelgadhwa PO Belva Badhyanala Basti
183539	Jai Prakash Sudhiraj	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57224 13.08.12	Meghpur PurewamJalalpur Jounpur
183540	Jai Prakash Verma Tirath Raj Verma	BAMS MUHS, Nashik 2010	57518 11.09.12	10 K, Moh MajhgavaVill. Anapur Jounpur

183541	Jai Prakash Yadav Satya Narayan Yadav	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57220 09.08.12	Vill.Chaklutti PO Dashrathpur Sant Ravidas Nagar
183542	Jai Vardhan Krishna Nand Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57657 01.10.12	Vill.Sikia PO Narayanpur Mirzapur
183543	Jaibir Singh Attar Singh	BAMS MD Univ.,Rohtak 2001	57648 01.10.12	T 3/23,Shahibabad Doulatpur Delhi
183544	Janmajya Shakya Mahendra Shakya	BAMS Delhi Univ.,Delhi 2011	57826 01.01.13	216/22B, Vill.Ritor PO Vitholi Etah
183545	Jasvir Singh Solanki Devendra Singh Solanki	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57279 21.08.12	VPO Kagarol, BadaThok Agra
183546	Jaya Singh Jai Chandra Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57578 18.09.12	Hanuman ColonySufipura Behraich
183547	Jayanti Arya Dilip Kumar	BAMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	57994 21.03.13	Rajendra NagarUrai Jalon
183548	Jitendra Gupta Yogendra Nath Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57189 30.07.12	Krishna Nagar BahuaThana Laloulli Fatehpur
183549	Jitendra Kumar Rajbir Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57517 11.09.12	218, Behind Old GudMandi Murad NagarGaziabad
183550	Jitendra Kumar Naresh Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57340 28.08.12	HNo80,Avas Vikas ClyNr Shiv Mandir Shahjahan Pur
183551	Jitendra KumarNiranjan Jagdish Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57259 16.08.12	VPO BirguwanBuzurg Vairagarh Eta Jalon
183552	Jitendra KumarChobey Dev Prasanna Choubey	BAMS BHU, Varanasi 2007	57580 19.09.12	Vill.Harihar Rihra PO Kochas, Rohtas
183553	Jitendra KumarShrivastava Hari S.P. Shrivastava	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57916 05.03.13	Paschim DahiyanChhapra Bihar
183554	Jitendra Kumar Kamla Prasad Mourya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56990 31.05.12	VPO Pekoli BazarThana Jetpur Siddharth Nagar
183555	Jitendra Kumar Ram Kewal Dwivedi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57437 03.09.12	Vill.Madanpur Paniar PO Shahpur Harivansh LambhuaSultanpur
183556	Jitendra Kumar Baburam	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57271 16.08.12	103, AmbikapuramAnand Nagar Sitapur

183557	Jitendra Kumar Verma Jagdish Prasad Verma	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57016 07.06.12	Vill.Opp. Rajapur MandiGate PO Lakhimpur Khiri
183558	Jitendra Kumar Nirmal Nand Kishore	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57248 13.08.12	Saket NagarLalganj Raibareilly
183559	Jitendra Shukla Gulabdhar Shukla	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57538 12.09.12	Vill.Basahara PO Sotipur Jounpur
183560	Jyoti Vinod Kumar	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57928 11.03.13	Vill.Gangadhadi PO Khatouli Muzaffar Nagar
183561	Jyoti Ashish Kumar Sharma	BAMS MD Univ.,Rohtak 2009	57097 04.07.12	112 A, Moh Chokg AliShikarpur Bulandshahar
183562	Jyoti Mourya Mahendra K. Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57708 12.10.12	H No.47, Fatehnurpur,Thana Hansvar Ambedkar Nagar
183563	Kailash PrasadYadav Ram Nawal Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57102 05.07.12	VPO BaramadpurZariyari Ambedkar Nagar
183564	Kakuli Roy Tarak Nath Roy	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57898 22.02.13	B-4/11, Rail ViharIndrapuram Gaziabad
183565	Kalpana Shishodia Suvir Singh Shishodia	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune(Deemed Univ.) 2013	57927 11.03.13	390 K, MulhedaSardhana Meerut
183566	Kamal Chand Gupta Tulsi Ram Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57135 16.07.12	VPO Sahson Allahabad
183567	Kamal Kishore Singh Jagannath Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56881 04.04.12	Vill.MishroliKurmi Tola PO Bankul Deoria
183568	Kamal Kumar Sarkar Shankar Kumar Sarkar	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57090 03.07.12	HNo20, Nagla KaraSingh Kotla Rd Ferozabad
183569	Kamaldip Jaiswal Rajendra P. Jaiswal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57344 28.08.12	65A, Aga ColonyCivil Lines Sitapur
183570	Kamlendra Singh Ram Singh Shakya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56957 18.05.12	Moh Indra NagarHospital Rd, Chhibramau Kannoj
183571	Kamlesh KumarYadav Viggu Singh Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57719 18.10.12	Vill.Sujabad, PO KushthPadav Thana Ramnagar Varanasi
183572	Kanchan Aggarwal Mathura P. Aggarwal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57512 11.09.12	H No.449-A, NarayanpuriDholi Pyau Mathura

183573	Keshari Nandan Shukal Shridutt Shukal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	57256 14.08.12	Vill.Shukalpura PO Mahui Thana Sikriganj Gorakhpur
183574	Khushboo Nuruddin	BAMS Delhi Univ., Delhi 2012	57899 25.02.13	Mohalla Gopal Ganj Kasba Mauranipur Jhansi
183575	Kiran Gupta Prakash N. Gupta	BAMS MUHS, Nashik 2012	57851 23.01.13	159, Civil Line L Alitpur
183576	Kiran Singh Samar Bahadur Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57399 30.08.12	Kiran PO Iy Chikitsalaya Sarokhanpur Badlapur Jounpur
183577	Kirtidev Gautam Ramtirth Gautam	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57332 27.08.12	Vill. Dhania Bhati PO Parasrampur Basti
183578	Kirtika Jaiswal Jagdish Prasad Jaiswal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57957 12.03.13	181/490A, Kachi Sadak Phulwaria Rd Allahabad
183579	Komal Choudhry Hitendra Kumar	BAMS MD Univ., Rohtak 2010	57192 31.07.12	H No.28, Phase 2 Mayur Vihar E Block Shastri Nagar Meerut
183580	Koshlendra Singh Keshav Dayal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57226 13.08.12	Vill. Kinderpura PO Holipura Thok Bah Agra
183581	Koshlesh Pandey Krishan Dev Pandey	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57207 06.08.12	H No.153, Umang Part II, Mahanagar Bareilly
183582	Krishan Dev Jindal BS Jindal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57742 09.11.12	Jindal House, Mandi Dhanora Amroha Jyotiba Phule Ngr
183583	Krishan Gopal Rudra Pratap	BAMS BHU, Varanasi 2013	57970 12.03.13	Vill. Niyamatpur Kalan PO Purushottam Pur Mirzapur
183584	Krishan Kumar Jagdish Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57280 21.08.12	Vill. Bhupatipur PO Jagir Mainpuri
183585	Krishan Kumar Chouhan Sankatha S. Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57395 30.08.12	Vill. Bevtia PO Raipur Gazipur
183586	Krishan Kumar Gupta Suresh Prasad Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57439 03.09.12	Vill. Nandpur PO Haldi B Alia
183587	Krishan Pal Nagar Sitaram Nagar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57172 26.07.12	VPO Dhurat Tejpura Mauranipur Jhansi
183588	Kriti Dwivedi Hareram Dwivedi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57071 28.06.12	11/98, Vikas Nagar Lucknow



183589	Kuldip Kumar Bhaskar Maniram Bhaskar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57347 28.08.12	Vill.Gora PO ChairaiyaMajith Jalon
183590	Kuldip Pandey Jagmohan Prasad Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2005	57123 13.07.12	57, MIG IndiraNagar Banda
183591	Kumar Abhishek Sheshdhar Pndey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57731 01.11.12	Muh Subhash Nagar PO Purani Naugarh Bazar Siddharth Nagar
183592	Kumud Pratap Singh M Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57726 30.10.12	79, New MIGBarra 2 Kanpur
183593	Kumud Upadhyaya Sushant Upadhyaya	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57317 24.08.12	VPO BhimaparNaugarh Siddharth Nagar
183594	Kunal Sahu Ramji Sahu	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57235 13.08.12	H No.389-G, HarkoliKafloni Civil Lines Sitapur
183595	Kunwar KoushalSingh Shiv Saran Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	56969 23.05.12	K 225A, KK Puri ColonyAvas Vikas Jhansi
183596	Kusum Mourya Shyam Sunder Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57751 20.11.12	502 B/1, PrayagpuraChakdondi Naini Allahabad
183597	L Alit Kumar Krishan Pal Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57216 08.08.12	VPO Kachholi, BlockCharthaval Sadar Muzaffar Nagar
183598	L Alit Kumar Ghanshyam Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57903 26.02.13	VPO Manpur ShivpuriTehsil Dhampur Bijnor
183599	L Alit Kumar RC Thakur	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57979 15.03.13	IbrahimpurNilmatha Bazar Lucknow
183600	L Alit Mohan Sharma Naresh Kumar Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57210 07.08.12	Vill.Bilaspur PO DudhlaNaku Kasba Gangoh Saharanpur
183601	L Alita Mishra Nirmal Kumar Ojha	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2005	57918 05.03.13	Purani PO lice Line ke UttarSalempur, Chhapra Saran Bihar
183602	Lata Mishra L Alit Mohan Mishra	BAMS MUHS, Nashik 2005	57020 07.06.12	43/478/96-97Radha Cly Secundera Agra
183603	Laxmi Dixit Vaibhav Dixit	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57589 19.09.12	Mohalla Jagat NagarBhogaon Mainpuri
183604	Laxmi Singh Kamlesh Kumar Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57315 23.08.12	8-13- 8,KabhamSatramVidhiRajamundri (Mandal)East, Godavari Varanasi

183605	Lokendra Singh Ramvir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57270 16.08.12	VPO KajrothiMahamaya Nagar Hathras
183606	Lokesh Kumar Vijay Chand	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57307 23.08.12	537 KH 25/121, Ambar ViharFaizulla Ganj Sitapur Rd Lucknow
183607	Luxmi Narayan Vaishya Kedarnath Vaishya	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57132 13.07.12	Mohalla DadhwaraTikaut Nagar Barabanki
183608	Luxmi Singh Ramlayak Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57217 09.08.12	Swaraj Colony Jail RdLane No.6 Banda
183609	Madhulika Tiwari Vijay Shankar Tiwari	BAMS BHU, Varanasi 2013	57952 12.03.13	N 16/55, CA KolhuaVinayak Varanasi
183610	Madhuri Lal Ramji Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57807 20.12.12	EWS-1/29-2, DoubleStorey Pritam Nagar Cly Allahabad
183611	Mahendra KumarTripathi Gulabrai Tripathi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57234 13.08.12	Vill.Lalta Road PO Mau Chitrakoot
183612	Mahendra PratapYadav Shyam Lal Yadav	BAMS BHU, Varanasi 2013	57973 12.03.13	VPO Thathra, BlockSewapuri Mirzamurad Varanasi
183613	Mahendra PratapSingh Dhananjay Kumar Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57553 13.09.12	746, New DelhiMahuarua Mirzapur
183614	Mahendra Vishwakarma Rajnath Vishwakarma	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	57044 27.06.12	Vill.Virmanpur PO Mehnagar Azamgarh
183615	Mahesh Kumar Parmeshwari Prasad	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57032 20.06.12	Rajiv Colony PrimarySchool Pilibhit
183616	Mahima Choudhry Deshraj Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57516 11.09.12	Purani PO lice ChowkiHariyala Sonakpur Muradabad
183617	Malti Shukla Amit Kumar Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57699 11.10.12	Mohalla LiladharTehsil Aliganj Eta
183618	Mamta Lal Nishikant Lal	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2007	57521 11.09.12	87/253, Acharya Nagar Kanpur Sadar Kanpur
183619	Mamta Shukla Harendra Shukla	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	56971 23.05.12	A 79, Krishna ViharChinhat Lucknow
183620	Manglesh Kumar Mishra Mahendra Mishra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57103 05.07.12	Vill.SheshpurSamodha Raibareilly

183621	Manish Aggarwal Purushottam L. Aggarwal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56933 03.05.12	Adarsh Nagar RadhaNivas Vrindavan Mathura
183622	Manish Gupta KB Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2007	57703 11.10.12	B 10/6751, DevnagarKarol Bagh, New Delhi
183623	Manish Kumar Rajvir Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2009	57846 21.01.13	HNo.66/2,Lane No.13Gandhi Cly, Muzaffar Nagar
183624	Manish Kumar Gupta Jawahar Ram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57922 05.03.13	D 59/255 B 5Shivpurwan, Mehmoor GanjVaranasi
183625	Manish Kumar Gupta Badri Prasad Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57515 11.09.12	VPO Nevra Faizabad
183626	Manish Kumar Sharma Mithilesh Kumar Sharma	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57017 07.06.12	Mohalla Katra Shahabad Hardoi
183627	Manish Tanwar Vijay Pal Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57163 24.07.12	Vill.Bandukhedi PO Fandpuri Saharanpur
183628	Manisha Gupta Dinesh Kumar Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56885 10.04.12	H No.206Mohalla & PO Bilsanda Pilibhit
183629	Manjit Kumar Mishri Lal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57653 01.10.12	H No.434, Ward No.14 Moh Parshurampur Thana Alingar
183630	Manjita Jaiswal Vishal Mishra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57710 12.10.12	101, Gopi Kunj New Civil Lines Hardoi
183631	Manju Rani Surendra Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57146 18.07.11	H No.1846Sarai Rafi Thana Chandpur Bijnor
183632	Manmohan Sharma Vishambar D. Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57459 05.09.12	B 10, Temple TankRd, Krishna Ngr Delhi
183633	Manoj Jaiswal Lalji Jaiswal	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56961 21.05.12	Vill.Lalmau PO Mehnajpur Azamgarh
183634	Manoj Kumar Rajendra Pandey	BAMS Utkal Univ., Bhubaneshwar 2013	57989 18.03.13	Vill.Wari PO Nivi Wari Allahabad
183635	Manoj Kumar Chouhan Shivmurti Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57247 13.08.12	Vill.Jagdishpur PO BarawanShahar Thana Mirganj Jounpur
183636	Manoj Kumar Tiwari Avadh Bihari Tiwari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57292 22.08.12	Vill.Pure Baldi Tiwari PO Kakwa Tehsil Amethi Amethi

183637	Manoj Kumar Verma Vidya Shankar Verma	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57160 24.07.12	Jap Aliganj Kotw Ali B Alia
183638	Manoj Kumari Dhara Singh	BAMS MD Univ., Rohtak 1997	57860 28.01.13	Medical Nandi Garden 100 Foota Rd Loni Gaziabad
183639	Manorama Shukla Arun Kumar Shukla	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57164 24.07.12	Vill. Sikta PO Ganeshpur Basti
183640	Manvendra Singh Solanki Jawahar Singh Solanki	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56937 08.05.12	H No. 1878 Sec 7/D Faridabad Haryana
183641	Maroof Ali Farooq Ali	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57299 22.08.12	68/1, Pile Quarter Lohia Nagar Gaziabad
183642	Mathura Singh Akshaybar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57326 27.08.12	Ward No. 4, Dindayal Nagar Syedraja Chandoli
183643	Mayank Bishnoi Suresh Chandra Bishnoi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57820 27.12.12	Bishnoi Sarai Nagina Bijnor
183644	Meenu Tomar Devendra Singh Tomar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	54318 27.08.12	Rambagh Colony Barout Bagpat
183645	Megha Gupta Girja Sharan Gupta	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2011	57408 24.09.12	H No. 454, Nr Damar Godown Jhansi
183646	Minakshi Tripathi Rajesh K. Tripathi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57412 31.08.12	416, Barda Tehsil Charkhari Mahoba
183647	Mishra Pankaj Uma Shankar Umashankar Mishra	BAMS Delhi Univ., Delhi 2009	57672 05.10.12	Vill. P Ali, PO Gothanv Tehsil Madiyahu Jounpur
183648	Mithilesh Pathak Rautar Pathak	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57358 28.08.12	Moh Keshav Nagar Chourasi Fatehgarh Farrukhabad
183649	Mohd. Aqil Ahmed Rahmat Ali	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57861 29.01.13	Vill. Digidhi PO Karkhiavan Thana Phulpur Varanasi
183650	Mohd. Arif Badlu Khan	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2013	57675 05.10.12	Vill. Sarai Akhtiyarpur Pargana Tehsil Safipur Unnao
183651	Mohd. Arif Ansari Mohd. S Alim Ansari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57476 06.09.12	Mohalla Mominabad Hardoi
183652	Mohd. Belal Noor Mohammad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57333 27.08.12	H No. J5/5, Pyale Gadaha Jaitpura Varanasi

183653	Mohd.Hassan Azizur Rehman	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2013	57912 01.03.13	Ghas ki G AliWasliganj Mirzapur
183654	Mohd.Imran Mohammad Israr	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56991 31.05.12	116, Nagar PanchayatWard No.3, Pipraich Gorakhpur
183655	Mohd.Parvez Abdul Rahim	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	56938 08.05.12	Navada ShekhanPurana Shahar Bareilly
183656	Mohd.Rahil Gaffar Shamim Ahmad	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2010	57622 26.09.12	267, Amir Nagar 3 Amir Nagar Lakhimpur Khiri
183657	Mohd.Shamshad Mohd.Yusuf	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57400 30.08.12	1012/5,Dakshini Khalapar Nr Flora School Muzaffar Nagar
183658	Mohd.Taslim Arif Haji Mohd.Usman	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57004 05.06.12	D 43/94-95,BazarSadanand Jainarayan Varanasi
183659	Mohd.Yunus Ansari Mohd.Isa Ansari	BAMS Rajasthan Ay.Univ. Jodhpur 2010	57605 24.09.12	H No.E 3/875, Sector I Aliganj Lucknow
183660	Mohd.Zaved Khan Ataullah Khan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57218 09.08.12	Near Old ThanaKasba Vijaygarh Aligarh
183661	Mohit Kumar Aggarwal Jagdish N. Aggarwal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57449 04.09.12	Mohalla BudholianaRath H Amirpur
183662	Mohit Kumar Verma Jagdish Prasad Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57012 07.06.12	VPO JograjpurTehsil Puranpur Pilibhit
183663	Monica Devi Ajay Kumar Saini	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57127 13.07.12	H No.431, Khalapar 6,Thana Shamli Muzaffar Nagar
183664	Monica Sharma Vishal Upadhyay	BAMS Jiwaji Univ.,Gw Alior 2008	56952 16.05.12	J 274, Darpan ClyDhadipur Murar MP
183665	Mool ChandraKesharwani Ramesh C. Kesharwani	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57243 13.08.12	Vill.Itwa PO , MuhallaThana Raipura - Mau Chitrakoot
183666	Mool Chandra Mourya Ziyalal Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57394 30.08.12	115, Ashok Vihar IltifatGanj Rd Akbarpur Ambedkar Nagar
183667	Mourya Rajsuman Kanhaiyalal Vinay Kumar Mourya	BAMS MUHS, Nashik 2006	57905 26.02.13	Moh Mohaddipur MauhariTola,Thana Cantt. Gorakhpur
183668	Mubassir HussainSiddiqui Mustafa H. Siddiqui	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2012	57879 11.02.13	H No.364, VPO Ma Kanpur Kanpur Nagar Kanpur

183669	Muhammad Azam Ansari Mohd Farooq Ansari	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57736 06.11.12	Khaddar Bazar Choudhriyan Kasba Bhojpur Muradabad
183670	Muju Choudhry Vipin Choudhry	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57022 11.06.12	Vill. Geina PO Moinuddinpur Meerut
183671	Mukesh Gupta Krishan Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57801 17.12.12	Moh Sadar Bazar PO Charkhari Mahoba
183672	Mukesh Kumar Anant Ram	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57828 04.01.13	Moh Gandhi Tola PO Nawabganj Bareilly
183673	Mukul Prasad Bishnoi Rakesh Kumar Bishnoi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57223 13.08.12	1193, Kabli Mawana Meerut
183674	Munesh Kumar Yadav Mahesh C. Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2005	57122 13.07.12	Yadav Bhavan, Shakti Nagar Cly, Chandosi Bhimnagar
183675	Munni Lal Yadav Kanta Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57509 11.09.12	Vill. Jhunka PO Bhala Gazipur
183676	Muvina Wahid Ali	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	57993 20.03.13	H No. 128 Jagir PO Secunderabad Bulandshahar
183677	Nadeem Miyan Asrar Ahmed	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57290 22.08.12	Vill. Bakarpur Kharair PO Arifpur Nawada Badayun
183678	Nadim Ali Lari Abid Ali Lari	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57630 27.09.12	Vill. Barohia PO Jagdor Mithora Bazar Thana Nichlol Maharaj Ganj
183679	Nagendra Praad Munni Lal	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57061 28.06.12	Vill. Ch Alis Jamin Ataulah Chireyakot Mau
183680	Nagendra Pratap Singh Munnar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57214 08.08.12	VPO Harsos Varanasi
183681	Nagesh Kumar Yadav Bhagoti Prasad Yadav	BAMS BHU, Varanasi 2013	57936 12.03.13	Vill. Utirai PO Baderi Jounpur
183682	Nand Kishore Dadhich Surendra K. Dadhich	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 1998	57464 01.10.12	46, Sony Cly, Bhomia Nagar Kalvad Rd Jhokhada, Jaipur
183683	Nandini Singh Puran Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57231 13.08.12	660, Shanti Nagar Civil Lines 2 Bijnor
183684	Narayan Anand Dubey Radhey Shyam Dubey	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57130 13.07.12	Vill. Dedhar PO Byapur Sonbhadra

183685	Narendra KumarSingh Amar Singh	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57063 28.06.12	38 M, Puranpuri ClyGarhi Bhadoria Agra
183686	Narendra Kumar Bhikki Ram	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57165 25.07.12	Near Anaj MandiVPO Sourav Thana Magora Mathura
183687	Narendra KumarShukla Radha Ramaj Shukla	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57033 20.06.12	VPO KishorganjThana Reusa Sitapur
183688	Narendra PratapSingh Munna Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57536 12.09.12	Vill.Chakjamalpur PO Purwa Unnao
183689	Narendra Sharma Shivlal Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57930 11.03.13	Nr Tirupati PalaceMain Rd,Janakpuri Muzaffar Nagar
183690	Narendra Singh Ranvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57664 03.10.12	C 10Jigar Colony Muradabad
183691	Narendra Singh Munna Lal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57852 23.01.13	Vill.Daroni PO PahTehsil Mehroni L Alitpur
183692	Nargis Saifi Sirajuddin Safi	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2010	57839 16.01.12	HNo1544, Moh Munnalal Nr Falawada Rd Mawana Meerut
183693	Navin Prakash Tiwari Aniruddh Tiwari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57447 04.09.12	N 14/12A, B SaraiNandan Mehmoorganj Varanasi
183694	Neelam Chakravorty Avnish Kumar	BAMS Pt.RS Shukla Univ.,Raipur 2005	57604 21.09.12	H No. Ward No.14, PO Sevrahi Malviya Nagar Kushinagar
183695	Neelam Gupta Balkrishan Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57351 28.08.12	Rameshwar Prasad GuptaGrain Dealer H Amirpur
183696	Neelam Yadav Pradip Singh Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	57089 03.07.12	365, Tulsi NagarUrai Jalon
183697	Neelkant Pandey Sitaram Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2006	57662 03.10.12	Vill./Moh Semri Tq.Purwa Pargana Arail, Karchhana Allahabad
183698	Neera Yadav Rakesh Kumar Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57401 30.08.12	C 13/7117Rajajipuram Lucknow
183699	Neha Bhatia Sunil Bhatia	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57671 05.10.12	120/574, Shivaji Nagar Kanpur
183700	Neha Chansoria Ram N. Chansoria	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57424 31.08.12	Chansoria ChikitsalayaVishal Nagar, Kabrai Mahoba

183701	Neha Chouhan Bhisham P. S. Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2008	57254 13.08.12	H 37, Gyan Sarovar Cly Rd Aligarh
183702	Neha Gupta Dilip Kumar Gupta	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57303 22.08.12	H No.240, Begam Bagh Anshik Sitapur
183703	Neha Gupta Devi Prasad Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57141 17.07.12	H No.538 Civil Lines Hardoi
183704	Neha Shukla Uma Shankar Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57556 13.09.12	Keshav Offset Press Mandi Club Ghar Mainpuri
183705	Neha Verma Jai Prakash Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57430 31.08.12	Karainpura Chirgaon Jhansi
183706	Nek Singh Ranvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2003	57023 11.06.12	VPO Malakpur Gaziabad
183707	Nidhi Rathor Pravesh Chandra Rathor	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57228 13.08.12	160, Gadiwan Karhal Rd Mainpuri
183708	Nidhi Sachan Rajendra Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57485 07.09.12	Patel Nagar Nr Petrol Pump Jahanabad Fatehpur
183709	Nidhi Sharma Nagendra Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57263 16.08.12	13, Jwalapuri Delhi Road Meerut
183710	Nidhi Singh Rajesh Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57088 03.07.12	3, Avinash Marg Raibareilly
183711	Nidhi Verma Ram Kishor Verma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57482 07.09.12	VPO Chhatonia Gola Gokaran Nath Lakhimpur Khiri
183712	Nidhi Yadav Keshav Singh Yadav	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57205 06.08.12	Naya Sarrafa Bazar Karhal Mainpuri
183713	Nidhiraj Mishra Shrikant Mishra	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57203 06.08.12	Sadan Shah Civil Line Behind GGIC L Alitpur
183714	Niharika Verma Rajaram Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57324 27.08.12	Vill.Khumaripur PO Kouda Hardoi
183715	Nikhil Ramesh C. Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57732 01.11.12	329, Rohili Tola Purana Shahar Bareilly
183716	Nikhil Shrivastava Rajiv Shrivastava	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	56949 14.05.12	Gramotyan Seva Hospital Narottam Nagar Sindholi, Sitapur



183717	Nilendra Kumar Siya Ram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56891 16.04.12	Vill.Gooja PO Kaitha Kanpur
183718	Nilendra Pratap Brahma Nand	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2013	57883 14.02.13	H No.224, HansapurTehsil Gorakhpur Sadar Gorakhpur
183719	Nimesh Aggarwal Vinod Kumar Aggarwal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2002	56917 26.04.12	643/21, Nayak NagarSitapur Road Lucknow
183720	Nimraj Surya Pal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57197 01.08.12	Vill.Kyotara Bahinga PO Tindwari Banda
183721	Niraj Priyatam	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57418 31.08.12	Vill.Kaita Satna PO Jagdishpur Azamgarh
183722	Niraj Choudhry Vijendra Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2010	57452 04.09.12	Moh Munshipura Nr PO lice Station Nakud Saharanpur
183723	Niraj Kishore Gaya Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57001 05.06.12	VPO NonapurRamabai Nagar
183724	Niraj Kumar Virendra Kumar Gupt	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2008	57759 22.11.12	H No.54K, Gangi No.1Thana Paniara Maharaj Ganj
183725	Niraj Kumar Gupta Panchan Prasad	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57897 22.02.13	Shastri Ngr SiddheshwarNagar Lanka, Gazipur
183726	Niraj Kumar Khanna Tulsi Ram Khanna	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2010	56879 04.04.12	Nr Lodhi DharamshalaKuian Rd, Indra Nagar Jalon
183727	Niraj Kumar Pandey Ram Nivas Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57442 03.09.12	Vill.Belva Buzurg PO Barsena Ahiroli Bazar Kushi Nagar
183728	Niraj Kumar Rai Chandra Shekhar Rai	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	56928 02.05.12	VPO Sodhri Azamgarh
183729	Niraj Pathak Asharam Pathak	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57458 05.09.12	23, Sarai ThokPaschimi Kanpur Rd Hardoi
183730	Nirja Dwivedi KM Dwivedi	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57737 06.11.12	18, Lohia HospitalParisar Farrukhabad
183731	Nirji Singh Somvanshi Shrawan Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57637 28.09.12	62/10, KhageshwarPurva RdCanal Rd Hardoi
183732	Nirupama Kushwaha Kedar Nath Kushwaha	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57309 23.08.12	109 Nyaya NagarJhansi Allahabad

183733	Nisha Beig Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56999 05.06.12	R 7/157Rajnagar Gaziabad
183734	Nisha Brij Pal Singh	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57212 07.08.12	Kasba Rd BegamabadModi Nagar Gaziabad
183735	Nisha Verma Sanjiv Kumar	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2012	57858 29.01.13	VPO KanhaMurai Bagh, Dalmau Rai Bareilly
183736	Nishant Kumar Mishra Laxmi Shankar Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2007	57140 17.07.12	H No.771,Vishnu Nagar Raibareilly
183737	Nishchal Raghav Somvir Singh Raghav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57144 17.07.12	Near Central BankJattari Aligarh
183738	Nishesh Dixit Anil Kumar Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57678 05.10.12	H No.43New Azad Nagar Kanpur
183739	Nitesh Kumar Gupta Subhash Chandra Gupta	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56959 21.05.12	VPO Lalganj Azamgarh
183740	Nitesh Shukla Pramod Shukla	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57181 27.07.12	398, Hardoi DehatUttari Bhag 1 Hardoi
183741	Nitika Singh Virpal Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57871 04.02.13	VPO GadeuraNear Ahirori Hardoi
183742	Nitin Bishnoi Sunil Kumar Bishnoi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57111 12.10.12	B 91, Himgiri ClyHarthala, Sonakpur Muradabad
183743	Nitin Raj Vashishtha Muni	BAMS CSM Univ., Kanpur 2002	57196 01.08.12	Mohalla Pir Nagar PO Pir Nagar Gazipur
183744	Nitin Tyagi Rakesh Tyagi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57633 27.09.12	Vill. Bhangal,Begampur Noida Ph 2 Gautam Buddh Ngr
183745	Nitish Rathor Bhola Singh Rathor	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57491 10.09.12	1/114, Bhusha MandiFatehgarh Farrukhabad
183746	Nivedita Yadav Naresh Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57104 05.07.12	H No.82, Maszid Rd Tundla Ferozabad
183747	Om Narayan Yadav Tej Bahadur S. Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57597 21.09.12	Vill.Bhakhra PO Vasta Kannoj
183748	Om Prakash Kuril Mahesh Prasad Kuril	BAMS BHU, Varanasi 2011	57120 13.07.12	Vill.Kharohavan PO Bherapakar Deoria

183749	Om Prakash Singh Bhola Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57492 10.09.12	VPO Vildar Nagar Dildar Nagar Gazipur
183750	Pakhi Sharma PK Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57931 11.03.13	18, Kaveri Enclave Phase 2 Aligarh
183751	Pallavi Ladha Rahul Ladha	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56942 10.05.12	640 K, Rattanganj FlNo. 41, Kidwai Nagar Kanpur
183752	Pallavi Mahendra Yogesh Mahendra	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2011	57889 18.02.13	282 Sankata Devi 2 Lakhimpur Khiri
183753	Pallavi Verma Dhirendra Kumar Verma	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2011	57864 30.01.13	LRP Road Patel Nagar Lakhimpur Khiri
183754	Palvindra Kaur Karam Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57885 14.02.13	Kishanpur Haripur Pilibhit
183755	Pankaj Kumar Harish Chand Tyagi	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57685 08.10.12	VPO Begrajpur Bijnor
183756	Pankaj Kumar Ajay Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57824 28.12.12	ITI Chouraha Thandi Sarak Farrukhabad
183757	Pankaj Kumar Prem Nath Nadar	BAMS SS Univ., Varanasi 2010	57659 01.10.12	Vill.Patti Kirat Rai PO Marikpur Jounpur
183758	Pankaj Kumar Mourya Indu Dev Mourya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	57868 31.01.13	Mohalla Chitrasari PO Sadar Jounpur
183759	Pankaj Singh Yadav BL Bhurtiya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57638 28.09.12	471/A, Gandhi Nagar Naini Allahabad
183760	Paramjit Singh Madan Pal Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57873 04.02.13	Opp.Indane Gas Service Gokul Nagar Chandpur Bijnor
183761	Parul Saini Lilapat Singh	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 2011	57775 04.12.12	Vill.Nangla Bhajja PO Dhampur Bijnor
183762	Parul Verma Vishveshwar P. Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57411 31.08.12	Rly. Station Road Mohalla Shankarganj BiswanSitapur
183763	Pawan KumarYadav Biresh Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57375 28.08.12	Vill. Nagla Moti PO Niv Karori Farrukhabad
183764	Pawan Kumar Keshav Ram Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57385 29.08.12	Vill.Chandna Chowki PO Deoria Mubarakpur Balrampur

183765	Pawan Kumar Dixit Ramkrishna Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57650 01.10.12	Devi Patlawati Marg Pati Ali Kasganj
183766	Pawan Kumar Gupta Bhagwat Swaroop Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57797 13.12.12	VPO Chomuhan Tehsil Hata Mathura
183767	Pawan Kumar Rastogi Tahalnath Rastogi	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57584 19.09.12	Dadua Bazar Makarathi Ganj Gonda
183768	Pawan Kumar Singh Surendra Narayan Singh	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	57530 12.09.12	H No. 262, Barwa Raja Raja Pakad Kushi Nagar
183769	Pawan Kumar Singh Omkar Prasad Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2003	56895 17.04.12	VPO Shivpal Thana Jetpur Ambedkar Nagar
183770	Pawan Kumar Verma Lal Babu Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57570 18.09.12	H No.52, W No. 14 Raghav Nagar Deoria
183771	Pawan Kumar Keshri Vinod Kumar Keshri	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57096 04.07.12	Nai Bazar Sant Ravidas Nagar Bhadohi
183772	Pawan Prasad Jageshwar Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57168 25.07.12	5/151, Madarwadi Farrukhabad
183773	Pawan Pratap Singh Vishwakarma Shatrughan Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57039 22.06.12	HNo127, Moh Gayatri Nagar, Pathanpura Rath H Amirpur
183774	Pawan Singh Diwan Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57948 12.03.13	HNo3, Gandhi Ngr Tirwa Ganj Kannoj
183775	Pinky Lokendra Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57909 27.02.13	Bassi Road Kasba Shahpur Muzaffar Nagar
183776	Pintu Kumar Singh Vijay Kumar Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57606 24.09.12	Balaji Extension School Bhagwanpur Varanasi
183777	Piyush Gupta Vinit Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57721 19.10.12	Gupta Medical Store Ashok Nagar Fatehpur
183778	Piyush Kumar Arvind Kumar Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56950 15.05.12	VPO Madhopur Buzurg Tarya Sujaan Tamkuhiraj Kushi Nagar
183779	Piyush Kumar Gupta Anil Kumar Gupta	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56960 21.05.12	Ashwani Medical Store Lalganj Azamgarh
183780	Piyush Raghav Hemant Vishen	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	57841 17.01.12	47, Nyaya Nagar Jhansi Allahabad

183781	PO oja Jaiswal Madan Lal Jaiswal	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57670 05.10.12	N 8/236 A-4, Newada, Sunderpur Varanasi
183782	PO oja Rani Vinesh Kumar	BAMS MD Univ., Rohtak 2010	57714 15.10.12	H No.239, Bahadurpur Mawana Meerut
183783	PO onam Joshi CP Joshi	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	57895 22.02.13	1/23, 358, MIG Indira Nagar, Rewa
183784	PO onam Singh Ranj Bahadur Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57291 22.08.12	VPO Dhammor Raswada Sultanpur
183785	Prabal Dixit Suresh Chandra Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57378 28.08.12	5/15, Madarwadi Farrukhabad
183786	Prabhat Shrivastava Suresh C. Shrivastava	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57722 19.10.12	Vill. Balapur PO Shivdayal Ganj Gonda
183787	Prachi Mishra Chandra Shekhar Mishra	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57874 05.02.13	H No.31, Shastri Nagar Lakhimpur Khiri
183788	Prachi Sharma Shrinivas Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57239 13.08.12	Nr PO lice Station Main Rd, Bilsanda Pilibhit
183789	Pradip Kumar Sone Lal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57975 12.03.13	Nai Basti, Bara Sirohi IIT Kanpur
183790	Pradip Kumar Chourasia Ramesh C. Chourasia	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57068 28.06.12	187, Purani Bindki Bindki Fatehpur
183791	Pradip Kumar Gaya Prasad Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57331 27.08.12	VPO Ahirolidan Tarya Sujan Kushi Nagar
183792	Pradip Kumar Jaiswal Shyam P. Jaiswal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57972 12.03.13	VPO Karma Sonbhadra
183793	Pradip Kumar Mishra Mukti Nath Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	56919 27.04.12	Vill. Shambhupur Newada PO Bibipur Kadim Nijamabad Azamgarh
183794	Pradip Kumar Mourya Shankh Madwar Mourya	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57849 22.01.13	Vill. Ganvaria PO Pachgava Siddharth Nagar
183795	Pradip Kumar Verma Komal Chandra Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	56921 01.05.12	Samudayik Swasthya Kendra Parisar Attarra Jhansi
183796	Pradip Yadav Zahar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57808 20.12.12	H No.4/229, Nawab Nayamat Khan Farrukhabad

183797	Pradyumn Bahadur Gautam Balbhadra	BAMS BHU, Varanasi 2013	57943 12.03.13	H No.201 D, Mohalla Basharatpur Gorakhpur
183798	Prafulla Kishore Aggarwal Girdhari Lal Aggarwal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57571 18.09.12	Anaj Mandi Vrindavan Mathura
183799	Prafulla Kunwar Singh Arvind Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56955 17.05.12	Chakbhuidhar Rotaha Tehsil Bhador Sant Ravidas Nagar
183800	Prakash Kumar Musafir Ram	BAMS BHU, Varanasi 2013	57944 12.03.13	Vill. Barehata PO Khidiraganj Gazipur
183801	Pramod Kumar Yadav Mahavir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57842 17.01.13	H No.48A, VPO Amipur Baloni Bagpat
183802	Pramod Kumar Yuvraj Dutt	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57733 02.11.12	Vill. Manvapour PO Bhallia Buzurg Lakhimpur Khiri
183803	Pranjal Singh Verma Om Prakash Verma	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2009	57694 08.10.12	H No.346, Avas Vikas Cly Secundera Agra
183804	Prarthana Ashwani Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2009	57683 08.10.12	Vill. Redimalakpur PO Saharanpur Saharanpur
183805	Prashant Jain Vijay Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2013	57921 05.03.13	Main Bazar Vill. Sakrar Tehsil Mauranipur Jhansi
183806	Prasoon Rawat Bhikam Chandra Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57588 19.09.12	G 1, 562, K Alindi Puram Rajrup Pur Allahabad
183807	Pratibha Verma Sourabh Ravat	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57488 10.09.12	Mohalla Rambagh Mishritkh Sitapur
183808	Pravesh Kumar Krishan Pal Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57522 11.09.12	Vill. Bharji, PO Swas Kandhla Muzaffar Nagar
183809	Pravin Kumar Om Prakash	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57099 05.07.12	VPO Surajpur Gautam Buddh Ngr
183810	Pravin Kumar Ramesh Chandra	BAMS BHU, Varanasi 2013	57974 12.03.13	42/138, Krishan Kunj Central Jail Rd Agra
183811	Pravin Kumar Gupta Rajendra Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57914 04.03.13	H No.110, Bazar A Bazar Gursarai A Jhansi
183812	Pravin Kumar Mishra Harikesh P. Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57276 16.08.12	144/A/B Vivek Nagar Pratapgarh

183813	Pravin Kumar Singh Shrinivas Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57876 06.02.13	Vill. Bahuas PO Singhari Bazar Kushi Nagar
183814	Pravin Kumar Verma Chaturbhuj Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57425 31.08.12	VPO Katera Banda
183815	Pravin Mani Tripathi Yogesh Mani Tripathi	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57502 10.09.12	B 30/1A, JK Jankibagh Colony, Lanka Varanasi
183816	Pravin Sharma Ram Prakash	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57619 26.09.12	4013, Hardev Ganj 1 Kosikalan, Chhata Mathura
183817	Prem Chand Gupta Parag Ram Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57086 03.07.12	B 31/82A, Bhogavir Lanka Varanasi
183818	Prerana Rani Kalampal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2009	57682 08.10.12	Moh Choudhariyan Nakud Saharanpur
183819	Priti Mourya Gaya Prasad Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57441 03.09.12	H No.1554, Mohalla Badheyapur Civil Line 2 Sultanpur
183820	Priti Sharma Suresh C. Sharma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57389 29.08.12	31/1, Mithilapuri Nr Jagmohan PO Izzat Nagar Bareilly
183821	Priyanka Chaturvedi Shambhu N. Chaturvedi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57565 14.09.12	Moh Ganesh Ganj Puranpur Pilibhit
183822	Priyanka Jaiswal Om Prakash	BAMS BHU, Varanasi 2013	57955 12.03.13	Vill.Imarti Colony Thana Roberts Ganj Sonbhadra
183823	Priyanka Katiyar Radhey Shyam Katiyar	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57128 13.07.12	90, Gaushala Road Oreiya
183824	Priyanka Shrivastava Suryabhan L. Shrivastava	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57050 28.06.12	Maa Rajeshwari Nagar Devk Ali Faizabad
183825	Priyanka Shukla Mukesh Kumar Shukla	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57454 04.09.12	Katra Khoob Chandra Jaswant Nagar Itawa
183826	Priyanka Singh Jagdish Singh	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57075 29.06.12	C/o Dr. Jagdish Singh Kelhat Bazar, Sunar Mirzapur
183827	Priyanka Singh Arun Kumar Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	56903 18.04.12	Beena Cly Qr. No. TSC15, Shakti Nagar Sonbhadra
183828	Priyanka Singh Yadav Ranjit Singh Yadav	BAMS Padmashree Dr.DY Patil Univ.Navi Mumbai 2009	57213 07.08.12	N 4/4J-3V-A1, Karodi Varanasi

183829	Punita Gupta Amit Chandra Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2004	56912 23.04.12	Dilerganj Shahabad Hardoi
183830	Puranjaya Shukla Ram Lakhan Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57644 28.08.12	VPO AjgaraThana Lalganj Pratapgarh
183831	Pushpa Surya Pratap	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2007	56994 01.06.12	Vill.Ramnagar Mawana Meerut
183832	Pushpendra KumarVerma Tar Chandra Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57435 03.09.12	C 211Avas Vikas Colony Hardoi
183833	Qayuum Ansari Yousuf Ansari	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57387 29.08.12	Hata Bazar PO Shivpur Gorakhpur
183834	R Shivam Mishra Rajesh Mishra	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57560 14.09.12	Katra B AlipurInahan PO Devapur Pratapgarh
183835	Rachin Kumar Ram Avtar Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57896 22.02.13	VPO KatharaNagar Kanpur
183836	Radhey ShyamYadav Rampal Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57526 11.09.12	VPO Dhanpur Tofapur Mawana Meerut
183837	Raghunath Agnihotri Krishan Murari Agnihotri	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57134 16.07.12	Mohalla Khatta Jamalkhan & Tehsil Shahabad Hardoi
183838	Rahul Devdhar Mahitosh Kumar Dhar	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57073 29.06.12	HNo309,Chirgaon Dehat 3 Chirgaon Tehsil Moth Jhansi
183839	Rahul Singh Ramkumar Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57838 16.01.13	Universal Book De pot Chhota Chouraha Unnao
183840	Rahul Yadav Bijendra Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56901 17.04.12	H No. A-2/10 Mansarovar Cly, Delhi Rd Muradabad
183841	Raj Bahadur Hiralal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57260 16.08.12	85/84, Luxmi Purwa Kanpur
183842	Raj Bahadur Jita Saroj	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57367 28.08.12	Vill. Devnathpur PO K Alichabad Azamgarh
183843	Raj Kishore Singh Vibhuti Narayan Singh	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57116 10.07.12	Vill.Purna PO Abhilodha Sonbhadra
183844	Raj Kumar Shah Shiv Prasad Shah	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57384 29.08.12	W No 5, Moh Harredeeh Nr Suraj Bakery PO Nichlol Maharaj Ganj



183845	Rajendra Singh Pratap Singh	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2007	57769 30.11.12	VPO Rajpur Ramabai Nagar Kanpur Dehat
183846	Rajesh ChandraNigam Shyam Bihari Nigam	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2013	57985 18.03.13	VPO Barokhar Buzurg Banda
183847	Rajesh KumarSingh Jagan Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1998	56983 30.05.12	Vill.Varipura PO Pepal Badayun
183848	Rajesh Kumar Suresh Chandra	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57525 11.09.12	Vill.Chandapur PO MadwaraGhatampur Kanpur Kanpur
183849	Rajesh Kumar Devnath	BAMS SS Univ., Varanasi 2010	56880 04.04.12	Vill.Shamsabad PO Nagpur Maharashtra
183850	Rajesh Kumar Mishra Aniruddh Mishra	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	57562 14.09.12	Vill.Ajay Nagar Vabhnoli PO Dhuria Imilya Kushi Nagar
183851	Rajesh Kumar Tiwari Lallan Tiwari	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57933 11.03.13	Room No. ELSDRPF Colony, NR Cantt. Varanasi
183852	Rajiv Gupta Swami Nath Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57410 31.08.12	Vill.Parsia Chhitni Singh PO Khayepur Deoria
183853	Rajiv Kumar Gaya Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57469 06.09.12	Vill.Banupura PO AmapurSahavar, Kasganj Kashiram Nagar
183854	Rajiv KumarVishwakarma Kewla P. Vishwakarma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56935 08.05.12	570/58A, Ramesh SadanVIP Road, Gopalpuri Alambagh Lucknow
183855	Rajiv Kumar Pasi Chhotelal Pasi	BAMS Devi Ahilya Unv., Indore 2010	57314 23.08.12	Vill.Sunti ka Purwa PO Devgaon Tehsil Milkipur Faizabad
183856	Rajiv Kumar Singh Prem Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57528 12.09.12	145B/9C, Chandpur Salori Teliyar Ganj Allahabad
183857	Rajiv Kumar Singh Man Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57311 23.08.12	VPO Dharampur Koshambi
183858	Rajiv Sharma Naval Kishore Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57693 08.10.12	1339/14, Kishanpura Saharanpur
183859	Rajkumar Sharma Ram Sumer Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57278 16.08.12	Manyavar Kashiram Zila Chikitsalaya Awasiy L Alitpur
183860	Rajnish Kasodhan Gangaram Kasodhan	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57784 19.12.12	Pankaj Pharma College Sarojini Nagar Lucknow

183861	Raju Bhardwaj Amar Nath	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57352 28.08.12	VPO Sarai Govind Gazipur
183862	Rakesh Kumar Rai Mahatma Rai	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	57734 02.11.12	H No.508, Suthna BarsolaTikunia Lakhimpur Khiri
183863	Rakesh Prasad Lalchand Prasad	BAMS BHU, Varanasi 2013	57937 12.03.13	VPO Basantpur Batora Thana Dhudhli Maharaj Ganj
183864	Rakesh Singh Mahendra Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57194 31.07.12	Vill.Manharia PO Bijua Lakhimpur Khiri
183865	Rakhi SK Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57467 06.09.12	Vill. Katghar Pargana & TehsilDalmau Raibareilly
183866	Rakshita Singh Vivek Kumar Niranjana	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57547 13.09.12	H No.10, RanwaThana Jalon
183867	Ram Belas Ramnath	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57456 05.09.12	VPO Khajoori Head PO Dharam Singhwa Bazar Sant Kabir Nagar
183868	Ram Chandra Ram Bachan	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57494 10.09.12	Vill.Bhasma PO Karmisirpur Ambedkar Nagar
183869	Ram Chandra Jaiswal Munni Lal Jaiswal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2009	57791 12.12.12	VPO BaroutThana Handia Allahabad
183870	Ram Karan Hargovind	BAMS BHU, Varanasi 2013	57941 12.03.13	VPO KarguanVia Chirgaon Jhansi
183871	Ram Krishan Mishra Laxmi Narayan Mishra	BAMS BHU, Varanasi 2013	57940 12.03.13	A40/60, D 3 X, Amarapur Madhian, Batlohia Varanasi
183872	Ram Krishan Singh Vinod Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57802 17.12.12	Moh.Padav Nai Colony Nawabganj Gonda
183873	Ram Narayan Pyare Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2006	57617 26.09.12	Thana Sujangarh PO Kandhar Pur Pratapgarh
183874	Ram Nivas Bhagwan Deen	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56986 30.05.12	Vill.Harankuda PO Lakhmaopur P Ali Hardoi
183875	Ramashreya Patiraj Ram	BAMS SS Univ.,Varanasi 2011	57055 28.06.12	Vill.Pachrasi PO Badagaon Varanasi
183876	Ramesh Chandra Babu Ram	BAMS BHU, Varanasi 2013	57938 12.03.13	Vill.Biharipur Abdul RehmanThana Chloladia Bareilly

183877	Ramesh Chandra Verma Ramsahai Verma	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2009	57497 10.09.12	H No.30 Kulopahad Mahoba
183878	Ramesh Kumar Jaggi Lal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57392 30.08.12	1/131, Gayatri Nagar Unchahar Raibareilly
183879	Ramji Jaiswal Ramesh C. Jaiswal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57390 29.08.12	VPO Birapur Pratapgarh
183880	Ramjit Yadav Punvasi Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57245 13.08.12	Vill.Jasda Khilwan PO Sachui Mau
183881	Ramkaran Singh Ramprasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57419 31.08.12	Block Road Sarila Tehsil Saril H Amirpur
183882	Randhir Singh Tej Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57533 12.09.12	Vill.Nadna PO Umaria H Amirpur
183883	Ranjana Sharma Ram Kumar Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57457 05.09.12	Vill.Rajwara PO Todhi, Fatehpur Jhansi
183884	Rashid Ali Nafis Ahmed	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57867 31.01.13	Kalashpuri W 2H No.1887, Behsuma Meerut
183885	Rashmi Gupta Dharnidhar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57432 31.08.12	Indira Nagar Garotha Jhansi
183886	Rashmi Kumari Ranjit Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57015 07.06.12	A/14, Tilak Nagar BHEL Jhansi
183887	Rashmi Kumari Vishal Jaiswal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56877 02.04.12	12/583, Indira Nagar Lucknow
183888	Rashmi Sachan Aditya Sachan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57403 31.08.12	82/2A, Rasulabad Teliyar Ganj Allahabad
183889	Rashmi Singh Jaypal Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57006 06.06.12	29/23, Jagatpur Purana Shahar Bareilly
183890	Rashmi Singh Ripu D. S. Bhadoria	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57881 12.02.12	H No.55, Narayanpur Bhanu, Bidhuna Oreiya
183891	Rattan Singh Ram Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57779 04.12.12	Thana & PO Karhara Kalan Tehsil Mahoba Mahoba
183892	Ravendra Kumar Shankar Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57798 14.12.12	Prem Raghu Hospital Agra Rd Hathras

183893	Ravi Gupta MP Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57718 17.10.12	35/4, Chak Kazi Naini Allahabad
183894	Ravi Kant Ram Murat Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	56985 30.05.12	Da Samuwahi Lanka Varanasi
183895	Ravi Kumar Shakya Ashwani Kumar Shakya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57143 17.07.12	Vill. Shankarpur PO Saurikh Kannoj
183896	Ravi PrakashSharma Vasudev P. Sharma	BAMS Rajasthan Univ., Jaipur 1999	57645 01.10.12	Kayasth Pada Badi Badi, Dholpur Rajasthan
183897	Ravi Prakash Sharma Panna Lal Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57507 11.09.12	C 14/160-16B-3N, Sonia Varanasi
183898	Ravi Pratap Singh Jai Prakash Singh	BAMS BHU, Varanasi 2011	57093 04.07.12	Vill.Hardaspur PO Dumrav Mau
183899	Ravi Shrivastava Vijay Shrivastava	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57133 13.07.12	Nagar Panchayat Badhni Ward No.3, Siddharth Nagar
183900	Ravikant Prajapati Motilal Prajapati	BAMS BHU, Varanasi 2013	57965 12.03.13	209/90C, Saket Nagar Lala ki Sarai,Teliyar Ganj Allahabad
183901	Ravindra KumarSharma Chhedi Lal Sharma	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 1991	57583 19.09.12	VPO Girshi Kanpur Nagar Kanpur
183902	Ravindra KumarPandey Ram Swaray Pandey	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2006	57728 30.10.12	Vill.Anuwa PO Kasela Marwari Basti
183903	Ravindra KumarYadav Shrawan Kumar Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2004	57772 03.12.12	Vill. Mohiuddinpur PO Mohammadpur Azamgarh
183904	Reena Vishnoi Sunil Kumar Vishnoi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57712 12.10.12	B 91, Himgiri Colony Harthala Sonakpur Muradabad
183905	Rekha Mangla Prasad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57341 28.08.12	Ashok Medical Hall Atrolia Azamgarh
183906	Renu Yadav Vikash Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57371 28.08.12	Vill.Nagla Gulab Post Nib Karori Farrukhabad
183907	Renu Yadav Parsu Ram	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57149 18.07.12	53, Mohalla Rahimabad Anshik Bijnor Lucknow
183908	Reshma Begum Mohammad A. Parvez	BAMS Pt.RS Shukla Univ.,Raipur 2009	56894 16.04.12	Nai Bazar Dostpur, Thana Dostpur Tehsil Kadipur Sultanpur

183909	Reshu Singh Avinash Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57359 28.08.12	6A/117, Avas Vikas Colony Farrukhabad
183910	Richa Gupta Rajendra P. Gupta	BAMS Jiwaji Univ., Gw Alior 2010	57663 03.10.12	Dehli Selecton House Rajmarg, Etah Jalon
183911	Richa Sharma Narendra Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57592 20.09.12	H No.122/16Devipura 2 Bulandshahar
183912	Richa Singh Anuj Kumar	BAMS MD Univ., Rohtak 2010	57177 26.07.12	H No.7121, Rly. Rd Nangal, Deoband Saharanpur
183913	Richa Yadav Tarun Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57575 18.09.12	50/3, Suresh Sharma Nagar Pilibhit Bypass Bareilly
183914	Rimmi Vijayant Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57241 13.08.12	Vill. Jagatpur PO Indragarh Kannoj
183915	Ripu Daman Singh Ram N. S. Bhadoria	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57880 12.02.13	H No.55, Narayanpur Bhanu, Bidhuna Oreiya
183916	Rishab Dixit Brijesh Kumar Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56967 22.05.12	554/4D, Adarsh Nagar Sipri Bazar Jhansi
183917	Rishabh Singh Rakesh Babu	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57288 21.08.12	Janpad Inter College Harchandpur Raibareilly
183918	Rishi Pal Singh Dharamvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	56907 26.04.12	VPO Prempur Th. Pisawa Aligarh
183919	Rishiraj Sharma Momraj Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57495 10.09.12	Mohalla Attarpur Tehsil Ghanora Jyotiba Phule Ngr
183920	Ritesh Kumar Shrivastava Anil Kumar Shrivastava	BAMS MUHS, Nashik 2012	57996 22.03.13	Kol Baj Bahadur PO Bhanwarnath Sadar Azamgarh
183921	Ritesh Tiwari Brij Kishore Tiwari	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	56927 02.05.12	VPO Dubolia Bazar Basti
183922	Ritika Bhatt Bimal Bisht	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57037 21.06.12	30, Avas Vikas Kashipur Udham Singh Nagar Uttarakhand
183923	Ritinath Shukla Ramcharan Garg	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2001	57748 20.11.12	Opp. Pir Indira Cly Budhana Rd Shamli
183924	Ritu Raghuvanshi SB Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57997 22.03.13	SA 2/41, S-3 Ganesh Nagar, Pandeypur Varanasi

183925	Ritya Singh Rajesh Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57007 06.06.12	727/A, Kanungopura Uttari Behraich
183926	Rohit Kumar Gupta Vijay Bahadur Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56925 02.05.12	VPO Khadni Kannoj
183927	Rohit Kumar Shukla Tapeswari P. Shukla	BAMS BHU, Varanasi 2013	57946 12.03.13	3/7/33, New Colony Teli Tola, Shivpuri Colony Faizabad
183928	Rohitashav Namdev Laldas Namdev	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57115 10.07.12	74, Civil Line New Basti Near Soochna Kendra L Alitpur
183929	Rolly Yadav Lakhan Singh Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57817 26.12.12	H No.196 BFriends Colony Itawa
183930	Roop Singh Ramkaran Singh	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1990	57632 27.09.12	H No.36, Vill. Jamalpur Pathani Bijnor
183931	Ruby Jaiswal K Ali Prasad Jaiswal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57539 12.09.12	Sakaldeeha Bazar PO Chandoli Chandoli
183932	Ruby Singh Vijay Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2008	57620 26.09.12	132, Surya Nagar Ajitmal Oreiya
183933	Ruby Yadav Yatendra Singh	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2011	57477 06.09.12	Moh Nr Sudarshan Das Hospital, Aliganj Etah
183934	Ruchi Choudhry Ramesh Babu	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56915 26.04.12	454, Surya Nagar II Usha Parihar Rd Bhood Bulandshahar
183935	Ruchi Kumari Shambhu Dayal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57346 28.08.12	482/80, Bhandotola D Aliganj Lucknow
183936	Ruchi M Alik Rajendra Singh	BAMS MD Univ., Rohtak 2009	57191 31.07.12	Vill. Sunna Thana Kandhla Muzaffar Nagar
183937	Ruchi Pandey Anil Kumar Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57465 06.09.12	C 86, Dayal Residency Chinhat Near BBD Lucknow
183938	Ruchi Singh Avnish Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57756 21.11.12	Opp Rajkiya Inter College Mainpuri
183939	Rupesh Kumar Gupta Kailash Nath Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57767 30.11.12	VPO Jamalapur Jounpur
183940	Rupesh Tripathi Ram Krishan Tripathi	BAMS CSM Univ., Kanpur 2007	57618 26.09.12	2/4, Bypass Road Fafamau Allahabad

183941	Rupesh Tripathi Satya Narayan Tripathi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57010 07.06.12	Vill.Chhirschhuta Thana Tindwari Mahoba
183942	Sabhajit Mourya Ramnihor Mourya	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2013	58000 25.03.13	Tiwariipur PO Shahipur Tehsil Handia Allahabad
183943	Sabiha Zaved Anwar	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2005	56902 18.04.12	Dr.Zaved Behta Bazar Kursi Road Lucknow
183944	Sachin Jain Virendra Kumar Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57890 19.02.13	Near Singhai Hero Honda Agency L Alitpur
183945	Sachin Kumar Rajpal Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2010	57451 04.09.12	Vill.Jalalpura PO Dhakdevi Saharanpur
183946	Sachin Kumar Gyan Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57230 13.08.12	HNo. 551 G Ali No.6 Laxmanpuri Meerut
183947	Sachin Kumar Sumat Prasad Jain	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57264 16.08.12	VPO Daha Bagpat
183948	Sachin Kumar Kunwar Pal Singh	BAMS Delhi Univ., Delhi 2006	57035 20.06.12	14, Rly.Cly Matikunj Mathura
183949	Sachin Kumar Naresh Pal Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57046 22.06.12	Vill. Kanha Nangla PO Jhalu Bijnor
183950	Sachin Kumar Rajendra P. Sharma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56931 02.05.12	Dhakka Anshik Dhakka Muradabad
183951	Sachin Kumar Dixit Mool Chandra Dixit	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57078 29.06.12	Vill.Deendayal Bagh PO Fatehgarh Farrukhabad
183952	Sadhna Dwivedi Ramakant Dwivedi	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57595 20.09.12	VPO Hareiya Sagdi, Jiyanpur Azamgarh
183953	S Alil Kumar Shukla Sheshnath Shukla	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57179 27.07.12	239A, Mahui Sudharpur Thana Khorabar Gorakhpur
183954	S Alita Patel Anshu Patel	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56899 17.04.12	151, Dadra, Tehsil Madihan Mirzapur
183955	Salman AtaharTahir Tahir Ahmad	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57167 25.07.12	H No.50, Sarai Bhatela Karhal Mainpuri
183956	Sanat Pal Singh Shivram Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57249 13.08.12	Govind Nagar Kulopahad Mahoba

183957	Sanatan Rai Dhirendra Kumar Rai	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2009	56966 22.05.12	C/o Baijnath Rai VPO Bharoli KalanPS Karimuddinpur Gazipur
183958	Sandhya Rathor Kanhaiya Lal Rathor	BAMS BHU, Varanasi 2013	57960 12.03.13	1363 D/1, Dhobin Pulia Hanumant Vihar Naubasta Kanpur
183959	Sandhya Singh Chandra Bhushan Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57753 21.11.12	Vill.Deoria PO Khari B Alia
183960	Sandhya Tripathi Ravindra Nath Tripathi	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2012	57811 21.12.12	Civil Line PO Tetri Bazar Nagar P Alika Siddharth Nagar
183961	Sandhya Yadav Vinod Kumar Yadav	BAMS BHU, Varanasi 2013	57956 12.03.13	B 3/94Shivala Varanasi
183962	Sandip Kumar Shukla Madan Mohan Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57322 27.08.12	30, BehlolpurTeh Behlolpur Ramnagar Barabanki
183963	Sandip Kumar Verma Nand Kishore Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57030 20.06.12	48, Raghuraj NagarPatel Nagar Indira Nagar Lucknow
183964	Sandip Choudhry Prakash Choudhry	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57266 16.08.12	Vill.Garathw Alia PO Laharadeva Sant Kabir Nagar
183965	Sandip Haldar Sukhlal Haldar	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2011	57848 21.01.13	VPO Thuthibari Maharaj Ganj
183966	Sandip Kumar Ram Sharan Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2002	57590 20.09.12	Vill. Bhogipur Mani PO Maksoodpur Lakhimpur Khiri
183967	Sandip Shahi Amresh Shahi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57834 10.01.13	VPO Gader Deoria
183968	Sanjay Kant Prakash Pandey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57713 12.10.12	Nr LIC Office Sugar Mill Rd Kh Alilabad Sant Kabir Nagar
183969	Sanjay KumarZainar Mahendra Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56954 17.05.12	Vill.Hansapur PO Behsuma Meerut
183970	Sanjay Kumar Ram P. Upadhyaya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57105 05.07.12	Bhagwati Nagar Station Rd Tundla Ferozabad
183971	Sanjay Kumar Ram Lal	BAMS BHU, Varanasi 2013	57976 12.03.13	VPO Bhaupur Jounpur
183972	Sanjay Kumar Mourya Shyam Sunder Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57750 20.11.12	502 B/1, Prayagpuram Chankdandi Naini Allahabad



183973	Sanjay Kumar Panchal Dharam Singh Panchal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2002	56887 11.04.12	C 84, LIG Flats DDA Flats, East Loni Road, Delhi
183974	Sanjay Kumar Singh Dev Charan Singh Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1997	57669 05.10.12	VPO Beghai Kumbhipur Thana Syedraja Chandoli
183975	Sanjay Pathak Rajendra Nath Pathak	GAMS State Fac.of Ay. & Unani Med., Patna Bihar 1999	57527 12.09.12	Vill.Mishra Vandhora Vijaypur Gopalganj Bihar
183976	Sanjay Singh Yashvir Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56920 27.04.12	G No.2, Bank Cly Govind Ngr Muradabad
183977	Sanjit Kumar Singh Suresh Bahadur Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57426 31.08.12	Vill.Singhor PO Maharani Ganj Raibareilly
183978	Sanjiv Kumar Mukandi Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57031 20.06.12	Pragati Vihar, Adampur RdNr Shiv Mandir Bijnor
183979	Sanjiv Malaan Karanvir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56951 15.05.12	H No.5/69, Suraksha Vihar No.61 Banna Devi Aligarh
183980	Sanket Kumar Mishra Pramod Kumar Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2012	57995 21.03.13	724/11D, Shivaji Nagar Jhansi
183981	Santosh Kumar Lodai R.Vishwakarma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57329 12.08.12	Vill.Ausanpur PO Bhati Tehsil Handia Allahabad
183982	Santosh Gupta Kailash Chandra Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57884 14.02.13	Ms.Santosh Gupta, PWD 55 Hathras Junction Hathras
183983	Santosh Kumar Mourya Rama Shankar Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57480 07.09.12	S-8/89-A, Shivpur Kot PO Shivpur Varanasi
183984	Santosh Kumar Vishwakarma Mangru R.Vishwakarma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57462 05.09.12	Itwan Maharaj Ganj Sant Ravidas Nagar Bhadohi
183985	Santosh Kumar Chaturgun Ram	BAMS BHU, Varanasi 2011	57092 04.07.12	Vill.Jamin Harkhota PO Dhanhula Azamgarh
183986	Santosh Kumar Singh Sankatha Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57161 24.07.12	S 26/243K-6, Gautam Vihar Cly Mirapur Basahi Varanasi
183987	Santosh Kumar SinghYadav Shivdhar Singh Yadav	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	57026 18.06.12	Vill.Nasirpur Math PO Kotwa Narayanpur B Alia
183988	Sapna Katiyar Shivram Singh Ktiyar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57815 24.12.12	Katiyar Clinic Fafunp Chouraha Dibiyapur Oreiya

183989	Sapna Singh Nitin Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57923 06.03.13	H No.431, Meghakhedi Sadar Th. Medhakhedi Muzaffar Nagar
183990	Sapna Singh Parihar Jogendra Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57431 31.08.12	Opp.Nagar P Alike Kotbazar, Rath H Amirpur
183991	Sarika Kumari Hemant Kumar Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57747 12.11.12	VPO Thana Gudhni Siwan Bihar
183992	Sarita Devi Krishan Kumar	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57529 12.09.12	Moh Budholiana Rath H Amirpur
183993	Sarita Mourya Indra Jit Mourya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57112 09.07.12	H No.586 VPO Baskhari Ambedkar Nagar
183994	Sarita Singh Gyan Shankar Prasad	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2012	57906 26.02.13	Vill.Jagampur Saswahi Thana Lanka Varanasi
183995	Saroj Kumar Mishra Vijay Kumar Mishra	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57154 20.07.12	Moh Diler Ganj Ghas Mandi Tiraha Shahabad Hardoi
183996	Sarvesh KumarBharti Marchhu Ram	BAMS BHU, Varanasi 2013	57935 12.03.13	VPO Meudi Kala Mau
183997	Sarvjit Singh Ramesh Pal Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57187 30.07.12	BBJE Chouraha Gangaram ki Chakki Shahjahan Pur
183998	Satish Kumar Hemchandra Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57652 01.10.12	Ayurvedic Pharmacy VPO Gothara Bagpat
183999	Satish Kumar Mahesh Pal Kanojia	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57232 13.08.12	VPO Ballapur Unnao
184000	Satish Kumar Siyaram Jaiswal	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57255 14.08.12	Vill.Paroti PO Agaghata Lakhimpur Khiri
184001	Satish Mishra Jagat Narayan Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2013	57990 18.03.13	137A/17 B, 30 Ft.RdRajrup Pur Allahabad
184002	Satvant Singh Ganesh Prasad Singh	BAMS Vikram Univ.,Ujjain 2010	57621 26.09.12	VPO Paigambar Pur Tehsil Nareni Banda
184003	Satya Kumar Kundan Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57349 28.08.12	Vill.Rasulpur PO LumamauTehsil Sandila Hardoi
184004	Satya Prakash Gupta Mishri Lal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	57609 24.09.12	923, Chandpur ka Hata Mutthiganj Allahabad

184005	Satyavrat Singh Deputy Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57428 31.08.12	Vill.Chandra PO Jaimai Shikohabad Ferozabad
184006	Seema Mourya Gama Prasad Mourya	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2012	57612 25.09.12	Ghujsar Nathdham Road Lalganj Pratapgarh
184007	Shachindra Tripathi Surya Kumar Tripathi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57894 22.02.13	Vill.Sahajipur PO Sangrampur Antu Amethi
184008	Shadab Shahzad Hussain Mirza	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57139 16.07.12	Moh Kotla Gangoh Saharanpur
184009	Shahanshah Alam Irshad Ahmad	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57611 25.09.12	Vill.Chamavan PO Phulpur Azamgarh
184010	Shailendra Agaria Rakesh Agaria	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57741 08.11.12	H No.565,Azadpur L Alitpur
184011	Shailendra Kumar Verma Devlal Verma	BAMS BHU, Varanasi 2013	57951 12.03.13	127/324 AJuhi Baradevi Kanpur
184012	Shailendra Kumar Girija Prasad Mourya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57397 30.08.12	69C/1, Tilak Nagar Baghambri Allapur Allahabad
184013	Shailendra Kumar Mishra Narendra Kumar Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	56975 25.05.12	Vill.Duphedia PO ChetpurTehsil Tarbaganj Gonda
184014	Shailendra Kumar Tiwari Krishan Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	57635 27.09.12	Tiwari Sadan Civil Lines Lucknow Road Barabanki
184015	Shailendra Pratap Ajay Pal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57388 29.08.12	VPO Bhainsa Bazar Gorakhpur
184016	Shailendra Tomar Rishipal Tomar	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57109 06.07.12	575, Krishnapuri Muzaffar Nagar
184017	Shailendra Yadav Dharamvir Singh Yadav	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57567 14.09.12	Vill.Rajpur Milk PO Kishanpur Gavdi Thakurdwara Muradabad
184018	Sh Alini Gupta Dilip Kumar Gupta	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57381 29.08.12	C 2/53, Viram Khand Gomati Nagar Lucknow
184019	Sh Alini Mishra Alok Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57319 27.08.12	212, Master Colony Ashiq Maholi Sitapur
184020	Sh Alini Yadav Rama Kant	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57800 17.12.12	T3/4, M Aliwada 3 Gaziabad

184021	Shalu Pandey Subhash Chandra Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57563 14.09.12	VPO Hira Patti Azamgarh
184022	Shalu Sharma Rakesh Kumar Sharma	BAMS MD Univ.,Rohtak 2009	56922 01.05.12	Moh Sadalganj HNo 819 Kasba Nakud PO Khas Saharanpur
184023	Shanti Bhushan Singh Yadav Sudarshan Singh Yadav	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57221 09.08.12	Vill.Brahmain PO Hanumanganj B Alia
184024	Shaqil Ahmad Mohd.Sharif Siddiqui	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57701 11.10.12	VPO Tadiyawan Hardoi
184025	Shaqil Anwar Mohd.Habib	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2009	57668 04.10.12	VPO Deeh CSM Nagar Raibareilly
184026	Sharad Kanojia Ram Snehi Kanojia	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57421 31.08.12	VPO Bagholi Hardoi
184027	Sharad KumarVishwakarma Gaya P. Vishwakarma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57363 28.08.12	Vill.Dejhuri PO Sikrara Jounpur
184028	Shashi Gupta Krishan Sahai Gupta	BAMS BHU, Varanasi 2013	57950 12.03.13	MIG 2, 33, Jamunipur Colony Bhadohi
184029	Shashi Kant Kalp Nath Singh	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2012	57929 11.03.13	Vill.Chaklola PO Sakalpur Kapsethi Varanasi
184030	Shashi Kant Yadav Ram Kawal Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57481 07.09.12	Vill.Babhnikala PO Sarwan Mau
184031	Shashi Priya Singh Shitla Prasad Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57036 21.06.12	Chhitakpur PO Kriyat Chunar PO Hasipur Mirzapur
184032	Shashi Rajput Shivkant Singh Rajput	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57019 07.06.12	229/12, JayantipurPritam Nagar Allahabad
184033	Sheela Sharma Anish Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	56888 11.04.12	Opp. Mangat Ram Hospital Nai Basti Jai Prakash Ward Thana Katni
184034	Shekhar Kumar Pramod Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57372 28.08.12	VPO Oon Shamli
184035	Shelon Rathor Rajiv Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57913 04.03.13	H No.345/6, Mahavir Nagar Ferozabad
184036	Shilpy Arun Kumar	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57152 20.07.12	9, Pikora Shiv GulamA. Pachpedia Tehsil Basti Basti

184037	Shipra Gupta Sourabh Kumar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57370 28.08.12	RK Nursing Home Sarrafaa Bazar Mandir W Ali Farrukhabad
184038	Shishir Kumar Mishra Pushkar Nath Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57287 21.08.12	H No.212, Matvarganj Elaval Azamgarh
184039	Shiv Kumar Kendra Pal Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57446 04.09.12	Vill.Susamai PO Ratika Nagla Hathras
184040	Shiv Kumar Sharma Hari Dutt Sharma	BAMS MD Univ.,Rohtak 2006	57153 20.07.12	G 295, Ram Park Khanpur Morh Loni Gaziabad
184041	Shiv Kumar Sharma Bandhu Lal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	57982 18.03.13	Vill.Bagdi Vyas Nagar PO Dhultipur Abdul Rahimpur Chandoli
184042	Shivam Chourasia Narendra K. Chourasia	BAMS BHU, Varanasi 2013	57945 12.03.13	C 13/3, Aurangabad Varanasi
184043	Shivani Gupta Vaibhav Varshney	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57564 14.09.12	Nr PNBRuden Badayun
184044	Shivani Kanojia Virendra K. Kanojia	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57406 31.08.12	547/45, Jalalpur Cly Rajajipuram Lucknow
184045	Shivani Shukla Amit Shukla	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	56992 01.06.12	4/93, Mahadev Prasad Street Farrukhabad
184046	Shivdip Kumar Mool Chandra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57413 31.08.12	Bajrng Chowk Gandhi Nagar Mahoba
184047	Shivi Saxena Pramod Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57577 18.09.12	138, Prem NagarNr Divya Prakash Press Bareilly
184048	Shobha Anand Anand Kumar	BAMS BHU, Varanasi 2013	57934 12.03.13	73/20A/2A, Stanley Rd Nayapura Allahabad
184049	Shobhna Shrivastava Awdhesh K. Shrivastava	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57602 21.09.12	SS 1, Sec A/280, Sitapur Rd Yojna Aliganj Lucknow
184050	Shraddha Rai Aniruddh Prasad Rai	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57211 07.08.12	Vill.Tejpur PO Rangdeeh Azamgarh
184051	Shraddha Tripathi Ravindra Nath Tripathi	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	57812 21.12.12	Civil Line PO Tetri Bazar Nagar P Alika Siddharth Nagar
184052	Shravan KumarSirohi Randhir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2009	56910 20.04.12	12, Navin Nagar Saharanpur

184053	Shrawan Kumar Mishri Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57434 31.08.12	Vill.Kajuram ka Pura PO Mau Chitrakoot
184054	Shrikant Pandey Rama Pati Pandey	BAMS BHU, Varanasi 2013	57968 12.03.13	74A/23A, Saryu Cly Pura Gaderia Shivkuti, Allahabad
184055	Shrinkhla Mishra Brijesh Kumar Mishra	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57377 28.08.12	10 C, Gunjan Vihar Cly Aalu Mandi Rd Farrukhabad
184056	Shubha Gupta Pawan Kumar Gupta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneshwar 2013	57987 18.03.13	Seth Oil Mill 245, WNo.8, Tilak Nagar MahdogarhJalon
184057	Shubha Verma Mukta Prasad Verma	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57754 21.11.12	Verma Hospital Yamuna Rd Om Nagar Jalon
184058	Shubham Garg Sanjiv Kumar Garg	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57762 29.11.12	Moh 77, Puthi Darwaja Mawana Meerut
184059	Shubham Saxena Rajnish Kumar Saxena	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57783 07.12.12	Farrukhpur Faridpur Bareilly
184060	Shubhi Rastogi Ashwani K. Rastogi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57171 26.07.12	352, Chahshor Kotw Ali Tehsil Meerut Meerut
184061	Shukal Anand KumarShobha Nath Shobha Nath Shukal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57763 29.11.12	Vill.Tannai PO Chhapar Thana Chanda Sultanpur
184062	Shweta Gupta Arun Kumar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57386 29.08.12	283/6,Jagriti vihar Meerut
184063	Shweta Gupta Hari Shankar Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57420 31.08.12	135/1A, CP Mission Com PO und Gw Alior Rd Jhansi
184064	Shweta Ka PO or Ravi Ka PO or	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57404 31.08.12	HNo.280, Sahitya Vidhar Colony Kiratpur Rd Bijnor
184065	Shweta Rani Vinod Kumar Shukla	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57284 21.08.12	3/3347, KapilVihar Nr Vika Saharanpur
184066	Shweta Sahu Ganesh Prasad Sahu	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57238 13.08.12	4/51, Mahamana NagarMahatwala, Madiyahun Jounpur
184067	Shweta Singh Jagdish Prasad Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57027 19.06.12	N 9/40, K 17, SantGopal Nagar PO Bajardeeha Varanasi
184068	Shweta Singh Pramesh Kumar Singh	BAMS SS Univ.,Varanasi 2011	57051 28.06.12	S 15/3-1-K-1, Dhosabad Nadesar Varanasi

184069	Shweta Singh Pankaj Kumar Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57631 27.09.12	89, Devadhia 2 Devatia B Alia
184070	Shweta Singh Arjun Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57448 04.09.12	PO Rajkiya Inter College Deoria
184071	Shweta Singh Sachida Nand Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57953 12.03.13	3/526, Vivek Khand 3 Gomati Nagar Lucknow
184072	Shweta Verma Amit Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56889 13.04.12	111-S, Abdullapur ATehsil Akbarpur Ambedkar Nagar
184073	Shweta Yadav Kishan Lal Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57818 26.12.12	15/297, UHM Hosptal Campus Civil Line Kanpur
184074	Shyam NarayanVerma Bansh Raj Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57486 10.09.12	Vill.Nansa PO Fatehpur Kamsin Faizabad
184075	Shyam Pal Ram Sewak	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57225 13.08.12	Vill.Lalour Gujranpur PO Kishni Barkheda Betapur Pilibhit
184076	Shyam Singh Niranjan Pralhad Singh	BAMS BHU, Varanasi 2010	57107 06.07.12	VPO ChiliBlock Dakor Urai Jalon
184077	Shyamji Dubey Dayashankar Dubey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57173 26.07.12	Vill.Asti PO RayaSant Ravidas Nagar Bhadohi
184078	Siddharth Chobey Nathu Lal Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57253 13.08.12	H No.485, AzadpuraNear Ganjara Palace L Alitpur
184079	Siddharth SinghGautam Radhe Shyam	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 2011	57537 12.09.12	Prince Icecream Factory Padhin Darwaja Oreiya
184080	Siddharth Singh Rudrapal Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2004	57752 21.11.12	S1/49 A-7, Jai Nagar Colony, Gilat Bazar Varanasi
184081	Smita Shamyia Girendra Singh Shamyia	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57677 05.10.12	1/236, New Sainik Cly Nagla Dina Fatehgarh Farrukhabad
184082	Sneha M Kumar Manoj Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57342 28.08.12	S 26/238-H, Mirapur Basahi Shivpur Varanasi
184083	Sonal Singhal Kirti Kumar Singhal	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	56976 25.05.12	H No.882, Alyai Cly Mauranipur Jhansi
184084	Sonia Manish Kumar	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2009	57847 21.01.13	H No.06/2,LaneNo13 Gandhi Cly Muzaffar Nagar

184085	Sonia Verma Jagdish Prasad Verma	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57052 28.06.12	Jaimurty Niwas Nr Rly. Station Sarfuddinpur Azamgarh
184086	Sonica Kaushal Kamlesh Kumar Kaushal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57765 29.11.12	Opp. Tel W Ali G Ali Banda Rd, Attarra Banda
184087	Sonica Singh Ashish Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57591 20.09.12	Ram IG 105, Avas Vikas Parihad Yojna No1 DM Rd Bulandshahar
184088	Sony Bhoop Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57423 31.08.12	Ambikapuri Bank Cly Civil Lines Badayun
184089	Sony Rani Mohd. Shafi Khan	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2010	57362 28.08.12	B 12/62, Gouriganj Bhelupur Varanasi
184090	Sony Yadav Sanjiv Yadav	BAMS Delhi Univ., Delhi 2011	57607 24.09.12	Q No.336, Sadar Bazar New Cantt. Allahabad
184091	Soumya Gupta Ram Gopal Gupta	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57049 28.06.12	2/41, Virat Khand Gomati Nagar Lucknow
184092	Sourabh Gupta Suresh Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57321 27.08.12	296, Chouthi g Ali Nishatganj Lucknow
184093	Sourabh Khare Om Prakash Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	56970 23.05.12	Purani Tehsil Road Kulopahad Mahoba
184094	Sourabh Kumar Singh Asendra Prakash Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57545 12.09.12	VPO Sikror Sehbari Azamgarh
184095	Sourabh Pandey Ramhriday Pandey	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57483 07.09.12	H No.71, Adarshpuram Devk Ali Faizabad
184096	Sourabh Singh Sisodia Bhanu Pratap Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57598 21.09.12	VPO Anthuva Attarra Banda
184097	Sourabh Tiwari Ram Govind Tiwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57272 16.08.12	498 B, Shivaji Nagar Jhansi
184098	Subhash Chand Jagmehar Singh	BAMS MD Univ., Rohtak 2012	57904 26.02.13	VPO Loomb Bagpat
184099	Subhash Kumar Sahni Buttal Sahni	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57383 29.08.12	VPO Bhujna Chandoli
184100	Sudama Prasad Patilal Prasad	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57915 05.03.13	Vill. Bhairwa PO Ruby Mayadaudpur Chhapra Bihar



184101	Sudesh Kumar Jai Prakash Paswan	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2010	57506 11.09.12	Vill.Amarva BuzurgTamkuhi Raj Kushi Nagar
184102	Sudhanshu Shekhar Dwivedi Arun Prakash Dwivedi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57186 30.07.12	Vill.Ahar Vihar PO Atheha Pratapgarh
184103	Sudhanshu Shrivastava Hari S. Shrivastava	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57908 27.02.13	Bariaghat, Wasliganj Mirzapur
184104	Sudhir Kumar Chhotelal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56893 16.04.12	Mundera Bazar Deeh Sthan Chori Chora Gorakhpur
184105	Sudhir Kumar Jain Padam Chandra Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57117 10.07.12	480, LuxmipuraSagar Road L Alitpur
184106	Sudhir Kumar Verma Ram Khelawan Verma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	56972 24.05.12	Vill.Kemasur PO Tikar Thana Fardhan Lakhimpur Khiri
184107	Sujata Singh Bijendra Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2011	57777 04.12.12	NA TyagiNagar Sevla Jat Agra
184108	Sultan Rani Tejvir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57576 18.09.12	782 K, Murari Nagar 4 Siddheshwar Rd, Khurja Bulandshahar
184109	Sumit Goyal Arvind Goyal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57888 15.02.13	H No.32, Bhagwati Colony Behat Rd Saharanpur
184110	Sumit Kumar Devendra Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57803 17.12.12	VPO TibdiTehsil Dhampur Bijnor
184111	Sumit Kumar Rajpal Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57716 15.10.12	VPO Naviganj Tehsil Dataganj Badayun
184112	Sumit Kumar Sharma Raj Kumar Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56939 09.05.12	9/5103, G Ali No.1 Kaushikpuri Purvi Delhi
184113	Sumit Rajput Puran Lal Rajput	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57013 07.06.12	Dr.PL Rajput 115 F Govind Nagar Mathura
184114	Sunil Kumar Balvir Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57427 31.08.12	VPO Jalpur Bijnor
184115	Sunil Kumar Mishra Dinesh Chandra Mishra	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	56974 25.05.12	Ashtbhuja Nagar Pratapgarh
184116	Sunil Kumar Singh Surya Narayan Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2009	57219 09.08.12	Z 35A, Sec 12 Noida, Sec 24 Gaziabad

184117	Sunil Kumar Singh Omkar Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57676 05.10.12	Moh Mahajanan Badi Bakhri, Jalalabad Shahjahan Pur
184118	Sunil Kumar Verma Ram Charitra Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57436 03.09.12	W1369 Avas Vikas Colony Gonda
184119	Sunil Kumar Verma Satya Prakash Verma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57780 07.12.12	VPO Kharwahia No.1 Lakhimpur Khiri
184120	Sunishtha Singh Sourabh Suman Sharel	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57169 25.07.12	22 Rly.Colony, Jal Nigam Rd, Balaganj Lucknow
184121	Sunita Varun Tolan Prasad Varun	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57464 06.09.12	285K/438, Sanjay Nagar Eishbagh Lucknow
184122	Sunita Verma Punni Lal Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57407 31.08.12	Deendayal Colony Bilram Gate Kasganj
184123	Sunita Vishwakarma Munshiram Vishwakarma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57649 01.10.12	Vill.Badholi PO Fatehganj Jounpur
184124	Suphal Rai Shridam Chandra Rai	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2006	57366 28.08.12	28, Vishnu Colony Shahganj Agra
184125	Surendra Kumar Ramdarash	BAMS BHU, Varanasi 2013	57981 15.03.13	Vill.Kaitholi PO Chaklal Chand Azamgarh
184126	Surendra KumarPatwa Ramakant Patwa	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	57837 11.01.13	Mohalla Garulpar Near Rly. Line Deoria
184127	Suresh Chandra Mourya Ghinhu Ram	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2009	57198 01.08.12	Vill.Ausanpur PO Bhati Tehsil Handia Allahabad
184128	Suresh Kumar Verma Shiv Shankar Verma	BAMS Utkal Univ., Bhuvaneshwar 2013	57984 18.03.13	Vill.Lakhi PO Lakhapur Cholapur Varanasi
184129	Surya Bhan Singh Virendra Prasad Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57098 05.07.12	Vill.Ghamahapur PO Gangapur Varanasi
184130	Surya Prakash Dharam Prakash Arya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57594 20.09.12	Arya Sadatt Asavra Rd Palwal Haryana
184131	Surya Pratap Rajvir Singh	BAMS MD Univ.,Rohtak 2005	56993 01.06.12	Vill.RamnagarTehsil Mawana Meerut
184132	Surya Vir PratapSingh Suresh Babu Chouhan	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57018 07.06.12	H No.1/139, AvasVikas Colony Farrukhabad

184133	Sushil Kumar Bechan Prasad	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57060 28.06.12	H No.268, B Rustampur Buddh Nagar PO Shivpuri Gorakhpur
184134	Sushil Kumar Jaiswal Ramdas Jaiswal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57510 11.09.12	VPO Chandpur Bazar Mehmoodabad Sitapur
184135	Sushma Singh Virpal Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57574 18.09.12	B 195 Phase 1, Trans Yamuna Colony, Rambagh Agra
184136	Sushrut Yadav Keshav Singh Yadav	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57878 07.02.13	Naya Sarrafa Bazar Karhal Mainpuri
184137	Suvir Singh Shishodia Virendra Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	57932 11.03.13	10A, Model Town East Behind N Cinema Hall Gaziabad
184138	Suvrat Kumar Vishwas Pankaj Kumar Vishwas	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2013	57986 13.03.13	Ward No.5 Thana & Tehsil Handia Allahabad
184139	Swapnil Kaithvas Pramod Kumar Kaithvas	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57095 04.07.12	568/4 Chh-7 Kailashpuri A Alambagh Lucknow
184140	Swaran Kant Gupta Subhash Chandra Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57511 11.09.12	574P Parvati Nagar Shahpur PO Gitavatika Gorakhpur
184141	Swatantra Kumar Mourya Suresh Kumar Mourya	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57473 06.09.12	VPO Lohta Panchsheel Nagar Varanasi
184142	Swati Shukla Suresh Kumar Shukla	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2011	57170 25.07.12	A 29, BHELKhailar Jhansi
184143	Swati Soni Luxmi Chandra Soni	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57493 10.09.12	H No.182 Radha Kun Tehsil Gonda Gonda
184144	Syed Rashid Nasim Muhammad Nasimuddin	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	57045 27.06.12	Muhalla Lodhipur Kasba Jamania W No.8 Mirzapur
184145	Tanu Chouhan Satyavrit Singh	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57338 27.08.12	H No.318 B 14 Nai Basti Bijnor
184146	Tanu Mudgal Kamal Kant Mudgal	BAMS MD Univ., Rohtak 2010	57503 10.09.12	345, Gita Marg Rly. Rd Shrinagar, Hapur Panchsheel Nagar
184147	Tanya Lal Krishan Dev Jindal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57743 09.11.12	Jindal House, Bypass Mandi Dhanora Amroha Jyotiba Phule Ngr
184148	Tarannum Jahan Iqbal Hussain	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57204 06.08.12	1K Baheri 1, Tehsil B Alia B Alia

184149	Tarun Kumar L Alit Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57980 15.03.13	B 157, Pappan Kalan, Sec 1, Dwarka New Delhi
184150	Teshu Hudda Vinay Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56883 10.04.12	Moh Pachhala Paschim Budhana Muzaffar Nagar
184151	Tripti Rai Vidhan Chandra Rai	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57616 25.09.12	Vill.Muradpur PO Banda Shahjahan Pur
184152	Tulika Gupta Sandesh Kumar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57764 29.11.12	C/o Shri Satya Prakash Dumaria Ganj Siddharth Nagar
184153	Uma Verma Chandra S. Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57282 21.08.12	529/06, Shivaji Nagar Kanpur Road Jhansi
184154	Umang Arya Suresh Chandra Arya	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune(Deemed Univ.) 2010	56977 25.05.12	H No.201, Nai Bazar PO Bharwari Koshambi
184155	Umesh ChandraGupta Ramsurat Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57072 29.06.12	Vill.Usuri Sargha Chaktatar PO Bahadurpur Madhuvan Mau
184156	Umesh JagannathMishra Suresh Chandra Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneshwar 2009	57660 03.10.12	Vill.Niwasi JamundhanaKhurd PO Dhatwar, L Alitpur
184157	Umesh KumarShrivastava Shyam Babu	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57316 24.08.12	Bankhaiya Distt Fatehgarh Farrukhabad
184158	Umme Salma Nesar Ahmad Siddiqui	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57697 08.10.12	B 676/7, GTB NagarKareli Allahabad
184159	Upendra KumarNiranjan Vijay Singh Niranjan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57758 22.11.12	Niranjan TeacherVirguan Wale VPO Paniara,Jalon
184160	Urmilesh Verma Lal Chandra	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57009 06.06.12	B 38/2674, FirstTulsipur Mehmoor Ganj Varanasi
184161	Urvi Singh Jagpal Singh	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2012	57850 23.01.13	A-1, Halvasia Aparts Enclave, Indra Nagar Lucknow
184162	Usha Chouhan Nagendra Chouhan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	57184 30.07.12	VPO Kasara ThanaKopaganj Gazipur
184163	Vaibhav Dixit Prabha S. Dixit	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57182 30.07.12	89A, Ram VatikaColony Bareilly
184164	Varsha Shukla Shailendra K. Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57468 06.09.12	145B/15A, Chandpur Salori, Teliyarganj Allahabad

184165	Varsha Singh Tribhuvan N. Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57158 23.07.12	CK 52/22 Raja Darwaja Chowk Varanasi
184166	Varun KumarShrivastava Virendra Lal Shrivastava	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56996 01.06.12	VPO Pipra Vaghel Uttar Patti Deoria
184167	Varun Kumar Choubey Satish Kumar Choubey	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2011	57900 25.02.13	B 656, Indira NagarAvas Vikas Colony Raibareilly
184168	Varun Kumar Pandey Radhey Mohan Pandey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57614 25.09.12	H No.575/1, Behind Suraj Wakil Near Idea Tower Sultanpur
184169	Vashiuddin Shahabuddin	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	57843 17.01.13	Vill.Piprahwa PO Pachgava Siddharth Nagar
184170	Ved Prakash Sohan Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57289 21.08.12	150, Biharipura Premnagar Jhansi
184171	Ved Prakash Sharma Subachchan Ram	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57296 22.08.12	Vill.Vabhnoli PO Hansrajpur Gazipur
184172	Ved Prakash Singh Om Prakash Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2002	57047 28.06.12	116, Avas Vikas Colony Lakhimpur Khiri
184173	Ved Prakash Yadav Ram Baran Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57623 26.09.12	Vill.Guwawan Jamalpur PO Dhvrua M Alipur Ambedkar Nagar
184174	Ved Rattan Pandey Prem Bhushan Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1999	57706 12.10.12	H No.69VPO Janadi B Alia
184175	Vibha Kumari Shyam Sunder Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57673 05.10.12	Vill.Ramnagar PO & Thana Lar Deoria
184176	Vibha Patel Rajesh Kumar Patel	BAMS BHU, Varanasi 2013	57954 12.03.13	VPO Retipur Varanasi
184177	Vibha Rani Ratna Rajnish Kasodhan	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57785 10.12.12	Pankaj Pharma Nr Creative Convent Sarojini Nagar Lucknow
184178	Vibha Singh Brahm Pal Singh	BAMS MD Univ.,Rohtak 2010	57106 05.07.12	G 85, Ganganagar Mawana Road Meerut
184179	Vibhu BhushanMaheshwari Rakesh K.Maheshwari	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2009	56909 20.04.12	32, Mohalla BhavanNajibabad Bijnor
184180	Vidhu Gupta Ashish Gupta	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2009	57859 29.01.12	288/5A, Anandpuri Rly.Road Meerut

184181	Vidhya Sagar Ram Kanhaiya Ram	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57440 03.09.12	Vill. Akolhi, PO Vyavhara Lalganj Azamgarh
184182	Vidhyut Kumar Rai Vijay Kumar Rai	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57690 08.10.12	208, Kanoon Goyan PO & Thana Bahedi Bareilly
184183	Vijay Bahadur Hari Krishan Yadav	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	56940 09.05.12	Alanagri Mohiuddinpur PO Saraimamrej Allahabad
184184	Vijay Kumar Sompal Singh	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57740 08.11.12	Vill. Tigri PO Bhopa Muzaffar Nagar
184185	Vijay Kumar Ram Sharan	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2012	57892 20.02.13	17, J Rail Bazar Fatehpur
184186	Vijay Kumar Gupta Raj Narayan Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57835 10.01.13	Vill. Gurgi PO Ahugi Kala V KH H Alia, Lalganj Mirzapur
184187	Vijay Kumar Mourya Indra Jit Mourya	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57641 28.09.12	VPO Baskhari Ambedkar Nagar
184188	Vijay Kumar Sharma Rajendra Prasad Sharma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2008	57599 21.09.12	2/55, Ram Nagar Cly Sanjay Palace Agra
184189	Vijay Kumar Shukla Brijmohan Shukla	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2010	56926 02.05.12	Near Pashu Chikitsalaya Dakshin Darwaza Basti
184190	Vijay Kumar Singh Radhey Shyam Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57008 06.06.12	VPO Korota Varanasi
184191	Vijay Kumar Sinha Adhir Kumar Sinha	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	56998 01.06.12	34, Jakhpura A Jakhpura Bareilly
184192	Vijay Prakash Hariram Verma	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2005	57541 12.09.12	116/42, Shivpuri Chhapeda Thana, Kalyanpur Kanpur
184193	Vijay Prakash Dubey Bhagwat Prasad Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2011	57277 16.08.12	2504/6A, Shivpuri Nirala Nagar Sultanpur
184194	Vijay Prakash Sharma Jagdev Prasad Sharma	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2010	57301 22.08.12	H No. 305 Subhash Nagar Hardoi
184195	Vijay Pratap Singh Ramadhar Singh	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57057 28.06.12	122/1A/63A/IC Stanley Rd, Beli CLY Allahabad
184196	Vijendra Mahavir Devdhar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57100 05.07.12	VPO Surajpur Thana Surajpur Gautam Buddha Ngr

184197	Vijit Kumar Shoraj Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57080 02.07.12	VPO BijrolBarout Bagpat
184198	Vikas Baranwal Krishan B. Baranwal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57350 28.08.12	VPO Goramafi Pratapgarh
184199	Vikas Bhardwaj Ramphal Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57470 06.09.12	688 A, New ShivpuriKhurja Bulandshahar
184200	Vikas Jaiswal Ramakant Jaiswal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57667 04.10.12	Vill.Rajapur PO Bariyal Jounpur
184201	Vikas Kumar Om Prakash	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57532 12.09.12	Nr Kukda Subzi MandiPatel Rd,Gandhi Ngr Muzaffar Nagar
184202	Vikas Kumar Singh Virendra Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2013	57924 06.03.13	E 1412Rajajipuram Lucknow
184203	Vikas Mishra Bhairon Prasad Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57402 31.08.12	Baldauganj, Gandhi GanjAllahabad Rd, Karvi Chitrakoot
184204	Vikas Shrivastava Pramod K. Shrivastava	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	57273 16.08.12	Mohalla Purekhan PO Rudoli Faizabad
184205	Vikas Singh Jagdish Prasad Singh	BAMS BHU, Varanasi 2013	57977 12.03.13	HNo413 KhushHal NagarSec A, Badalapur Varanasi
184206	Vikash Chandra Chhavi Nath Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57374 28.08.12	Vill.Nagla Gulab PO st Nib Karori Farrukhabad
184207	Vikram Pratap Singh Sunil Kumar Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57603 21.09.12	VPO RouraTehs Sadar Shahjahan Pur
184208	Vikram Tyagi Naresh Kumar Tyagi	BAMS BFUH Sciences, Faridkot 2010	57157 23.07.12	72/58,StoreKambalWala Bagh Muzaffar Nagar
184209	Vimal Kumar Mishra Sushil Kumar Mishra	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57147 18.07.12	H No.309, Moh NarottamNagear PO Sidholi Sitapur
184210	Vinay Dubey Ramkrishan Dubey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	57028 19.06.12	Vill.Sehuda PO Chakarwan Thana Madanpur Deoria
184211	Vinay Kumar RP Seth	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57499 10.09.12	CK 65/28A-1,Badi Piari Varanasi
184212	Vinay Kumar Gupta Amar Nath Gupta	BAMS BHU, Varanasi 2013	57963 12.03.12	Vill.Yousufpur BazarBatasa Mandi PO Moh.bad Gazipur

184213	Vinay Kumar Shukla Ram A. Var Shukla	BAMS CSM Univ., Kanpur 2007	57554 02.07.12	73/8, Lok Man Ganj Lucknow
184214	Vinay Kumar Singh Luxman Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	57799 17.12.12	Secunderapura Rath H Amirpur
184215	Vinay Kumar Verma Bajrang Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2001	57215 08.08.12	VPO Shahabpur Barabanki
184216	Vinay Shankar Chhotelal	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57125 13.07.12	Moh Hata Buzurg Thana Gagaha PO Shivpur Gorakhpur
184217	Vineet Kumar Singh Bhanu Pratap Singh	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57416 31.08.12	VPO Khajur Gaon Gazipur
184218	Vineet Yadav Dhanpal Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57540 12.09.12	313, Adarsh Nagar PO Garmukteshwar Hapur
184219	Vinit Kumar Raj Kumar	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57325 27.08.12	165, Defence State Phase 1, Vundukatra Agra
184220	Vinit Kumar Dubey Gangadhar Dubey	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2009	57773 03.12.12	VPO Jigna Dham Thana Itwan Siddharth Nagar
184221	Vinit Kumar Dwivedi Ram Asre Dwivedi	BAMS Bharti Vidyapeeth, Pune (Deemed Univ.) 2013	57875 02.07.12	Subhash Nagar Hardoi
184222	Vinod Kumar Rajendra Singh	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57760 23.11.12	Sakipur Greater Noida Gautam Buddh Ngr
184223	Vinod Kumar Gopi Singh Pachouri	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57508 11.09.12	1/2128, Vikas Nagar New Eta Chungi, GT Rd Aligarh
184224	Vinod Kumar Kunwar Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57429 31.08.12	VPO Ayodhya Purwa Badagaon Bhikhi Kanpur
184225	Vinod Kumar Hiralal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56905 18.04.12	VPO Padmai Tehsil Nareni Banda
184226	Vinod Kumar Munni Lal	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57058 28.06.12	Vill. Dakshinpatti PO Baijapur, Rampur Jounpur
184227	Vinod Kumar Subhash Chand	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57242 12.08.12	Vill. Gurmahan PO Maryadpur Tehsil Madhuvan Mau
184228	Vinod Kumar Rambachan Prasad	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57003 05.06.12	H No. 72, Vill. Bhadsar PO Tikampar Deoria



184229	Vinod Kumar Harikrishan P. Gupta	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57082 02.07.12	Sumahi Bujurg Mehadia PO Pipra Mushtkil Agarwan Kushi Nagar
184230	Vinod Kumar Ram Karan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57305 23.08.12	Vill.Usaraha Zirvaiya PO Karmisipur Jalalpur Ambedkar Nagar
184231	Vinod Kumar Singh Vidya Sagar Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2006	57917 05.03.13	Vill.Teghra PO Narwan, Chhapra Saran Bihar
184232	Vinod Kumar Tiwari Kalp Nath Tiwari	BAMS SS Univ., Varanasi 2011	57054 28.06.12	Vill.Parvatpur Suleman PO Lakhipur Kapsa Teh Patti Pratapgarh
184233	Vipin Kumar Rajababu Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57306 23.08.12	Dadua BazarBargaon Gonda
184234	Vipin Kumar Gupta Rajesh Gupta	BAMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	56962 21.05.12	VPO Lalganj Azamgarh
184235	Vipul Kumar Muninath	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	57629 27.09.12	ShrirampuramMohadipur Gorakhpur
184236	Virendra Kumar Radhey Shyam	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 2012	57992 19.03.13	MC Colony H No.13/ 104Sirsa Haryana
184237	Virendra Kumar Jha Dharam Narayan Jha	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 1994	57804 18.12.12	R 7, E 73Rajnagar Gaziabad
184238	Viresh Chandra Verma Radhey Shyam Verma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57268 16.08.12	Vill.Almaheu PO RamMandaiTehsil Fatehpur Barabanki
184239	Vishal Shrivastava Virendra K. Shrivastava	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57422 31.08.12	H No.25, Hydil ColonyMohaddipur Gorakhpur
184240	Vishal Upadhyaya Gyanendra K.Upadhyaya	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57700 11.10.12	883/A, Ashraf TolaVishnu Puri Hardoi
184241	Vishwajit Rai Vidhan Chandra Rai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57382 29.08.12	Ward No.24, Malviya NagarNoutanwan Maharaj Ganj
184242	Vishwakarma Sanjay Kumar Mahavir Mahavir Vishwakarma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57364 28.08.12	SB, Vishwakarma R. No.2Durga Nagar Jogeshwar East Mumbai
184243	Vishwas Kumar Rai Ran Vijay Prasad Rai	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2009	57730 31.10.12	B 32/32/139, Saket NagarLanka, Sankat Mochan Varanasi
184244	Vivek Kumar Rakesh Chandra Pal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57586 19.09.12	Jan Kalyan SwasthyaKendra Tirwa Rd Bela Oreiya

184245	Vivek Kumar Shrivastava Virendra K. Shrivastava	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57524 11.09.12	Civil Line H No.1014 Gonda
184246	Vivek Kumar Gupta Vikas Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2012	57836 10.01.13	H No.27, Purvi Garhi Khutar Shahjahan Pur
184247	Vivek Pradhan Yogendra K. Pradhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57573 18.09.12	C/o Shri JB Dalela, C 1059 Rajajipuram Lucknow
184248	Vivek Singh Chouhan Brijraj Singh Chouhan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	56918 26.04.12	481, Khanjan Purwa Dharamshala Road Hardoi
184249	Vivek Tyagi VD Tyagi	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2011	57717 17.10.12	B 8, Brijesh Nagar 2 Block B&E 36 Parishad Saharanpur
184250	Viveka Nand Singh Ranjit Singh	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	57083 02.07.12	H No.221, Avs Vikas Colony Basti
184251	Vjayanand Amrit Lal	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57244 13.08.12	Vill. Padav PO Gaddi Kachhwa Mirzapur
184252	Waris Ali Khurshid Ahmad	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	57704 11.10.12	537-BH, Bharat Nagar Mohibulla Pur Sitapur Rd Lucknow
184253	Yadav Lalu Prasad Gouri Shankar Yadav	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57365 28.08.12	7/16, Tiwari Chowk, Rasvendra Mandir, East Mumbai
184254	Yadav Neelam Kanhaiya Yadav	BAMS MUHS, Nashik 2009	57559 14.09.12	184, Hetimpur Choudhry Muhammad Azmal 2 Gazipur
184255	Yadav Vijay Kumar Siyaram Siyaram Yadav	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	57180 27.07.12	Vill. Belon Kalan Baburigaon PO Barsethi Tehsil Madiyahu Jounpur
184256	Yashwant Kumar Suryanath	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	56987 30.05.12	Vill. Pidari PO & Thana Ramkola Kushi Nagar
184257	Yogesh Kumar Chourasia K Alicharan Chourasia	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57354 28.08.12	VPO Pipra Chandrabhan Deoria
184258	Yogesh Singh Kushwaha Hanuman S. Kushwaha	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57294 22.08.12	VPO Bourwan Gazipur
184259	Yogeshwar Prasad Chandaria Mahavir P. Chandaria	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57414 31.08.12	Muhalla Holipura Thana Chirgaon Jhansi
184260	Zahir Ahmed Aziz Ahmed	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2010	57566 14.09.12	Mohalla Islam Nagar Bahedi Bareilly

184261	Zarin Khanam Meraz Ahmed Khan	BAMS CSM Univ., Kanpur 2010	57558 14.09.12	263, Mustafa ManzilBiharipur Karolan Bareilly
--------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--

**CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICI  
UTTAR PRADESH  
PART - II - UNANI**

<b>CR. NO.</b>	<b>NAME &amp; FATHER'S NAME</b>	<b>QU ALIFICATION AWARDDING BODY &amp; YEAR OF AWARD</b>	<b>REGN. NO. &amp; DATE</b>	<b>ADDRESS</b>
25358	Nida Hassan Syed Ali Azam Zafri	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15572 31.12.12	Betul Mustafa Nr Eza HospitalSultan Bahadur Rd Kazman Lucknow
25359	Abdul Azim Ali Hassan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15284 18.09.12	Vill.Romandai PO Champapur Siddharth Ngr
25360	Abdul Hafiz Abdul Wahab	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15052 05.06.12	Vill.Gulwa Gouri PO Bindwal Azamgarh
25361	Abdul Hafiz Khanzada Mohd.Laik Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15558 24.12.12	161, Beni Choudhry Pilibhit
25362	Abdul H Alim Ansari Abdul Q. Ansari	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15110 09.07.12	Vill.Bamanpura PO Mahui Thana Gorakhpur
25363	Abdul Haque Ramsul Haque	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15196 29.08.12	H No.78, MohMufti Sarai Chandpur Bijnor
25364	Abdul Kh Aliq Shaqil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15537 12.12.12	Vill.Rajpur PO Simbhav Ali Garh Mukteshwar Hapur
25365	Abdul Kh Aliq Mohd.Abdullah	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15051 05.06.12	VPO Banskhor KalanTeh Rupdholi Bazar Basti
25366	Abdul Mannan Abdul Hai	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2009	15278 14.09.12	Al Hamid HospitalWNo.9 Kasba Alapur Badayun
25367	Abdul Mazid Abdul Wahab	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15520 04.12.12	Moh Mousam KhaniBehroda Rd Kasba Kithor Meerut
25368	Abdul Naim Abdul Mazid Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15332 24.09.12	2 ,55 H Central PO werHouse Rly.Cly, Alambagh Lucknow

25369	Abdul Rahim Mohd.Nasim Ehsan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	14993 14.05.12	Muhalla Nasim EhsanSikriganj Gorakhpur
25370	Abdul Rehman Muqarram Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15423 11.10.12	H No.605,DotaiGarh Mukteshwar Hapur
25371	Abdul Salam Khan Chhittan Mohd.Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	14987 09.05.12	Vill.Gulriha Ghat PO Gudra MohTulsipur Balrampur
25372	Abdul Wahid Mohd.Aslam	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15146 25.07.12	HNo212,Moh ChagasChirag Ali Badshah G Ali Chandpur Bijnor
25373	Abdur Rehman Ansar Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15280 14.09.12	VPO Nandaon TehNizamabad Azamgarh
25374	Abdur Rehman Mohd.Aslam	BUMS The WBUH Sciences,Kolkata 2011	15593 29.01.13	VPO KotilaThana Rani ki Sarai Azamgarh
25375	Abdur Rehman Ansari Abdul Rab	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15430 12.10.12	Vill.Pipri Kolhui PO Dari Choura Th. Utrola Balrampur
25376	Abrar Abdul Haq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15228 07.09.12	Vill.Bavupatti PO BanzariaBazar Th Tarkulwa Deoria
25377	Abrar AhmadAnsari Khurshid Ahmad A.	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15639 05.03.13	H No.56Jivanpura Prem Ngr Jhansi
25378	Abu Fahad Hazi Mohd.Farooq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15211 04.09.12	Vill.Chhichhori PO ChhihiBilaria Ganj Azamgarh
25379	Abu Osama Rais Alam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15053 07.06.12	Takia Hakim Jan Ali Shah Dharnidhar Pur Jounpur
25380	Abu Shahid Abu Saleh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15321 13.07.12	C/o Shaqil Medical StoreBeenapara Saraimeer Azamgarh
25381	Abu Shagma Abdul Wahab	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15440 17.10.12	VPO Bazaha BazarTehsil Shohrat Garh Siddharth Ngr
25382	Abu Umar Zuber Ahmad	BUMS MUHS, Nashik 2011	15512 04.12.12	UsarhataShahganj Jounpur
25383	Abul Hassan Zulfeqar Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15082 22.06.12	Vill.Devli Kheda Urf JainpurSardhana PO MainputhiMeerut
25384	Abul Wahid Shahe Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15542 17.12.12	240, Sharaftulla 2Gulavathi Bulandshahar

25385	Abusahma Salahuddin Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15244 11.09.12	VPO Kabulpur ThanaJalalpur Jounpur
25386	Abuzaid Siddiqui Badruddin Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15212 04.09.12	Vill.Saidullahpur PO Kohda Th. Pawai Azamgarh
25387	Adiba Kamal Kamal Akhtar Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15269 13.09.12	Kucha Bhitari Raibareilly
25388	Adnan Wasi Hazi Wasi Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15371 01.10.12	Chhota ChourahaSandila Hardoi
25389	Afaq Muhammad Muhammad Isahaq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15594 29.01.13	Vill.Sihivrajpur PO Newaa Dharamdas Pur NizamabadAzamgarh
25390	Afsar Raza Muhammad Hussain	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	14957 27.04.12	VPO W Alidpur MohBichlapura Block Muhamma dabad Gohna Mau
25391	Aftab Alam Mushtaq H. Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15509 30.11.12	Moh Kh Alil GarbiNr Badi Maszid Shahjahan Pur
25392	Aftab Alam Nasimuddin Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15123 13.07.12	VPO Mande Zafarpur Azamgarh
25393	Aftab Khan Muzaffar Hussain	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15493 22.11.12	VPO UholiThana Safdarganj Barabanki
25394	Afzal Ahmad Mohd.Raza	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15279 14.09.12	H No.610 ShaqilMiyan Warsi ki G Ali Shahjahan Pur
25395	Afzal Ahmad Khan K Alim Raza Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15017 24.05.12	Ngr Panchayat Gola BazarWNo.6, Dak Bunglow Gorakhpur
25396	Afzal Hashmi Aftab Hashmi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15230 10.09.12	442/89, Manuju TondonDhaolVill Thakurganj Lucknow
25397	Ahma Zamal Hazi Abdul Hamid	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2010	15153 31.07.12	HNo39, Moh Imambada Ferozabad
25398	Ahmad Ali Khan Helaluddin Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	14989 11.05.12	VPO Jaddupipra PO lice Station Kotw Ali Maharaj Ganj
25399	Ajmal Khan Mohd.Irfan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	14966 01.05.12	Moh KhedaHaldor Bijnor
25400	Akhlaq Ahmad S Amir Ahmad	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2001	14927 11.04.12	Vill.BehrampurMorna Meerut

25401	Akhlaq Khan Abdul Razzack Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14974 02.05.12	Muh Kiledaran Aliganj Eta
25402	Alam Ara Abdul Wahid	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15239 10.09.12	VPO BhavrajotBahaduri Bazar Amwa Buzurg Maharaj Ganj
25403	Alam Geer Abdul Qabir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15057 07.06.12	Gandara BaghKaisar Ganj Behraich
25404	Alamgir Ibban Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2007	14956 27.04.12	Vill.Ghundli PO AzampurTehsil Chandpura Bijnor
25405	Ali Mohammad W Ali Mohammad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15545 17.12.12	H No.149VPO Sathin Sultanpur
25406	Ali Osama Khan Irshad Ali Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15268 13.09.12	H No.624D /102,Chinhat Lucknow
25407	Alimullah Hidaytullah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15232 10.09.12	Vill.Kolhai Garib PO Bangavan, Th. Khodare Gonda
25408	Aliya Yasin Muhammad Adnan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15043 30.05.12	Hamja Colony Main RdNew Sir Syed Nagar Dhorra Mafi Aligarh
25409	Alshariq Khan Maqbool Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15469 01.11.12	Mehandi Apartmet5, Hamid Rd Wazirganj Lucknow
25410	Ambrin Anwar Ehsan Anwar Ehsan	BUMS MUHS, Nashik 2009	15216 05.09.12	Moh Choudhry KasbaSahaswan Badayun
25411	Amrin Bano Mohd.Ashraf Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15323 21.09.12	34, BN RoadLal Bagh Lucknow
25412	Amrin Shaqil Khan Mohd.Shaqil Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15181 27.08.12	972, Khairabad Sultanpur
25413	Anam Zahid Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14341 19.04.12	HNo.520,Behind AligarhModern School Doharramafi Aligarh
25414	Anamika IshaniUpadhyaya G. Nath Upadhyaya	BUMS Univ.of Calcutta, Kolkata 2007	15431 12.10.12	H No.112Dudhela 2 B Alia
25415	Anayat Abbas Intizar Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15150 26.07.12	450,NanakNagarNapierRd Cly Thakurganj Lucknow
25416	Anis Ahmad Rashid Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 1997	15291 18.09.12	Siddiqui Medical StoreSarai Rahman Aligarh

25417	Anis Ahmad Sagir Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2011	15099 02.07.12	Moh Mangal Shah ka Bazar Kasba Richha Bahedi Bareilly
25418	Anjum Shabana Muqim Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15249 12.09.12	73, Bhilai Khurd Teh Tiloi Raibareilly
25419	Anwar Ahmad Kamal Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15300 19.09.12	H No.536K/295 Makkaganj Khadra Lucknow
25420	Anwar Hassan Amir Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15118 13.07.12	Moh Mohammadi Ganj Kasba Jalalabad Prabuddh Nagar
25421	Anzum Ali Qutubullah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15108 06.07.12	Vill.Parsa PO Khuniyav Siddharth Ngr
25422	Anzum Ara Shaqib Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15516 04.12.12	405, Roshan Manzil Gulami ki Pura Sadar Kotw Ali Azamgarh
25423	Arif Khan Mohd.Idris Khan	BUMS The WBUH Sciences,Kolkata 2012	15590 23.01.13	VPO & Th.Parasapur Gonda
25424	Ariz Zahin Imtiaz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15352 26.09.12	Muhalla Barbahana Nawab Cly Gazipur
25425	Arshad Haroon Haroon Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15294 18.09.12	Plot No.18 Ashraf Nagar Mohan Bus Stand Rajajipuram Lucknow
25426	Arshad Zamil Zamil Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15026 29.05.12	13A, Azad NagarNr Mani Chouraha Purana Sitapur
25427	Arshad Ziya Sagir Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15531 11.12.12	Vill.Jungal Bahadur Ali Sheikhpurwa, PO Mohripur Gorakhpur
25428	Arshi Atahar Atahar Sagir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15654 19.03.13	Vill.Abulm Ali Deoband Saharanpur
25429	Asad Ahmad Ansari Mohd.Ahmad Ansari	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15604 11.02.13	149A, Sikri Gate Ansar Manzil Chandousi Muradabad
25430	Asahdullah Anis Mohd.Anis	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1995	15364 27.09.12	VPO Ubhav B Alia
25431	Asha Yadav Om Prakash Yadav	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	14940 18.04.12	Ashalok Hospital 010/4, Ganj Sarnath Varanasi
25432	Ashfaq Ahmad Nazir Ahmad	BUMS Exam.Body, AUSM, Delhi 1980	15155 01.08.12	243, Khatta Rd Budhana Gate Meerut

25433	Ashfaq Ahmad Mushtaq A. Ansari	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15186 28.08.12	Moh Patel Ngr Ghosiana Near PO wer House Gonda
25434	Ashraf Abbas Akhtar Abbas	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2011	15618 13.02.13	Moh Mullana Nr Zama Maszid Amroha Muradabad
25435	Asia Khanam Riyazat Ali Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15549 19.12.12	125, Gola Ganj Khan Sahab W Ali G Ali Chandousi Azamgarh
25436	Asif Nadim Zamal Akhtar	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2006	15651 15.03.13	C/o Dr.Abdus Salam Khwazagi Tola, Subzi Mandi Jounpur
25437	Asma Abid Abid Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14980 03.05.12	4/570, 34 Noor ManzilCom PO und Dodhpur Civil Lines Aligarh
25438	Asma Khatoon Farjand Ali Rizvi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15544 17.12.12	444/517, Ali Colony Barafkhana Thakurganj Lucknow
25439	Asma Tabassum Ahmad Tanzim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15470 01.11.12	B 292, Avas Vikas Colony Suryakund Colony Gorakhpur
25440	Ata Tarannum Meraz Ahmad	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2012	15598 31.01.13	D 67, GTB NagarKareli Allahabad
25441	Ata-ur-Rehman Zuber Ahmad	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2008	15126 16.07.12	Vill.Nakthar PO Shohrat Garh Siddharth Ngr
25442	Atiq Ahmad Babu Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15317 20.09.12	H No.35, BhullanpurVill. Laharpur Th. Laharpur Sitapur
25443	Atiq Ahmad Raees Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15348 25.09.12	Moh Whiteganj Jamshed ka Hatha Nr Meat Market Hardoi
25444	Atiqul Islam Z Amirul Islam	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2012	15570 27.12.12	Ward No.16, PurabThok Kakrala Badayun
25445	Ayasha Parveen Abdul Sattar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15171 13.08.12	Nai BastiNaugaon Sadat Jyotibaphule Ngr
25446	Ayasha Parveen Muhd.Nabi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15308 19.09.12	VPO Saidang Ali Tehsil Hassanpur Amroha Jyotibaphule Ngr
25447	Aysha Khan Aslam Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15149 25.07.12	H No.256, Indira Nagar Saxena Nagar W No.12 Maharaj Ganj
25448	Ayush Mittal Vipin Kumar Mittal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15419 10.10.12	Moh Kayasthwada Deoband Saharanpur



25449	Azharuddin Asif Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15502 27.11.12	Moh KazibadaJanta Medical Store Dholana Hapur
25450	Azim Abdul Muqim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15337 24.09.12	New Rian MarketNr Dakkhana Sahaaswan Badayun
25451	Azizuddin Khan Qabiruddin Khan	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2010	15190 18.08.12	VPO Biskohar Bazar Siddharth Ngr
25452	Azmal Ahmad Khan Nisar Ahmad Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ Jodhpur 2010	15306 19.09.12	13, Cholkhi Lucknow
25453	Azmal Siddiqui Ezaz Ahmad Siddiqui	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15014 24.05.12	VPO Mehrona GhatThana Lar Deoria
25454	Baby Balwant Singh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15085 27.06.12	Vill.Qasampura PO Papsara Jyotibaphule Ngr
25455	Bazid Ali Munaf Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15446 18.10.12	Moh Mousam KhaniBehroda Rd, Kasba Kithor Meerut
25456	Begum AbbasNaqvi Khushnud H. Naqvi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15425 12.10.12	84, MohKazizada Jyotibaphule Ngr
25457	Bilal Ahmad Khan Aziz Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	15595 29.01.13	Andrun QilaBada Kuan Raibareilly
25458	Bushra Iqbal Iqbal Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15033 30.05.12	4/278A, Kela NagarBehind Moula Sabun Faactory Aligarh
25459	Bushra Karimi Idris Karimi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	14933 16.04.12	Kucha Hazi AbdulKarim Sarai Hakim Aligarh
25460	Bushra Khan Ezaz Anwar Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15089 27.06.12	184, Shishgran Ferozabad
25461	Bushra Parveen Masood Aslam	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15373 01.10.12	Moh Sundar NagarRampurwan Nepalapur Chouraha Sitapur
25462	Bushra Rajdar AH Qureshi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15000 16.05.12	G04, New RizviApartment Medical Rd Aligarh
25463	Bushra Z Amir Z Amir Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15326 21.09.12	Star Nursing HomeHazi Building Jagdishpur Sultanpur
25464	Chakshu Pratap Netrapal Singh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15416 10.10.12	Moh FoladpuraDeoband Saharanpur

25465	Danish Alam Abdul Alim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15581 17.10.13	H No.2222 Trilokipuram Bulandshahar Rd, g Ali No.3 Hapur
25466	Danish Alam Shababul Hassan	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	15097 02.07.12	Vill.Khayya Mafi PO Patai Khalsa Jyotibaphule Ngr
25467	Danish Mand Farooq Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14947 19.04.12	HNo138, Moh Majidpura Bulandshahar Panchsheel Nagar
25468	Darkhasan Anwar Syed Anwar Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15168 09.08.12	H -3, Chopatia Colony Lucknow
25469	Dipika Arya Santosh Kumar Arya	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15624 19.02.13	409 A/1 Uttari Civil Line Saket Rd Muzaffar Ngr
25470	Ehtesham Hamidi Mohd. Neyaz	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15235 10.09.12	Goda No.1, Rasulabad PO Zafrabad Jounpur
25471	Ekhlaq Ahmad Kabir Ahmad	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	15505 29.11.12	VPO Apayal Thana Sukhpura B Alia
25472	Ezaz Mohd. Iqbal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15417 10.10.12	Moh Bhullanshah Banjaran G Ali Deoband Saharanpur
25473	Ezaz Ahmad Siddiqui Badruddin Siddiqui	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2000	15602 06.02.13	5/131, Kasba Sadiq Ganj PO Machhli Shahar Jounpur
25474	Ezaz Ahmad Abul Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15513 04.12.12	Vill. Bhulepur PO Hansvar Ambedkar Ngr
25475	Ezaz Akhtar Ahmad Murtaza	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15275 14.09.12	Katra Medniganj Pratapgarh
25476	Ezaz Ali Azad Mohd. Ali Azad	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2009	15183 28.08.12	Chowk Bazar Kasba Sahanpur Najibabad Bijnor
25477	Fahim Ahmad Faqir Baksh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	14939 17.04.12	Vill. Khamaria Pandri PO PO ta Kalan Visalpur Pilibhit
25478	Fahim Akhtar Akhtar Hussain	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15010 18.05.12	Behind Scout Bhavan Mohd. Turkiya Gandhi Nagar Basti
25479	Fahim Haider Syed Ali Yawar Rizvi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15207 03.09.12	67, Silten Rd Dharamshala Ward PO Manandu Ganj Pratapgarh
25480	Fahimuddin Islamuddin	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15420 11.10.12	Vill. Kamalpur PO Dariyapur Bulandshahar

25481	Faisal Nafis Nafis Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15109 06.07.12	541R/333, Rifa ColonyCampwel Rd, Rajajipuram Lucknow
25482	Faiz Mohammad Mohd.Idrish	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15256 13.09.12	Vill.BahadurpurVill. Khuniyan ThGolhora Siddharth Ngr
25483	Faizi Habib Habibullah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15517 04.12.12	270, BadihatBehind Jain Mandir Behraich
25484	Fakhruddin Khan Wasim Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15282 14.09.12	301/35, Zaqir NagarWest Okhla New Delhi
25485	Farah B Shaqil Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15165 08.08.12	172/A, Begum SaraiGayasuddinpur Allahabad
25486	Farah Doud Mohd.Daud Israili	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2008	15054 07.06.12	H No.865,Nr AligarhModern School Hadinagar Dhori Mafi Aligarh
25487	Faraz Khan Kh Aliq Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15514 04.12.12	Moh Moulaganj PO Shahbad Hardoi
25488	Farha Jain Jainuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15334 24.09.12	1227/A, Dr.Faridi HousePariapur Road Sultanpur
25489	Farhan Ali Khan Ansari Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15122 13.07.12	C/o 63, Katghat LalganjLalganj Azamgarh
25490	Farhana S Alim Mohd.S Alim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15434 15.10.12	46, CompanyBagh Barabanki
25491	Farhin Hassan Shariq Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15128 17.07.12	173, Habibullah KhanZunudi 4 Bisalpur Pilibhit
25492	Farhin Ishrat Syed Ishrat Ali	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15376 03.10.12	Moh Lakdi WalanMugalpura 1 Muradabad
25493	Farhin Zaidi Farid Ahmad Zaidi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14971 02.05.12	4/1371, Near FerozHospital Sir Syed Nagar Aligarh
25494	Farida B Anis Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15499 26.11.12	VPO ZathiaShahzad Nagar Rampur
25495	Farida Bano Ansari Gulam Mohd. Ansari	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2012	15584 22.01.13	Vill.Mahili PO Pehar Balrampur
25496	Farrukh Anwar Khan Anwar Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14944 19.04.12	H No.7, Moh Semal KhedaShahganj, Purana Shahar Bareilly

25497	Fasahat Zehra Rizvi Rehan Hussain Rizvi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15042 30.05.12	Mohalla Sharqi SirsiSambhal Muradabad
25498	Fazal-ur Rehman Nisar Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2009	15340 24.09.12	VPO KhamahariaGasdi Balrampur
25499	Fehmina Naz Iqtdar Nabi Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2011	15486 12.11.12	Miyan SaraiSambhal Bhim Ngr
25500	Feroz Ahmad Masrang Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15458 25.10.12	VPO BedipurTehsil Hareiya Basti
25501	Feroz Ahmad Shafiq Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15022 29.05.12	VPO Kyoti KalanHargaon Sugarmill Sitapur
25502	Feroz Alam Rais Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15220 15.09.12	National Medical StoreVPO Tibri Dhampur Bijnor
25503	Feroz Alam Anwar Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	14967 01.05.12	Vill.Faridpur Kasham PO Sarkada Bishnoi Muradabad
25504	Feroza Praveen Zafar Iqbal	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2009	15078 20.06.12	Warsi Clinic Moh KatraMandiDhanora Jyotibaphule Ngr
25505	Fozia Yaqoob SM Yaqoob	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15191 28.08.12	H No.15/19, EzazManzil K Ali Pada Aligarh
25506	Furqan Ahmad Mohd.Farooq	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15259 13.09.12	Moh Hazrat NagarNr Jama Maszid Noorpur Bijnor
25507	Furqan Ahmad Sharif Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15508 30.11.12	Tatarpur Garvi Teh MandiDhanora PO Bachhrayun Jyotibaphule Ngr
25508	Gaurav Gupta Suresh Gupta	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15307 19.09.12	H No.296, Chouthi G AliNishat Ganj Lucknow
25509	Gazala Jamshed Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15115 13.07.12	Vill.Rajapur SikrorSaraimeer Azamgarh
25510	Gufuran Khan Abdul Samad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15274 14.09.12	Tharvaran Ganj H No.290 Lakhimpur Khiri
25511	Gufuran Ulla Ansari Faizan Ulla Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15236 10.09.12	276/1, Nr SurajTalkies,Dariapur Sultanpur
25512	Gulam Ali Rahi Misbahul Haque	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15001 16.05.12	174, Nr Baljati MaszidKatra Chand Khan Purana Shahar Bareilly

25513	Gulam Mustafa Israr Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15299 19.09.12	MulK Barkheda PO Manpur Muradabad
25514	Gulam RabbaniKhan Irfan Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15583 21.01.13	VPO Katoli KalanLalganj Azamgarh
25515	Gulfarah Muhammad Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15140 20.07.12	113, New Katghat Bareilly
25516	Gulmar Ahmad Mohd.Shahid Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14938 17.04.12	Vill.Doulatpur PO Mehnagar Azamgarh
25517	Gulzar Ahmad Mohd.Menuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15585 22.01.13	Chakkar W Ali Sadak MadinaCly Hindustan Milk Dairy Muzaffar Ngr
25518	Gurmit Singh Narendra Singh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15518 04.12.12	H No.486Ravidas Marg,Deoband Saharanpur
25519	Gyas Alam Khan Faizuddin Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	14931 13.04.12	Kasht Khera PO Rajmandir Maharaj Ganj
25520	Hafiz Ahmad Sadiq Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15527 11.12.12	H No.111/99VPO Darhara Barabanki
25521	Hafiz-ur Rehman Ehsan Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15413 09.10.12	VPO Sanjarpur Azamgarh
25522	Hafizur Rehman Fazlur Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15447 19.10.12	64A/150BSouth Malaka Allahabad
25523	Haider Ali Islam Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15133 18.07.12	Vill.Kotia PO MehdeiaState Teh Utrola Balrampur
25524	Hashmat Ullah KhanChoudhry Choudhry Q. Khan	GUMS State Fac.of AUSM, Patna 1966	15551 20.12.12	311/14, Shifa Manzil ByepassNr Rajkiya PO lytechnic Gonda
25525	Hashmuddin Mushtarib Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15614 12.02.13	Vill.ChidavakGulavathi Meerut
25526	Hasin Jahan Ansari Shoukat Ali Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15435 15.10.12	K/510 Katra Barabanki
25527	Hema Kausar Menuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15265 13.09.12	Vill.Karmaini, RounaparaThana Bilariaganj Azamgarh
25528	Hima Parveen Shaved H. Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15476 05.11.12	536/162, K MadeyganjKhadra Lucknow

25529	Hina Khan Syed Afroz Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15397 09.10.12	4, Chokhat Kuan Etawa
25530	Hina Qamar Qamrul Hassan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15035 30.05.12	Hamdard Nagar CNr Mother Teresa Jamalpur Aligarh
25531	Hina Talat Shamshuddin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15039 30.05.12	3/295, M Pragati Vihar Colony Marrise Rd Aligarh
25532	Huma Azmi Irshad Ahmad Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15248 12.09.12	H No.456, Khwaja Bagh Matiari Chouraha Chinhat Lucknow
25533	Huma Farooqi Mohd. Shoeb Farooqi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15543 17.12.12	Farooqi Home Pant Nagar Khurram Nagar Lucknow
25534	Huma Liyaqat Liyaqat Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15221 06.09.12	Green Park Cly Opp. FM Tower Anupshahar Rd Aligarh
25535	Humayun Khan Arshad Ali	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2009	15304 19.09.12	VPO Garhi Abdullah Khan Shamli Prabuddh Nagar
25536	Iftekhhar Ahmad Hafiz Ulla Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15209 04.09.12	VPO Dhammor Sultanpur
25537	Iftekhhar Ehsan Ansari Mehfuzul H. Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15613 12.02.13	VPO Adri Moh Kot Th. Kopaganj Sadar Mau
25538	Iftikhar Ahmad Khan Nazmuddin Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15076 20.06.12	544/3185, Samnan Garden Campwell Rd Lucknow
25539	Iftkhar Ahmad Mohd. Mustafa Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15093 28.06.12	VPO Itwa Bazar Siddharth Ngr
25540	Ikhlas Ahmad Akhlaq Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15095 29.06.12	Moh Milkian Taqi Sarai Syohara Bijnor
25541	Imran Ahmad Islam Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15114 11.07.12	Husaimpur Karotia Kuwargaon PO Lahi Faridpur Badayun
25542	Imran Ahmad Azamtulla	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2011	15601 05.02.13	Vill. Adhinpur PO Rehra Bazar Balrampur
25543	Imran Ahmad Mukhtar Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2006	15074 19.06.12	Kareti Road Kunda Pratapgarh
25544	Imran Ali Khan Mukhtar Ali Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15355 26.09.12	Aiman Zai Jalal Nagar Bhullan Khan ki Chopal Shahjahan Pur

25545	Imran Khan Safiullah Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15467 31.10.12	Chhedhi Purwa Gonda
25546	Imran Khan Maqsood Ali Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15370 01.10.12	MIG 334A, LDA Cly Ph 2, Rajajipuram Lucknow
25547	Imran Khan Saifi Qayamuddin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14959 01.05.12	H No.14/147Sarai Sultani Choda Koa Aligarh
25548	Imtiaz Alam Mohd.Ibrahim Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15166 08.08.12	H No.B/26A,Visheshwar Gamj Gazipur
25549	Iram Khan Danish Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	14925 10.04.12	Mahua Tola PO Shahbad Hardoi Pilibhit
25550	Irfan Choudhry Yamin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15535 12.12.12	Patti Baru,Nr PN SharmaPark Badoli Rd Barout Bagpat
25551	Irfan Ahmad Abdul Haq	BUMS Univ.of Sagar, Sagar 1979	15548 18.12.12	Mohalla Chudihar PO Saraim eer Azamgarh
25552	Irfanullah Abdullah	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15020 24.05.12	H No.127D, Ramlila MaidanPachpedwa Balrampur
25553	Irsad Ishrat Ali	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	15016 24.05.12	Siwal Khas Ward 7 Pastara Rd, PO Sival Khas Jani Khurd Meerut
25554	Irshad Ahmad Gulam Mohd.Nabi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15011 21.05.12	Vill.Ledua Mahua Nr Zama Maszid PO Bakhira Siddharth Ngr
25555	Irshad Ahmad Ashraf Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15533 11.12.12	Vill.Chakuth PO Surajpur Mau
25556	Irshad Ahmad Abdul Raziq	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15405 09.10.12	Mohalla Court SiyasatBhing a Shrawasti
25557	Irshad Hussain Nasrat Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	15394 08.10.12	Harthala Rly. Station Rd Pehla Tiraha Bareilly Muradabad
25558	Ishana Ulubed Ubedulla	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15172 13.08.12	VPO PureniTehsil Nagina Bijnor
25559	Ishrat Ali Ezaz Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15477 06.11.12	Muh Nr Kazi Police ki Chowki Kasba Sahaswan Badayun
25560	Ishtiyah Ali Shahzad Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15383 04.10.12	Vill.Sultanpur PO Velamau Kala Sitapur

25561	Ishtiyaq Mohd. Khan Yaar Mohd. Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15060 08.06.12	Vill.Kh Alispur PO Kativar Mau Raibareilly
25562	Islamuddin Mohd.Yousuf	BUMS Exam.Body, AUSM, Delhi 1980	15156 01.08.12	408, Saraibehlim Meerut
25563	Jalaluddin Mohd.Azam Samsuddin Sabri	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15119 13.07.12	Sabri Manzil Moh Kayashwada HNo 222 Deoband Saharanpur
25564	Janardan Yadav Sangram Yadav	BUMS The WBUH Sciences,Kolkata 2011	15525 10.12.12	Vill.Bahoranpur PO Baundeeh Mau
25565	Kahkashi Beig Aslam Ali Beig	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14978 03.05.12	Nr Nabi Karim Masjid Hamdard Nagar B Aligarh
25566	Kaniz Fatima Syed Nasir Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15104 05.07.12	A/B-95, Medical Colony AMU Aligarh
25567	Kavita Ravindra Kumar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15524 05.05.12	H No. 200 Ramdaspur Urf Nagal Saharanpur
25568	Kazi NaushadHussain Kazi M. Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15226 07.09.12	Vill.Fatehpur PO Wasa Dargah Dumaria Ganj Siddharth Ngr
25569	Kh Alid Ali Shahid Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14981 03.05.12	3/331, Sector 3Jankipuram Vistar Sitapur
25570	Kh Alid Usman Khan Mohd.Usman Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15622 18.02.13	S-9896, Satya Premi Nagar Teh Nawabganj Barabanki
25571	Kh Alida KhadizaKhanam Intzar Ali Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15627 25.02.13	Behind PO lice StationKakralla Badayun
25572	Khan Afrin S. Kh Alid Khan	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15603 11.02.13	Room.5, Sakur Chol K Alina Shastri Nagar Santacruz E- Mumbai MS
25573	Khan Hafsa Khan Hisamuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15404 09.10.12	275, PaharpurNew Colony Azamgarh
25574	Khan Nilofar Nafis Nafis Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15410 09.10.12	H No 7, Sehyog Apat. Chandansar Rd Maharashtra
25575	Khan Sabiha Zakaria Maruf Zilani Khan	BUMS Univ.of PO ona, Pune 1999	15396 08.10.12	Teachers Colony Kot Qila Azamgarh
25576	Khurshid AlamAnsari Mohd.Hanif	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15359 27.09.12	Vill.Ganeshpur PO Koreya Teh Laharpur Th HargaonSitapur



25577	Khushnuma Naz Muqarram Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15563 26.12.12	H No.7 Ismailpur Saharanpur
25578	Kulsum Zohra Khan Arshad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15329 21.09.12	Vill. Bakrapur PO Mizwa Azamgarh
25579	Kulsum Zohra Khan Akhtar Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15302 19.09.12	Kudwan Urf Dilip Nagar Kasyan Kushinagar
25580	Kurratul Ein Syed Barruzama	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15116 13.07.12	45/29, Sultanpur Bhava Allahabad
25581	Laykum Nisa Shamsuzzma	BUMS Dr.MGR Med.Univ., Chennai 2005	15086 27.06.12	Vill.Hareiya PO Bhatni Dadan Deoria
25582	Mahir Ahmad Mohd.Tahir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15353 26.09.13	23, Avas Vikas Colony Bulandshahar Rd Hapur
25583	Mainuddin Khan Abdul Sattar	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15187 28.08.12	VPO Devtaha Gonda
25584	M Alik MehfoozAhmad M Alik M. Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15271 14.09.12	VPO Kadirabad Siddharth Ngr
25585	Mansoor Ahmad Mohd.Israel	BUMS Delhi Univ.,Delhi 1996	15234 10.09.12	VPO AsaraTehsil Barout Bagpat
25586	Manzar Hussian Mohd.Muslim	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15012 21.05.12	VPO Sai Buzurg Bakhira Siddharth Ngr
25587	Maqsood Alam Mohd.Ziaullah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14937 17.04.12	Vill.Manika Deeh PO Hareieya Azamgarh
25588	Maria Asif Mohd.M. Zamal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14928 12.04.12	A-704, Avas Vikas Colony Unnao
25589	Masarrat Ali Siddiqui Ehtesham A. Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14936 17.04.12	305, Munne Miyanka Fatak Hardoi
25590	Mashqoor Hussain Masroor Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15402 09.10.12	Mohd. AglagaTehsil & PO Swar Rampur
25591	Mayank Tyagi Devendra Tyagi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15609 12.02.13	24, Ramnagar Bijnor
25592	Mehmood Ahmad Gulam Nabi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15027 29.05.12	Azad Cly Pittanhedi PO Kotw Ali Bijnor

25593	Mehmood Alam Khan Mohd. Yahia Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15002 16.05.12	Samudiyak Swasthya Kendra Payagpur Behraich
25594	Mehmudul HassanAnsari Mohd.Aqmal	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15023 29.05.12	Kirana Merchant VPO Kherabad Mau
25595	Mehtab HussainAnsari Mohsin Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15147 25.07.12	Vill.Mallapur PO Prithviganj Pratapgarh
25596	Mehvesh Yamin Mohd.Yamin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15038 30.05.12	H No.932/1,BandarW Ali G Ali Nr Mazhar Amirnisha Aligarh
25597	Mehwish Moin Moinuddin	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15374 01.10.12	Moh Mirdahi Tola HaqimTobacco Company BiswanSitapur
25598	Memuna Khatoon Abdul Qayuum	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14951 23.04.12	H No.239/C, Near Gol Market Hamdard Nagar Aligarh
25599	Mirza Farman Ali Mirza Furqan Ali	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2002	15305 19.09.12	VPO Sakhji Gaon Jahangirabad Anupshahar Bulandshahar
25600	Mirza Irfan Ali Mirza Furqan Ali	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2007	15301 19.09.12	VPO Sakhji Gaon Jahangirabad Anupshahar Bulandshahar
25601	Mirza ShahzadaBeig Islam Beig	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2007	15483 08.11.12	Vill.Rasulpur Dholdi Meerut
25602	Moazzam Irshad Irshad Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15365 27.09.12	Vill.Tirnai Khijir Pur PO P Alia Khas B Alia
25603	Moh.Aqram Laik Laddan Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14960 01.05.12	Vill.Kamalpur Fatahabad PO Kundarki Muradabad
25604	Mohammad Zafar Mohammad Syed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15138 20.07.12	Vill.Visalpur PO Shishgarh Mirganj Bareilly
25605	Mohd. Imlaq Qamruddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15393 08.10.12	Ward No.6 Nagar Panchayat Sival Khas Meerut
25606	Mohd. Irfat Khurshid Khurshid Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15293 18.09.12	Nr Nagar P AlikaVuderan Rd, Syohara Bijnor
25607	Mohd. Qamruzzma Shah Alimuddin Shah	BUMS The WBUH Sciences,Kolkata 2011	15592 29.01.13	Vill.Sonwara PO Katila Azamgarh
25608	Mohd. Shariq Abrar Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15587 22.01.13	New Warsi Medical Subzi Mandi Dhanora Jyotibaphule Ngr

25609	Mohd. Wakil Sheikh Maqsood	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	15444 18.10.12	VPO BanniThana Dhansoi Buxar (Bihar)
25610	Mohd.Abdul Moin Habibullah	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	14992 14.05.12	VPO PehraTeh Utrola Balrampur
25611	Mohd.Abuzar Ansari Safiur Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15528 11.12.12	Husainabad PO Mubarakpur Lucknow
25612	Mohd.Adib Mohd.Habib	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2006	15063 11.06.12	MohAshraf Khan H No.212 Pilibhit
25613	Mohd.Afzal Mohd.Ilyas	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15385 05.10.12	15/2, Tubewell Cly Civil Lines Muradabad
25614	Mohd.Afzal Fida Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15066 18.06.12	Vill.Parsona PO DhanukaraTeh Alapur Ambedkar Ngr
25615	Mohd.Ahmad Kh Alid Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15285 18.09.12	VPO Palola Jyotibaphule Ngr
25616	Mohd.Ahmad Ansari Pir Mohd.Ansari	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2011	15389 05.10.12	Vill.Pahili PO Pehar, TehUtrola Balrampur
25617	Mohd.Ahmad Khan Hamidullah Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15072 18.06.12	WNo.11, Nagar P AlikeBabhnan Tappa Atroh ParganaBasti
25618	Mohd.Akhtar Abdul Salam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15321 21.09.12	Moh Banjaran Chhoti MaszidNawabganj Bareilly
25619	Mohd.Akhtar Abul Hassan Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15175 16.08.12	Vill.Mohnapur DhalaDhuswakala Laxmi Nagar Maharaj Ganj
25620	Mohd.Alamgir Mohd.Umar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15319 21.09.12	Moh BhandariaTola, Madiyahun Jounpur
25621	Mohd. Ali Ashiq Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15083 22.06.12	Moh Gujran GateNr Khari Kuan Sardhana Meerut
25622	Mohd. Ali Mohd. Ilyas	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14935 17.04.12	Vill.Katya Musthaqam PO Shahpur Via Dumariaganj Aligarh
25623	Mohd. Ali Rahmat Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15519 04.12.12	VPO SarawaniNr Kasba Kithor Hapur
25624	Mohd. Amir Shaqil Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15059 07.06.12	433/256/1 New RamNagar Cly Campwel Rd, KalaganjLucknow

25625	Mohd.Anas Wahid Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15178 27.08.12	VPO Palola Amroha Jyotibaphule Ngr
25626	Mohd.Anas Ali Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	15491 21.11.12	E 409 DS 2, Sec CKursi Rd, Aliganj Lucknow
25627	Mohd.Anwar Atiq Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15229 10.09.12	Vill.Sanekpur PO Alheiya Nawabganj Bareilly
25628	Mohd.Aqil Khan Mohd.Nasir Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15460 30.10.12	VPO Kotsarai ParganaMagaalsi Teh Sohawal Faizabad
25629	Mohd.Aqmal Abdul Qabir	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14963 01.05.12	Vill.Bhulepur PO Hansvar Ambedkar Ngr
25630	Mohd.Arif Babu Khan	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2009	15064 12.06.12	1995, Agwanpur Ashiqpur Agwanpur Muradabad Muradabad
25631	Mohd.Arif Siddique Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15327 21.09.12	Sumba Bagh Lucknow Rd Sandila Hardoi
25632	Mohd.Arif Ali Siddiqui Hashmat Ali Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15615 12.02.12	124, Moh Baduzai Pratham PO st Office W Ali G Ali Shahjahan Pur
25633	Mohd.Arif Hussain Mohd.Ishtiaq Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15262 13.09.12	16/B, Chowk Ala Khan Shahjahan Pur
25634	Mohd.Arif Khan Mushir Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15246 11.09.12	127/B, Nehru Nagar Thana Hindola Lucknow
25635	Mohd.Arif Zamal Mohd.Daud	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14934 16.04.12	VPO Chireyakot Takia Rd Mau
25636	Mohd. Arshad Mashqoor Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15162 04.08.12	C/o Smt.Jinat Jamal Farsoti Tola Aligarh
25637	Mohd. Arshad Abdul Rashid Saifi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	14998 15.05.12	87, Moh Kayasthan Chandpura Bijnor
25638	Mohd. Arshad Faimuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15433 15.10.12	Vill.Dayyabojh PO Pip Alia Via Amaria Pilibhit
25639	Mohd. Arshad Rahamtullah Shah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15151 30.07.12	Vill.Banke Gaon PO Khesraha Teh Bansi Siddharth Ngr
25640	Mohd. Arshad Mohd.Farookh	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15021 25.05.12	Tobacco Merchant 267, Jail Road Chowk Pratapgarh

25641	Mohd.Asfaq Abbas Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15154 01.08.12	Vill.Maina PO Itwa Siddharth Ngr
25642	Mohd.Ashraf Mohd.Muzanbin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15556 24.12.12	Vill.Ahirola Nagwa PO Pipra Ramchand Balrampur
25643	Mohd.Ashraf Sirajuddin	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15438 17.10.12	Vill.Moulvi Kheda PO Kudoni Teh Sandila Hardoi
25644	Mohd.Asif Sharif Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15492 21.11.12	Moh Qila Khand 2 HNo 299 Thana Deoband Saharanpur
25645	Mohd.Asif Badruddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15199 30.08.12	Shahganj Shahjamal Telipada Aligarh
25646	Mohd.Asif Mahendi Hassan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2009	15222 06.09.12	Vill.Naugavan PO Chamroa Sadar Shahzad Nagar Rampur
25647	Mohd.Asif Zamaluddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15437 15.10.12	Vill.Chakia PO Badagaon Husainabad, Harmanpur Azamgarh
25648	Mohd.Asim Habibur Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15130 18.07.12	Moh Prithviganj Cantt Muradabad
25649	Mohd.Aslam Shoeib Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15102 04.07.12	VPO Kaithw Alia Siddharth Ngr
25650	Mohd.Atiq Khan Mohd.Rafiq Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15655 19.03.13	27, Bal Vihar Bistar Cly Faridi Nagar, Indira Nagar Lucknow
25651	Mohd.Ayyub Mohd.Ismail	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	14996 15.05.12	Moh Islamnagar Ward No.6 Nr Safed Maszid Syohara Bijnor
25652	Mohd.Ayyub Z Amirullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15061 08.06.12	Vill.Khagrola PO Beva Dumaria Ganj Siddharth Ngr
25653	Mohd.Ayyub Khan Babu Baksh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15580 16.01.13	Vill. PO ta Kalan Pilibhit
25654	Mohd.Azhar Mohd.Afsar	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15070 18.06.12	Moh Yahshiri B 21 Bijnor
25655	Mohd.Azharuddin Mohd.Anwar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15258 13.09.12	GangapurTajpur Kunda Pratapgarh
25656	Mohd.Azim Mohd.Nasim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15455 19.10.12	H No.440, Nai Abadi Khalapar Muzaffar Ngr

25657	Mohd.Azim Mobin Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15640 06.03.13	C-15/219, Lallapura Sagra Varanasi
25658	Mohd.Azim Khan Umar Daraz Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15415 10.10.12	Mohalla Qila Deoband Saharanpur
25659	Mohd.Bilal Abdur Rehman	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15009 18.05.12	Hindupura Kheda Sarai Madarsa Sambhal Muradabad
25660	Mohd.Bilal Mohd.Shamim Qureshi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15577 11.01.13	Haq Medical Centre Rudoli Rd Bhelsar Chouraha Faizabad
25661	Mohd.DanishSiddiqui Mohd.Sabir	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2010	15144 20.07.12	Chochhrana Moh Purvi Tarora Vill. Modaha PO RagoulH Amirpur
25662	Mohd.Danish Sazruddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15004 17.05.12	VPO Gureni Khetsarai Shahganj Jounpur
25663	Mohd.Ehsan Mohd.Masoom	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	15504 29.11.12	Hospital Rd Rasda B Alia
25664	Mohd.Ehsan Khan Mohd.Aslam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15568 27.12.12	Moh Bijlipura Near Kirti Nagar Colony Shahjahan Pur
25665	Mohd.Ehtesham Khan Abdul Hafiz Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15237 10.09.12	H No.484 Chidiya Khana Raibareilly
25666	Mohd.Fahad Isteyaq Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15257 13.09.12	Pakija Colony Chak Kazi PO Saraimeer Azamgarh
25667	Mohd.Fahim Khan Mohd.Shamim Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	15490 21.11.12	121, Moh Sher Nr Chhoti Market Kotw Ali Pilibhit
25668	Mohd.Farman Abdul Aziz	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2011	15403 09.10.12	Vill.Vilalalpat PO Asmoli, Sambhal Bhim Ngr
25669	Mohd.Gufran Sadaqat Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15522 04.12.12	Moh Upadiyan PO Kithor Meerut
25670	Mohd.Gulzar Azhar Abbas	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15457 19.10.12	Mohalla Jannat Abad Kasba Jansath Muzaffar Ngr
25671	Mohd.Hasib Mohd.Naim	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15143 20.07.12	Vill.Shergarh PO Kunda Pratapgarh
25672	Mohd.Ibrahim Mohd.Izhar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15462 30.10.12	Mohalla Teliagarh PO Goshaignanj Faizabad

25673	Mohd.Ikhlal Nisar Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15507 29.11.12	Vill.Nasirpur Sheikh PO Masit Chandpur Bijnor
25674	Mohd.Imran Hafiz Mohd.Yasin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15077 20.06.12	Vill.Ganoli PO Chhachhroli Yamuna Nagar Haryana
25675	Mohd.Imran Mohd.Islam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15338 24.09.12	Mohalla Ashraf Ganj Rd Ferozabad
25676	Mohd.Imran Gulam Zilani	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	15506 29.11.12	PO Ratsar Kala Thana Gadwar B Alia
25677	Mohd.Imran Mohd.Gayasuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15468 01.11.12	579 K, Turkmanpur Gorakhpur
25678	Mohd.Imran Ansari Phul Mohd.Ansari	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15015 24.05.12	620, Deoria Park Shampur Salempur Deoria
25679	Mohd.Imran Hussain Iqbal Hussain	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15316 20.09.12	H No.68 Moh Ganesh Ganj Main Market Puranpur Pilibhit
25680	Mohd.Irfan Mohd.Nazaf Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2007	15363 27.09.12	Sah Memorial Hospital GT Rd, Sedabad Handia Allahabad
25681	Mohd.Irfan Khan Younus Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15200 30.08.12	Oaidh Itwar Opp. Bombayw Ali Kothi Sarai Tarin Sambhal Bhim Ngr
25682	Mohd.Irshad Mohd.Ezaz	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15315 20.09.12	534K/49, Habibpur PO Chowk Lucknow
25683	Mohd.Jishan Mohd.Afaq	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15561 24.12.12	Moh Sarai Rafi Basta Bus Stand Chandpur Bijnor
25684	Mohd.K Alim Siraz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15336 24.09.12	Vill.Wazirganj PO Sarai Jagna Behraich
25685	Mohd.Kamran Izharul Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15075 20.06.12	Fatehpur Tolstoy Mau
25686	Mohd.Kh Alid Nizamuddin	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15247 31.09.12	Vill.Dinanagar PO Gulriha Balrampur
25687	Mohd.Kh Alid Siddiqui Bismillah Siddiqui	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15497 26.11.12	VPO Gora Chowki Gonda
25688	Mohd.Lolak Azim Akhlaq Ahmed	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2007	15098 02.07.12	H No.28, Pir Ataullah Kabir Khan Pilibhit

25689	Mohd.MaqsoodAlam Ansari Mohd.Mohiuddin A.	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15058 07.06.12	N 12/461-A-K-1 Teliana Bazardeeha Varanasi
25690	Mohd.Masud AhmadKhan Mohd.Moid Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15233 10.09.12	Vil.Karoha PO Maddo Bazar Gonda
25691	Mohd.Maz Abbasi Zafar Mehmood A.	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15335 24.09.12	Moh Chilla Nr Khandelwal Mandir Armroha Jyotibaphule Ngr
25692	Mohd.Monis Mohd.Hanif	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15218 06.09.12	4/113, DiwanMubarak Mau Farrukhabad
25693	Mohd.Muid Khan Mohd.Muin Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15158 06.08.12	VPO Chhavni AmodhaTehsil Hareiya Basti
25694	Mohd.Musharraf Mohd.Nabi	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2011	15176 24.08.12	Vill.Dang Pilibhit
25695	Mohd.Mustqim Razzab Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15357 26.09.12	95 CH/52, K NaiAbadi Chakia Allahabad
25696	Mohd.Nadim Irfan Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15475 05.11.12	HNo383A-B, MohTankan Ngr P Alike Parishad Gangoh Saharanpur
25697	Mohd.Nadim Mohd.Harun	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2010	15386 05.10.12	VPO Rajpur Kesaria Thakurdwara Muradabad
25698	Mohd.Nadim Azimuddin	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15276 14.09.12	VPO Semur Khanpur Ambedkar Ngr
25699	Mohd.Nadim Ansari Iqbal Ahmad Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15473 05.11.12	110, Bysi ki Maszid Model House Lucknow
25700	Mohd.Nasim Siddiqui Noor Mohd.Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15273 14.09.12	Teh Sareiyen Kadipur PO Sareiyen Teh Mehmoodabad Sitapur
25701	Mohd.NavedYamin Mohd.Yamin	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15597 31.01.13	22, Salma Haqan Bijli Ghar No.2,Khurza Bulandshahar
25702	Mohd.Nazim Khan Ezaz Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15427 12.10.12	Moh Muglan Kasba Miranpur Katra Shahjahan Pur
25703	Mohd.Nazim Khan Wasim Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15566 27.12.12	Sahona Majra Chandila Mohammadi Lakhimpur Khiri
25704	Mohd.Nazir Zia Jiuddin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14946 19.04.12	Opp.Dargah Shamsul Arfin Idgah Rd Shahjamal Aligarh



25705	Mohd.Parvez Mohd.Yaseen	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15523 05.12.12	Kairana Shamli Prabuddh Nagar
25706	Mohd.Qafil Mohd.Rais	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15612 12.02.13	VPO NevraTehsil Rudoli Faizabad
25707	Mohd.Qasim Ali Asgar	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	15188 28.08.12	Dipa Sarai Alam W Ali G AliSambhal Muradabad
25708	Mohd.Qasim Abdur Salam	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15106 05.07.12	Vill.Vshunpur Kharhana Nautihawa PO Sadullah Nagar Balrampur
25709	Mohd.Qayuum Moharram Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15127 17.07.12	CampusCornerNr Aligarh Modern Public School Hadinagar Aligarh
25710	Mohd.Rafiq Aliuddin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15100 02.07.12	Rafiq Clinic Kasba Kouria Ganj Latta Wala Rd Aligarh
25711	Mohd.Rais Ansari Abdul Rasheed Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15024 29.05.12	Hazi Mohd.Iliyas NearBichli Maszid Goshaiganj Faizabad
25712	Mohd.Rashid Sazid Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15406 09.10.12	Vill.Badarakha Garh Mukteshwar Hapur
25713	Mohd.Rashid Habib Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15562 24.12.12	H No.110 B 2Moh Jatan Nr Nazir W Ali Maszid Bijnor
25714	Mohd.Rashid Abdul Rab	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15045 30.05.12	26, Madhavpur Urf Chandan Jot Karhia Gosao TehItwa Siddharth Ngr
25715	Mohd.RehanSiddiqui Mohd.Sohrab	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15448 19.10.12	VPO Khakhreru KatraTehsil Khaga Fatehpur
25716	Mohd.Rihan Muzahir Hussain	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15025 29.05.12	Vill.Haryana PO Zoya Jyotibaphule Ngr
25717	Mohd.Rizwan Wahid Hussain`	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15046 31.05.12	Bhira Khiri Lakhimpur Khiri
25718	Mohd.Ruman Khan Sher Afgan Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15041 30.05.12	H No.311, Khan ClinicVPO Salahabad Bazar Mau
25719	Mohd.Sadiq Mohd.Qasim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15408 09.10.12	637, Sarai Behlim Sohrab Gate Meerut
25720	Mohd.Sadiq Mohammad Moqim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15210 04.09.12	2210/1, Khairabad Shastri Nagar Behind Gurudwara Sultanpur

25721	Mohd.S Alim Ansari Abdul Samad Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15565 27.12.12	H No.105, Vill. Karonda Pachdu PO Kotw Ali Dehat Nagina Bijnor
25722	Mohd.S Alim Ashraf Mohd.Naim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15264 13.09.12	Vill.Anai PO Bagholi Thana Kh Alilabad Siddharth Ngr
25723	Mohd.SalmanSiddiqui Mohd.Asalam	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15579 14.01.13	35, Mirchi Tola Purani Rd K Ali Nadi ka Pul Bulandshahar
25724	Mohd.Salman Rizwan Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14953 23.04.12	Muh Darudgira PO Shamsabad Farrukhabad
25725	Mohd.Sazid Asrar Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15401 09.10.12	Vill Budhanpur PO Patai Khalsa Amroha Jyotibaphule Ngr
25726	Mohd.Sazid Abdul Kh Aliq	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15349 25.09.12	1/27-B, Priyadarshini Cly Sitapur Rd Lucknow
25727	Mohd.Sazid Khan Mohd.Zahid Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	14930 12.04.12	Vill.Sherpur KalaPuranpur Lucknow
25728	Mohd.Sazzad Khurshed A. Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15185 28.08.12	Mohalla Balua Balrampur Nr Police Chowki Balrampur
25729	Mohd.Shaban Rizwana Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15029 30.05.12	Vill.Newada PO Amilo Mubarakpur Azamgarh
25730	Mohd.Shadab Khan Mohd.Muqim Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14943 19.04.12	HNo 363, Turkman Gate Hazira Aligarh
25731	Mohd.Shafiq Mohd.Shaqil	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15330 21.09.12	Muh Siptai Rd PO Makandru Ganj - Sadar Teh Kotw Ali Pratapgarh
25732	Mohd.Shaharyab Ali Abdul Mutt Alib	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15112 10.07.12	Vill.Jisora Sadar Meerut
25733	Mohd.Shahid Nasim-ur Rehman	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	15605 11.02.13	Vill.Eksar PO Piprola Bada Gaon Bilthara Rd B Alia
25734	Mohd.Shahid Abdur Rashid	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15065 14.06.12	VPO Hansvar Teh Tanda Ambedkar Ngr
25735	Mohd.Shahnawaz Mohammad Chaman	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15521 04.12.12	Star Alfalah I College Shyampur Rd, Opp. Rathor Meerut
25736	Mohd.Shahzad Kafil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15559 24.12.12	20 Fotta Rd 235 Prem Nagar 1 Loni Gaziabad

25737	Mohd.ShamimAhmad Khan Mohd.Idrish Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15320 21.09.12	Vill.Amoli PO Dhamoli Pachpedwa Balrampur
25738	Mohd.Shamim Abdul Z Alil	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14973 02.05.12	Sony Electronics Bakshipura Behraich
25739	Mohd.Shamsul Huda Mohd.Fakhruddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15441 17.10.12	H No. 283/1065/19/3 SS 01 Shram Vihar Nagar Maweyya Lucknow
25740	Mohd.Shueb Burhan Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15087 27.06.12	Moh Chahsang Chandpura Bijnor
25741	Mohd.ShuzauddinParvez Qamal Mustafa	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14945 19.04.12	Teh Rd Sangat Qila Mehmoodabad Awadh Sitapur
25742	Mohd.Sufyan Mohd.Rauf	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15250 12.09.12	68/369, Bheri Mandi Lal Kuan Tha. Hussainganj Lucknow
25743	Mohd.Suhel Fida Hussain	BUMS MUHS, Nashik 2010	15069 18.06.12	Vill.Naurangdeeh PO Gomri Utrola Balrampur
25744	Mohd.Suleman Shafiullah	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15281 14.09.12	Vill.Kasba Sagri PO Sagri Azamgarh
25745				
25746	Mohd.Tahir Iftekhar Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15241 10.09.12	Vill.Ausanpur PO Dumaria Ganj Siddharth Ngr
25747	Mohd.Taiyyab Tufail Ahmad	BUMS Univ.of PO ona, Pune 2005	14983 09.05.12	Gyaspur Nonari PO Mani Kalan Jounpur
25748	Mohd.T Alib Khan Shamim Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15231 10.09.12	Vill.Yousafabad PO Chireyakot Mau
25749	Mohd.Tariq Mohd.Rais	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	15287 18.09.12	G/P Zari Bazar Allahabad
25750	Mohd.Tariq Mohd.Razzi	BUMS Devi Ahilya Unv., Indore 2010	15245 11.09.12	VPO Arand Jounpur
25751	Mohd.Tariq Zamal Zamal Abdul Nasir	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	15377 03.10.12	Hira Katra Subzi Mandi Rasda B Alia
25752	Mohd.Tasnif Mohd.Yaseen	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15198 30.08.12	Cement Rd Nr Chhoti Maszid Moh Banjaran Nawabganj Bareilly

25753	Mohd.UsmanHabban Mohd.Idris Habban	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	15459 25.10.12	Vill.Tahir Ansari Moh Muslim Tyagiyan Kasba Charthaval Muzaffar Ngr
25754	Mohd.Usman Abdul Mutt Alib	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15180 27.08.12	Islam Ngr Aizimaz Ngr Zonma PO Zoma Jyotibaphule Ngr
25755	Mohd.Vikar Mohd.Naim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15454 19.10.12	438 Nai Abadi Khalapar Muzaffar Ngr
25756	Mohd.Wasim Mohd.Vakil	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15062 08.06.12	Vill.Kadza PO Semriyawa Siddharth Ngr
25757	Mohd.Wasim Yaar Mohd.	BUMS Devi Ahilya Unv., Indore 2010	15182 27.08.12	Vill.Guma Fatma Jot PO Sadullah Nagar Balrampur
25758	Mohd.Yamin Sadruddin Farooqi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15203 31.08.12	116/845Rawatpur Gaon Kanpur
25759	Mohd.Yasir Nazir Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2009	15253 12.09.12	Vill.Taharpur Avval PO Gurer Vilari Muradabad
25760	Mohd.Yousuf Shuja-ul Hassan	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2007	15013 24.05.12	Muh Qureshi Near Choupal Amroha Jyotibaphule Ngr
25761	Mohd.Yousuf Ansari Mohd.Sarwar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15626 19.02.13	A/305, Moh Ashraf Ali PO Gangoh Saharanpur
25762	Mohd.Zafar Abdullah	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15071 18.06.12	Roshan Clinic Roshan Nagar Kh Alilabad Siddharth Ngr
25763	Mohd.Zahid Mohd.Kh Alil	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15056 07.06.12	VPO M Ali Manhan Siddharth Ngr
25764	Mohd.Zaqir Mohd.Yaqoob	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2008	15541 14.12.12	Moh Katra Musa Khan Nakhasa, Sambhal Bhim Ngr
25765	Mohd.Zaved Mohd.Shahid	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15372 01.10.12	VPO Pawai Azamgarh
25766	Mohd.Zaved Alam Hamid Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15501 27.11.12	VPO Dilari Thakurdwara Muradabad
25767	Mohd.Zaved Alam Liyaaqat Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15007 17.05.12	Moh Motipur Kasba Fafund Allahabad
25768	Mohd.Zilani Khan Mohd.Irfan Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15636 04.03.13	86, Vill.Katoli Buzurg PO Katoli Kalan, Lalganj Azamgarh

25769	Mohd.Zuber Mehmood Hassan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15179 27.08.12	VPO Palola Amroha Jyotibaphule Ngr
25770	Mohnis Khan Ali Emam Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15414 10.10.12	Indira Nagar Hata Kushinagar
25771	Mohsina Athar Athar Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14962 01.05.12	4/478, Hamdard Nagar BJamalpur Aligarh
25772	Mubin Zehra S N Mohammad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15252 12.09.12	4/957A, G Ali No.15 Behind Maszid Zohrabag Aligarh
25773	Muhammad Faisal Nasim Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15201 30.08.12	Dholipur Bakhipur Jimanpur Sagri Azamgarh
25774	Muhammad Nabi Ziauddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2004	15103 04.07.12	Moh KaziparaIdgah Chowk Bijnor
25775	Muhd.Aqil Nazmul Hassan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	15631 28.02.13	Vill.Bada Gaon Bandh PO & Tehsil Ghosi Mau
25776	Muhd.Aqram Ansari Muhd.Isa Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15643 07.03.13	VPO Samai Thana Bhati Badahal Ganj Gorakhpur
25777	Muhd.Asif Siddiqui Muhd.Anis Siddiqui	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15067 18.06.12	Vill.Sandahan PO Sultanpur, Kabirpur Ambedkar Ngr
25778	Muhd.Israr Ahmad Muhd.Irfan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15090 27.06.12	VPO ItoraChobeypur Mau
25779	Muhd.Rais Siddiqui Riyazuddin Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	15573 01.01.13	Vill.Hareiya PO Bhatni Dadan Deoria
25780	Muhd.Shafiq Khan Bashir Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15633 01.03.13	Khan Cloth StoreVPO Baskhari Ambedkar Ngr
25781	Muhd.Shahbaz Atiq-ur-R. Siddiqui	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15030 30.05.12	Dhaneva Dhanai Tola Gabdua Maharaj Ganj
25782	Muhd.Shariq Muhd.Sharif	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	15048 05.06.12	Asalatpura Bhatti StreetOpp.A OneDryclean Muradabad
25783	Muhd.Shoib Khan Zahir Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2004	15442 17.10.12	Vill.Khandrav Ali PO Paswada Meerut
25784	Muhd.Usman Ahmad Suleman Ahmad	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15638 05.03.13	VPO Bandighat Muhammadabad Gohna Mau

25785	Muhd.Wasif Samiullah Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	14932 13.04.12	Shivpur Sahbaz Ganj Rashid Nagar Colony Gorakhpur
25786	Mukhtar Alam Saqib Fahim A. Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15006 17.05.12	Gola Bazar Maswahi Thana Swar Rampur
25787	Muntahir Mohd.Asgar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15139 20.07.12	Saidpur Road EkMinar Maszid Kasba Gulavati Bulandshahar
25788	Muqarram Iqbal Nasim Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15564 27.12.12	Moh Kanoongoyan Kasba Jhalu Bijnor
25789	Muqimuddin Ansari Zamaluddin Ansari	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15224 06.09.12	Dhanepur Bazar Gonda
25790	Mustagisul Hassnain Inasul Hassnain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14964 01.05.12	75 Moti Main GateQila Bareilly
25791	Muzamil Ahmad Shabbir Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15173 13.08.12	Mohalla Mahavir Nagar Icona Shrawasti
25792	Muzammil HussainKhan Syed Ali Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1997	15526 10.12.12	VPO ImihiliyaVia Uska Bazar Siddharth Ngr
25793	Muzib Fariduddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15426 12.10.12	VPO KajiwalaTehsil Bijnor Bijnor
25794	Muzibul Haq Khan Anwarul Haq Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15368 28.09.12	H No.355/413 K, Moh (Thadi) Alam Nagar Lucknow
25795	Muzibul RehmanAnsari Samsul H. Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14982 03.05.12	Mohalla HatoraKasba Khairabad Sitapur
25796	Muztaba Ali Siddiqui Murtaza Ali Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15378 03.10.12	Nr M Alik Marriage HallLakhpeda Bagh Barabanki
25797	Nadir Shahzad Ansar Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15050 05.06.12	Vill.Ibrahimpur PO Devk Alitaran Azamgarh
25798	Nafis Ahmad Amiruddin	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15644 07.03.13	Vill.RampurdasTola PO Nagina Bijnor
25799	Nafis Ahmad Abdul Haq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15148 25.07.12	Vill.Arnola PO DidarganjTehsil Phulpur Azamgarh
25800	Nafis Ahmad Khan Shaquil Ahmad Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	15554 24.12.12	C/o Shaqil Medical Store Thana Itwa Bazar Siddharth Ngr

25801	Nagma Bano Iftexhar Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15270 13.09.12	Nafis Tent House Phulpur Azamgarh
25802	Nagma Mansoori Mohd.Yasin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14991 11.05.12	Jamuna Bala Thakurdwara Muradabad
25803	Nagma Noushin Mohd.Khatibullah A.	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2009	14999 16.05.12	C 795, Sector 6 Indra Nagar Lucknow
25804	Naim S Alim Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14948 19.04.12	H No.5/473, Shahganj Nai Idgah Shahmal Ganj Aligarh
25805	Nasibullah Mohd.Rais	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	14995 15.05.11	Vill.Sishana PO Bank Bazar Balrampur
25806	Nasim Ahmad Syed Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15418 10.10.12	Mohalla QilaDeoband Saharanpur
25807	Nasim Akhtar Zikrullah Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15436 15.10.12	VPO Pipra KanakThana Patharewan Kushinagar
25808	Naushad AhmadM Alik Shamshad Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14990 11.05.12	HNo216, Raja kaTajpur Bijnor
25809	Naushad Ahmad Noor Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15194 28.08.12	HNo.141, Moh Lohari Sarai Multani Cly Nagina Bijnor
25810	Naushad Ali Dilshad Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15616 12.02.13	VPO Athseni Panchsheel Nagar Hapur
25811	Naushad Ali Maqbool Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15560 24.12.12	H No.83 Nagina Chowk Nai Basti Muslim Cly Dhampur Bijnor
25812	Naushad Ali Chheddu Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15384 04.10.12	Nr Hazi Gulam Ali Md. Sheikh Sarai Patia Sitapur
25813	Naved Alam Shamim Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	15292 18.09.12	Moh NalNai Basti Amroha Jyotibaphule Ngr
25814	Naved Ali Ansari Iqrar Ali Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15131 18.07.12	Vill.Dippur PO Khudaganj Tilhar Shahjahan Pur
25815	Nazam Ali Khan Mohd. Ali Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2008	14954 23.04.12	Mehmood Haddaq Nr Shamshi Khan ki Pulia Shahjahan Pur
25816	Nazar Mohammad Babu Khan	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2012	15649 15.03.13	Vill.Tatina Sani Banjaran G Ali Meerut

25817	Nazia B Israr Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15164 08.08.12	VPO Harpal Saharanpur
25818	Nazia Parveen Sultan Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15472 01.11.12	Mohalla Patiapada Chandpura Bijnor
25819	Nazia Syeda Gulshan Raza	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2007	15400 09.10.12	W No.10 Moh Sadat Nagli Ujhari Hassanpur Jyotibaphule Ngr
25820	Nazir Ahmad Khan Wazir Mohd.Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15170 09.08.12	D Fiti Naya Vijay Ngr Sec 9 Gaziabad
25821	Nazish S Alim Mohd.Kh Alid	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15547 18.12.12	H No.6/7/34 Motibagh Faizabad
25822	Naznin Zaqi Mirza Zaqi Beig	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15328 21.09.12	Vill.Chakia PO Amoli Mubarakpur Azamgarh
25823	Nazra B Mohd.Hanif	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15496 26.11.12	Kasba & PO Senthall Moh PO lice Chowki Bareilly
25824	Nazrin Fatima Anis Ahmad Qureshi	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15309 20.09.12	Valmiki NagarP Alike Padrona Kushinagar
25825	Neda Azmi Feroz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15398 09.10.12	163, Chakla Takia PO Sadar Azamgarh
25826	Nema Sultana Kh Aliq Ahmad Nayyar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15511 03.12.12	A 34/1, 4th Fl Back Side Shahin Bagh Jamia Nagar Lucknow
25827	Nida Faraz Sarfaraz Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15464 30.10.12	Mohalla Kazisarai Chandpura Bijnor
25828	Nida Khanam Mohd.Shamim Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15003 17.05.12	Mohalla FarsoliyanaMath H Amirpur
25829	Nigaht Abbas Abbas Ali Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 1997	15266 13.09.12	70,FlatNoF 3 G AliNo3 Gyankhand 2 Indirapuram Gaziabad
25830	Nilofar Samuel Christopher Samuel	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15344 25.09.12	113/7 D, Mahewa Purab Patti Allahabad
25831	Nilophar Nomani Nurul Hassan Nomani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15314 20.09.12	108/97, Talab Gagni Shukul Model House Lucknow
25832	Nisha Parveen Syed Saifur R.Miyan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15322 21.09.12	Nr Shan Marriage Hall Bareilly Gate Rd Shahbad Rampur



25833	Nishat Fatma Khurshid Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15451 19.10.12	29, Mirpur JounpurSadar Jounpur
25834	Niyaz Ahmad Khan Muhd.Siddiq Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	15018 24.05.12	Vill.Degrahan PO BadhyaBabhnan Thana Gour Basti
25835	Niyaz Ali Abdul Gani Abdul G.M. Ali Sheikh	BUMS MUHS, Nashik 2010	15552 21.12.12	H No.92 Kh, Purwa PuraniBazar Easat Ashik The Tulsipur Balrampur
25836	Nizam Ahmad Abdul Rashid Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15184 28.08.12	Abubakar NagarWard No.25 Deoria
25837	Nizamuddin Sagiruiddin Siddiqui	BUMS Delhi Univ., Delhi 1996	15342 25.09.12	HNo113 A, Moh ZarariVPO Zarari Farrukhabad
25838	Nizamuddin Shariq Mustafa H. Nizami	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15346 25.09.12	96, Khwaja KutubKhankahe Niyazzia Bareilly
25839	Noor Mohd.Khan Mehmood Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	14922 04.04.12	Vill.Jokahi Gonda
25840	Nusrat Ali Anadil Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15411 09.10.12	Vill.Fatehpur KhasThana Menathor Bilari Muradabad
25841	Nusrat Fatima Faiz Mohd.Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15432 15.10.12	Nr Raja Saheb ki MaszidMoh Purani Basti PO Mubarakpur Azamgarh
25842	Parul Asthana Chandra B. Asthana	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15325 21.09.12	173/137, Kundi NagarTola Katra Azamgarh
25843	Parvez Ahmad Saqir Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15142 20.07.12	Vill.Goharpur SaraiMamrez Allahabad
25844	Parvez Alam Shahabuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15653 15.03.13	112, Ganj SadatShikarpur Shikarpur Bulandshahar
25845	Parvez Ashraf Mohd.Rafiq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15174 13.08.12	VPO Sadullah Nagar Balrampur
25846	Q Alim Ahmad Khan Shamim Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14972 02.05.12	Indira NagarBamani Kanoon Go. Gird Gonda
25847	Qamal Akhtar Azhar Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15251 12.09.12	202, Harnatakia NaiBasti Sahaswan Badayun
25848	Qamar Alam Khan Babulallah (Babulal)	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15049 05.06.12	Vill.Bhoglaha PO Bhagirathpur Nautanwan Maharaj Ganj

25849	Qayamuddin Khan Muqimuddin Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15339 24.09.12	Near Idgah VPO Lalouli Fatehpur
25850	Rabia Khanam Zahid Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15498 26.11.12	Ladle Advocate VPO Gudhni Teh Billi Badayun
25851	Rafat Ali Badruddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15529 11.12.12	Vill.Gadhi Salempur Moh Choudhriyan Muradabad
25852	Rafat Shamim Shamim Ahmad	BUMS Univ. of Rajasthan, Jaipur 2010	15465 10.10.12	Takia Kavaldeh Rasulpur Gorakhnath Gorakhpur
25853	Rahimuddin Khan Abdul Rehman	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15019 24.05.12	Vill. Bharia Labedpur PO Jaiprabha Gram Gonda
25854	Rahul Kant Bacchu Lal	BUMS Delhi Univ., Delhi 2010	15550 20.12.12	Moh Chahshor Jyotibaphule Ngr
25855	Raina Anhar Syed T. Hussain	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15152 30.07.12	New Indira Ngr Circular Rd PO Bamani Kanoon GoGonda
25856	Rais Ahmad Samiullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15111 10.07.12	Vill. Mampur PO Dhammor Sultanpur
25857	Rais Khan Riyasat Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15617 12.02.13	VPO Asifabad Chandpura Bulandshahar
25858	Raqib Miyan Iftikhar Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15008 18.05.12	Moh PO kharwala Reliance Tower ke Samne W Ali G Ali Sadabad Hathras
25859	Rashida Khanam Riyaz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15488 20.11.12	Vill. Raniqpur Th. Kumarganj Pargana Khandasa Teh Milkipur Lucknow
25860	Rashida Zamal Zuned Alam	BUMS Delhi Univ., Delhi 2006	15412 09.10.12	Vill. Gariyawan PO Mansoorabad Allahabad
25861	Raza Hyder Zaidi Musthasin R. Zaidi	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15204 03.09.12	Moh Panju Sarai Sambhal Nr Panju Sarai PO lice Chowki Bhim Ngr
25862	Razmi Younus KSM Younus	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15260 13.09.12	A 254 Indra Nagar Lucknow
25863	Rehman Taslim Taslim Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2012	15596 30.01.13	H No. 70 K/26, Moh Sabnigran Najibabad Bijnor
25864	Richa Khanna Ali Osama Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15267 13.09.12	Khwajabagh Cly H No. 624D/102, Chinhat Lucknow

25865	Rihana MA Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15381 03.10.12	H No.3/377/3Gurana Rd G Ali No.6 Barout Bagpat
25866	Riyasat Ali Zahid Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15645 07.03.13	Shahabpur Urf Hindupur PO Guniapur Najibabad Bijnor
25867	Riyaz Khan Aslam Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2001	15657 19.03.13	Moh AfgananaNanota Saharanpur
25868	Riyazuddin Rauf Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15331 21.09.12	Mohalla Laxmanpuri Chitrakoot
25869	Rizwan Ahmad Mohd.Manzoor A.	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15407 09.10.12	Gujjar WadaGT Rd,Deoband Saharanpur
25870	Rizwan Ahmad Irshad Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2009	15073 19.06.12	Vill.Narpat Nagar PO Tundawala Swar Rampur
25871	Rizwan Ahmad Abul Hafiz	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15202 31.08.12	Vill.Buddhi Khas PO Biskohat Bazar Siddharth Ngr
25872	Rizwana Shamim Gayasuddin Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2001	15303 19.09.12	H No.855, G Ali No.5Main Sagarpur Delhi
25873	Robana Khatoon Masood Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15575 03.01.13	H No.25, MohPurani Basti Mubarakpur Azamgarh
25874	Ronaq Afroz Mohd.Muslim	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14977 03.05.12	4/887, HamdardNagar A Jamalpur Aligarh
25875	Rounaq Ali Ashif Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15480 07.11.12	433/1029, Yasin GanjRamnagar Lucknow
25876	Rubina Insaf Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15608 12.02.13	VPO DotaiGarh Mukteshwar Hapur
25877	Rubina Syed AhmadHassan Syed Ahmad Hassan	BUMS Univ.of Bombay, Mumbai 2001	15347 25.09.12	H No.451/26/2,Zafaria ClyMuftiganj Thakurganj Chowk Lucknow
25878	Ruhi Evaz Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15500 27.11.12	KidwaiClinic.PaltanChhavni Sitapur Rd Lucknow
25879	Ruhi Tabassum Nasir Ashraf Khan	BUMS Delhi Univ.,Delhi 1996	15659 21.03.13	B 1-154, Dilshad X 2DLF Gaziabad
25880	Rukkaiya Khatoon Izharul Haque	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15227 07.09.12	Moh Bismil Ngr Ward No.22 Ngr Palika Parishad Maharaj Ganj

25881	Rupam Verma Ram Swarup Verma	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15354 26.09.12	Vill.Sipah PO Ramnagar Ambedkar Ngr
25882	Saba Anjum Mohd.Nasim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15219 06.09.12	C 2881 Rajajipuram Lucknow
25883	Saba Khanam Badiuzzma Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15290 18.09.12	VPO Sanjarpur Azamgarh
25884	Saba Parveen Moazzam Ali Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15034 30.05.12	HNo4/783, Salfia Comx Maszid Ahle Hadis Jamalpur Aligarh
25885	Sabaur Rehman Munnan Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15055 07.06.12	556/8Kh/7, Sujanpura Alambagh Lucknow
25886	Sabiha Fatima Syed Sarwar Hussain	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14958 01.05.12	Hadinagar Khadija Maszid Dhora Mafi Aligarh
25887	Sabir Ali Mullan Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15141 20.07.12	Muhalla Saraibalai PO Atroli Aligarh
25888	Sabir Hussain Mohd.Siddique	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15620 14.02.13	74, Thakurganj Kharagpur Purani Bazar Adjacent to PO Gonda
25889	Sadia Zabbar Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15625 19.02.13	Vill.Mustafabad PO Pachenda Kala Muzaffar Ngr
25890	Sadia Raisuddin Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15582 17.01.13	Gulami ki Pura Rehmat Nagar Sadar Kotw Ali Azamgarh
25891	Sadia S Alim Syed S Alim Akhtar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14979 03.05.12	4/762 J 1, Mahak Street Hamdard Nagar B Aligarh
25892	Sadia Sherwani SUK Sherwani	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14950 23.04.12	4/749, Friends Colony Nagla Rd Aligarh
25893	Sadiq Hussain Nurul Hassan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2005	15494 22.11.12	8, Chhitarpara Majhreti Balrampur
25894	Saiful Islam Tahir Hussain	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2012	15576 11.01.13	VPO Radhna Inayatpur Kithor Meerut
25895	Saima Rizwan Rizwan Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15379 03.10.12	Muhalla Sheikhwada Mau
25896	Salalallah Alam Gor	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2006	15369 01.10.12	Vill.Amar Dhoba PO Bakhira Siddharth Ngr

25897	Saleha Khatoon Wasiuddin A.Siddiqui	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15206 03.09.12	B-12, Kalyanpur Paschim Ring Rd Hero Honda Agency Lucknow
25898	Salma Aziz Nayab Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15610 12.02.13	VPO Auran Banda
25899	Samaila Mohd.Idria	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15032 30.05.12	VPO Kuzibana Kurhela Bobra Maya Salmari G Katihar Bihar
25900	Saman Afroz Mohd.Nadim Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15474 05.11.12	110, Bysi ki Maszid Model House Lucknow
25901	Samina Begum Ahreshyam Anwar	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	15341 25.09.12	LIG 189 Sector 2Avas Vikas Colony Agra
25902	Samiullah Mohd.Mustqim	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2012	15569 27.12.12	H No.142, Vill. Belua PS Bankata Tehsil Bansi Siddharth Nagar
25903	Sana Fatima Nafis Haider	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15084 22.06.12	H No.92, Pathan 1Tehsil Pehla Kalan Lakhimpur Khiri
25904	Sana Fatma Shahabuddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15635 01.03.13	Vill.Roza Saifan Patti PO Kh Alispur Sagri Azamgarh
25905	Sarfraz Ahmad Jamal Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15263 13.09.12	Miranpur Akbarpur Ambedkar Ngr
25906	Sarfraz Nawaz Zaqir Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15382 04.10.12	VPO Rigoli Bazar Allahabad
25907	Sarfrazuddin Alauddin	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15288 18.09.12	Vill.Chhitebhau PO Mehroda Mau Aima Tehsil Sorawan Allahabad
25908	Sartaz Ahmad Abdul Gaffar	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14942 19.04.12	H No.28, Pir Ataullah Upper Coat Aligarh
25909	Sartaz Ahmad Siraz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15283 18.09.12	Vill.Hussainpur PO Dak Lahipur Badayun
25910	Sartaz Ahmad Khan Mukhtar Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	14923 10.04.12	H No.15, MohallaQasim PO khri Lucknow
25911	Saudur Rehman Ansar Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15487 19.11.12	H No.6/248,Moh Alhaddapur Chhajapur Ambedkar Ngr
25912	Sayma Zabi Khan NA Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	45421 11.10.12	M 1230, Keshavpuram Avas Vikas Kalyanpur Kanpur

25913	Seema Mansoor Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15390 08.10.12	1/846, Vishal Khand Gomati Nagar Lucknow
25914	Shabana Bano Muhd.Anis	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15648 11.03.13	H No.226, Vill. Kanakpura PO Sohnaria Deoria
25915	Shabana Faridi Mehmud Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15611 12.02.13	532/548A, Banarsi Tola, Aliganj Lucknow
25916	Shabbir Ahmad Sikandar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15450 19.10.12	C-20/9B 3,Nai PO khri Varanasi
25917	Shabina Bano Zaved Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15481 07.11.12	Vill.MahmadpurPachrukhi Siwan
25918	Shabnam Rashid Rashid A. Ansari	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15036 30.05.12	H No.11/69, Bania PadaG Ali Maszid Bu Ali Shah Upper Kot Aligarh
25919	Shadab Qarum Salam	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2012	15546 18.12.12	VPO BhojpurModinagar Gaziabad
25920	Shadab AhmadSiddiqui Mehmood Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15192 28.08.12	Moh SahwanNr ITI Nagina Bijnor
25921	Shafiq Ahmad Mohd.Suleman	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15439 17.10.12	Vill.Itela Buzurg PO Survar Khurd Chhapia Gonda
25922	Shafiqur Rehman Azizur Rehman	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2012	15646 08.03.13	HNo.211,Abdul HidiRd Sidhi Sarai Muradabad
25923	Shagufta Parveen Matloob Hassan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14970 02.05.12	Flat No.1, Sir SyedResidency Sir Syed Ngr Aligarh
25924	Shagufta Zafar Zafrul Islam Ansari	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	15125 16.07.12	Muhalla Bag PO Adri Mau
25925	Shah Kh Alid Mehfooz-ur-Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15360 27.09.12	Mohalla Purarani PO Mubarakpur Azamgarh
25926	Shah Parvez Ramzan Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15532 11.12.12	Moh Jain Nagar G No.1Tehsil Khatoli Muzaffar Ngr
25927	Shaharyar Khan Shaqil Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15449 19.10.12	202, Tiwari CampusWestend Rd Meerut
25928	Shahban Ali Salman Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14986 09.05.12	Bad Nabudan Nr Chhota Imam Bada Zaidpur Barabanki

25929	Shahgul Mohd.Asalam Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2011	15485 12.11.12	Hazrat NagarGadhi PO Khas Sambhal Bhim Ngr
25930	Shahid Hassan Shahid	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	14997 15.05.12	VPO Masin Thana HimpurDipa Chandpura Bijnor
25931	Shahla TarannumAnsari Atiq-ur-Rehman	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2010	15094 28.06.12	H No.25, Udaybhan PurAzamgarh Sadar Azamgarh
25932	Shahnawaz Mehmood Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14975 02.05.12	Vill.Sodaspur PO JahangirpurThakurdwara Muradabad
25933	Shahnawaz Alam Mohd.Moiuddin	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2011	15630 28.02.12	VPO Lohra Thana MubarakpurVia Madiyawahan Azamgarh
25934	Shahnaz Khan Shamsuddin Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15313 20.09.12	536K/28 New MakkaganjSitapur Rd Lucknow
25935	Shahzad Hussain Afzal Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15225 07.09.12	VPO Gohavar JetNr State Bank of India Bijnor
25936	Shaista Mobin Izahar Alam Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15641 06.03.13	C- 15/219Lallapura Sagra Lucknow
25937	Shaista Naz Mohd.Haqim Ansari	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15129 17.07.12	H No.360 Dariapur NrSuraj Talkies Sultanpur
25938	Shaista Parveen Nasir Hassan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15160 08.08.12	APL 416,Muslim ClyChhutmalpur Saharanpur
25939	Shaista Parveen Reyaz Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15324 21.09.12	Karmeni Ronapar Azamgarh
25940	Shama Abdul HaiKhan Khan Abdul Hai	BUMS CSM Univ., Kanpur 2005	15362 27.09.12	Vill.Ziya Bhari PO Badhni Siddharth Nagar
25941	Shama Parveen Sirajuddin	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2011	15606 11.02.13	H No.695/1Khairabad Sultanpur
25942	Shamim Ahmad Hakim Ulla	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2007	15395 08.10.12	Vill.SevdaChayal Koshambi Allahabad
25943	Shamim Akhtar Asrar Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15195 28.08.12	VPO Paschim Khairabad Mau
25944	Shamsher Alam Samiullah Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15124 13.07.12	VPO KarmahaTh. Brijman Ganj Lucknow

25945	Shamsuzzuha Mehboob Subhani	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15366 28.09.12	HNo52, Basawan Ganj Amroha Jyotibaphule Ngr
25946	Shaqil AhmadSiddiqui Hassan Ali Siddiqui	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	15429 12.10.12	VPO Shahpur TondaThana Hassanganj Unnao
25947	Shaqila Begum Zahirul Hassan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15345 25.09.12	M 2, 214, Sector INr Nawada Gaon Jankipuram Lucknow
25948	Shaqir Mohd.Hanif	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15193 28.08.12	Moh Sarai Mir Nr Chuna Bhatti Transformer Nagina Bijnor
25949	Shaqir Raza Muhammad Tahir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15536 12.12.12	Moh Bheda Patti Qureshian Nr Maszid VPO Basta Chandpur Bijnor
25950	Sharif Hussain Mohd.Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15392 08.10.12	Moh Makhupur Khairabad Sitapur
25951	Shavez Ahmad Mohd.Soib	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2012	15607 12.02.13	Smt.Tamhid Fatima Gonda
25952	Shayama Khan Mustafij Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15652 15.03.13	H No.11, Thiria Nizwat Khan Bareilly
25953	Shazan Asif Sagiruddin Ansari	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15586 22.01.13	Super Medical Agency Bhavan Shamli Prabuddh Nagar
25954	Shazia Khan Irfan Ulla Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2012	15553 24.12.12	Medical Aid Centre Chidiya Khana Raibareilly
25955	Shazia Mehboob Qashfudduza	BUMS Vikram Univ.,Ujjain 2010	14955 23.04.12	482/38/2,Nr Chaman W Ali Maszid Bhandu Iradat Ngr,D Aliganj Lucknow
25956	Sheikh Anwar Ahmad Abdul Wahab	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2009	15238 10.09.12	VPO Bandighat Muhammadabad Gohna Mau
25957	Sheikh Gul Mohd. Sheikh Razzab Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15117 13.07.12	Hall Rd Room No.349Vill.Kurla Paschim Mumbai
25958	Sheikh Mohd. Danish Badruddin Mohd. D.	BUMS Univ.of PO ona, Pune 1999	15445 18.10.12	Vill.Ausatpur PO Chireyakot Lucknow
25959	Shiba Mukhtar Ali Khan	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15356 26.09.12	Aiman Zai Jalal Nagar Bhullan Khan ki Chopal Shahjahan Pur
25960	Shina Khan Badi-Uzzma Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15137 19.07.12	57, Syed Mension Arazi Bagh PO & Tehsil Sadar Azamgarh



25961	Shivendra PratapSingh Panwar Ziledar Singh Panwar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15463 30.10.12	537A/75, Maharaja Aggarsen Nagar Sitapur Lucknow
25962	Shueb Ahmad Mohd.Aqram Siddiqui	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15484 12.11.12	154, Panjabiyen Khurd Meerut
25963	Shueb Khan Sharafat Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15096 29.06.12	Vill.Chirodi Gaziabad
25964	Siddiqui Fazla ZainabMohd. Mohd.Tayyab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15466 31.10.12	107/35/D/1,Malka Roti ka Fatak Bysi ki Maszid Lucknow
25965	Sikandar Khan Subur Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	14921 04.04.12	Moh Mandai Imam Chowk TehSandila Hardoi
25966	Sima Zilani Mohd.Shahnawaz A.	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	15578 15.01.13	Mohlla Sarai Rafi Chandpura Bijnor
25967	Simna Parveen Syed Urooz Moazzam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15311 20.09.12	346/A, BN Rd Makka Apartment Lalbagh Lucknow
25968	Siraz Ahmad Shaharyar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15240 10.09.12	Vill.Ousanpur PO Dumaria Ganj Siddharth Ngr
25969	Siraz Ahmad Mohd.Anis	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14949 19.04.12	VPO Karampur Akbarpur Ambedkar Ngr
25970	Siraz Ahmad Zamil Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15333 24.09.12	Vill.Manapar Baheria Teliajot PO Hussainabad Teh Utrola Balrampur
25971	Siraz Ahmad Khan Kh Alil Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14952 23.04.12	Vill.Karimnagar PO Balbhaddarpur Risia Bahraich
25972	Sohrab Ahmad Iqramuddin	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15295 18.09.12	Mohalla Maniharan Kasba Sherkot Bijnor
25973	Somendra Kumar Trilok Chandra	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15599 31.01.13	VPO Rohana Khurd Muzaffar Ngr
25974	Suhel Israr Ali Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15163 08.08.12	VPO Harpal Saharanpur
25975	Suhel Ahmad Zuber Ahmad	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2010	15591 28.01.13	Vill.Nevada PO Sadullah Nagar Balrampur
25976	Suhel Ahmad Shamim Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2007	15159 06.08.12	Vill.Bankasia Rd Office Magaiapura PO Dhorhara TehUtrola Behraich

25977	Suhel Khan Tasir Ali Khan	BUMS MUHS, Nashik 2010	15387 05.10.12	Moh Choudhry Sarai Badayun
25978	Suleman W Aliullah Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15092 28.06.12	Vill.Raipur Vichpuri PO Zomrajpur Puranpur Pilibhit
25979	Sultan Ahmad Syed Mohd.Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2009	15298 19.09.12	VPO Shahnawan Faizabad
25980	Suman Singh Chouhan V.B. Singh Chouhan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15391 08.10.12	632/24, Sanatan Nagar Kamta Chinhat Lucknow
25981	Sumbul HassanKhan M Alik Itrat	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15208 04.09.12	HNo162, BhagwanGadhi PO ADF Aligarh
25982	Sumera Akhtar Nazmuas Saqib Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2008	15471 01.11.12	Chakki W Ali G Ali Guian Talab Rampur
25983	Sumeya Siddiqui Ezaz Ahmad Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15567 27.12.12	Saba Hospital Saraimeer Azamgarh
25984	Sumeya Umar Khan Mohd.Umar Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15143 25.09.12	538/427 Deendayal Nagar Lucknow
25985	Syed Ahmad Kh Alil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2002	15658 19.03.13	Moh Jhotewalan Saharanpur
25986	Syed Ahmad Mukhtar Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14984 09.05.12	Vill.Tayebpur PO Parsona Balrampur
25987	Syed Ahmad Ali Syed Waqil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15456 19.10.12	HNo860/113G Ali No.6Amba Vihar Muzaffar Ngr
25988	Syed Asif Riyasat Syed Riyasat Ali	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15223 06.09.12	Moh Sarai Rafi Nr Degree College Ghosi W Ali G Ali, Chandpur Bijnor
25989	Syed Bilal Hussain Syed Aqil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15495 23.11.12	1530 SouthKhalapar Muzaffar Ngr
25990	Syed Faridi Abdul Samad Faridi	BUMS CSM Univ., Kanpur 2008	14985 09.05.12	VPO Barawan Machhli Shahar Mirganj Jounpur
25991	Syed Mehboob Ali Syed Hashim Ali	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2002	15482 08.11.12	Imam Bada Gonda
25992	Syed Mohd. ZiyaAshraf Syed S. Ashraf	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15005 17.05.12	VPO Basarvari Th.Basarvari Tehsil Tanda Ambedkar Ngr

25993	Syed Nadim Ahmad Abdul Marruf	BUMS CSM Univ., Kanpur 2007	15310 20.09.12	H No.84/823, Sakera StateNr Alwarganj Rly. Station Kanpur
25994	Syed Nazir Abbas Syed Ali Kausar	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15272 14.09.12	Vill.Ahiroli PO Madarpur Jounpur
25995	Syed Nikahat Asgar Syed Asgar Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15197 30.08.12	2C/50, Minto Rd Allahabad
25996	Syed Shabib Rizvi Syed Mohd.Syed	BUMS CSM Univ., Kanpur 2005	15255 12.09.12	Moh Mandai Imam Chowk Sandila Hardoi
25997	Syed Wasim Ahmad Syed Waqil Ahmad	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 1990	15079 2.06.12	Vill.Khattegaon PO Gazizpur TehTanda Ambedkar Ngr
25998	Syeda HumairaBano Sheikh Mohd.Tariq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	15136 19.07.12	24 K, Bhadi Rd Purani Bazar Shahganj Jounpur
25999	Tabrez Alam Feroz Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15047 01.06.12	Vill.Sandahan PO Mani Kalan Jounpur
26000	Taiyyaba Fatima Abdul Mugni	BUMS Delhi Univ.,Delhi 2012	15574 03.01.13	Vill.Eni Hatinsi PO Kaisar Ganj Behraich
26001	Taj Mohd. Azhar Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15656 19.03.13	417/692, Basant Vihar Colony Niawjganj
26002	Tanvir Fatma Mohd.Aslam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15350 26.09.12	Vill.Baswahi PO Kunda Pratapgarh
26003	Tarannmum Shahin Mohd.Z Alil	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15351 26.09.12	Moh Sirkahan Nr Badi Maszid Tanda Ambedkar Ngr
26004	Tarannum Hafiz Hafiz-ur Rehman Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15040 30.05.12	H No16/24, Opp. Kala Mahat Maszid Jaiganj Aligarh
26005	Tarannum Parveen Akhtar Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2011	15534 12.12.12	PO Kasampur GadhiRehmat Nagar Cly Dhampur Bijnor
26006	Tariq Anwar Ekhlaq Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2009	15205 03.09.12	C 15/339, PO Matakund Lallapura Varanasi
26007	Tariq Khan Yaqoob Ahmad Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2006	14924 10.04.12	Mahua Tola PO Shahbad Hardoi
26008	Tariq Mustafa Gulam Mustafa	BUMS CSM Univ., Kanpur 2006	15489 20.11.12	189, Hamdard Nagar A Jamalpur Civil Line Aligarh

26009	Tariq Parvez Ansari Sagir Ahmad Ansari	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2009	15286 18.09.12	Vill.Hareiya Th Hata PO Sadar Deoria
26010	Tariq Zamalkhan Muzibullah Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15642 07.03.13	89A, Moinpur Balrampur
26011	Tashrif Alam Abdul Mazid Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15277 14.09.12	Vill.Parsoni PO Rudrapur Shivnath Maharaj Ganj
26012	Tasovar Hussain Sarmad Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15242 11.09.12	Vill.Bhavpur Mira PO Bhadokhar Itwa Bazar Siddharth Ngr
26013	Tayyaba Gulfam Mohd.Mutii-ur-R. Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15399 09.10.12	Tanda Ambedkar Ngr
26014	Tayyeba Iqbal Iqbal Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	15091 27.06.12	Mustafa Maszid Nr Shan Marriage Hall Rampur
26015	Tehmina Rehmani Mustqim Siddiqui	BUMS Univ.of PO ona, Pune 2003	15358 27.09.12	Vill.Bakharia PO Sumhadeeh Th.Pawai Phulpur Azamgarh
26016	Touqir Alam Farooqi Mohd.Younus Farooqi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15145 24.07.12	Vill.Mohammadpur Suhag PO Kota Bhawaniganj Pratapgarh
26017	Tousif Ahmad Rais Ahmad	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2010	15068 18.06.12	MohNimtal PO Jalalpur Ambedkar Ngr
26018	Tousif Ali Mohd.Shaqur	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15452 19.10.12	Vill.Phulasi PO SaplaKhatri Deoband Saharanpur
26019	Umar Mohammad Mohd.Hasmat	BUMS BBA Bihar Univ. Muzaffarpur 2010	14965 01.05.12	Vill.Riyaw Ali NaglaBudhana Ratanpuri PO Khas Muzaffar Ngr
26020	Umme Habia Abu Osama	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15380 03.10.12	Vill.Para PO Rangdeeh Azamgarh
26021	Urusa B Wazid Ali Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2007	15105 05.07.12	Moh Chahmulla Amn Amroha Jyotibaphule Ngr
26022	Uruz Ahmad Khan Abdul Shaqil Khan	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15217 05.09.12	W No.19 Moh Nibia VPO Kakrala Badayun
26023	Usman Ali Noor Hassan	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2012	15660 21.03.13	Vill.Virpur Wariar Urf Kharak PO Chandanpur Muntha- pande Muradabad
26024	Uved Ul Rehman Rafiq Ahmad	BUMS Pt.RS Shukla Univ., Raipur 2012	15650 15.03.13	211, KisrolNagfi Muradabad

26025	Uzer Ahmad Waqil Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	15134 18.07.12	Vill.Punthar PO Rampur Kalan ThanaTanda Ambedkar Ngr
26026	Uzma Shahin Azizur Rehman	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2009	15367 28.09.12	VPO Rasulpur MunderaNarayanpur Pritampur Ambedkar Nagar
26027	Vijay Pal Puran Lal	BUMS CSM Univ., Kanpur 2009	15169 09.08.12	D Fiti Naya Vijay NgrSec 9 Gaziabad
26028	Vinay Kumar Singh Ompal Singh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15589 22.01.13	Shyam Singh Building Harmukhpuri, Moinagar Gaziabad
26029	Vivek Singh Rasik Bihari Singh	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15479 07.11.12	21, Ashish Nagar Tedi Pulia Ring Rd Lucknow
26030	Wahab Ali Rashid Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15515 04.12.12	Moh Mullan Tola Ashraf Tola,Sandila Hardoi
26031	Wahiduddin Jamaluddin	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15453 19.10.12	Chhota Bazar Budhana Muzaffar Ngr
26032	Wahidul Hassan Nazaf Hussain	BUMS Univ.of Rajasthan, Jaipur 2003	15113 11.07.12	Vill.Pipra PO ItaiUtrola Balrampur
26033	Wamiq Umar Muhammad Umar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2009	15386 05.10.12	Rajapur SikrorSaraimeer Azamgarh
26034	Waris Ahmad Mohd.Idris	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15557 24.12.12	Vill.Suhagpur PO Dhampur Bijnor
26035	Washim Ahmad Rafiq Ahmad	BUMS BIM, Jaipur 2010	15189 28.08.12	VPO BhojpurModinagar Gaziabad
26036	Wasim Ahmad Abdul Hai	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15235 18.10.12	HNo.24,VPO Asifabad Chandpura Meerut
26037	Wasim Ahmad Shamim Ahmad	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	14969 01.05.12	Mohalla Kheda Haldor Bijnor
26038	Wasim Ahmad Mehboob Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15409 09.10.12	Moh K Ali Pagdi Amroha Jyotibaphule Ngr
26039	Wasim Pasha Nasim Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15539 12.12.12	VPO PalolaAmroha Jyotibaphule Ngr
26040	Yasmin Siddique Mohd.Siddique	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15037 30.05.12	4/81, M Kabir Colony Anup Shahar Rd Aligarh

26041	Zafar Ahmad Mohibulla	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	15243 11.09.12	Pappu General Store 143/99 Niyamatullah Rd Aminabad Faizabad
26042	Zafar Parvez Parvez Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15428 12.10.12	Mohalla Kaziana Rudoli Faizabad
26043	Zafar Syed Abul Wala	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15634 01.03.13	504/004, Tagore Lane Nadwa Barolia Lucknow
26044	Zafar Zaved Khan Mohd. Zaved Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	14961 01.05.12	Vill. Mohammadpur Sadar Azamgarh
26045	Zaheda Mohd. Irshad Sarwar Alam	BUMS Univ. of PO ona, Pune 1997	15107 05.07.12	Sa Mo. Sabarhad PO Sabarhad Jounpur
26046	Zahid Akhtar Ansari Sharfuddin	BUMS The WBUH Sciences, Kolkata 2011	15503 29.11.12	Paschim Mohalla Rasda B Alia
26047	Zahid Ali Babu Khan	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2006	15132 18.07.12	4/291, Johrabag Nr Farid Dairy Civil Line Dodhpur Aligarh
26048	Zahid Ali Sharafat Ali	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15157 06.08.12	VPO Bhainsa Via Noorpur Chandpur Bijnor
26049	Zahid Kussain Zamil Ahmad	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2010	14994 14.05.12	Rasulpur Ajay Nagar Gorakhnath Gorakhpur
26050	Zamil Ahmad Manzoor Ahmad	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15296 19.09.12	Vill. Solana Pratapur PO Govindpuri Meerut
26051	Zamil Ahmed Serazuddin	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15101 03.07.12	Vill. Ekona PO Mirpur Rahimabad Mau
26052	Zamzam Shahid Mohd. Aqmal	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2009	15510 03.12.12	172, Masjid Kallash Gayya Talab 2 Sadar Rampur
26053	Zaqir Bureir Zafri Mohd. Bureir Zafri	BUMS Rajasthan Ay. Univ., Jodhpur 2010	14976 02.05.12	Mohalla Choudhrian Kasba Sirsi Sambhal Bhim Ngr
26054	Zaved Akhtar Muhammad Ishaq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2010	15028 29.05.12	Vill. Lehua Mahua Naya Moh PO Bakhira Siddharth Ngr
26055	Zaved Alam Zahir Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15422 11.10.12	56, Sadak Dhudhli Khand 1 Saharanpur Saharanpur
26056	Zaved Ali Rafiq Hussain	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	14968 01.05.12	Dolatbagh Math W Ali G Ali.7 Muradabad

26057	Zaved Azim Abdul Azim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2006	14926 11.04.12	H No.8, Avas Vikas Colony Harra ki Chungi Azamgarh
26058	Zaved Faridi Sabir Ali	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2001	14929 12.04.12	Barawan PO Barawan Machhli Shahar Jounpur
26059	Zaved Khan Waris Ali Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	14988 10.05.12	VPO Asifabad Chandpura Bulandshahar
26060	Zeba Khan Israel Khan	BUMS Univ.of Calcutta, Kolkata 2009	15478 07.11.12	VPO Sikaria Kalan B Alia
26061	Zed Hassan Mohd.Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15031 10.05.12	Vill.Kalyanpur Bargadwa PO Bandhusari Tulsipur Balrampur
26062	Zenul Abdin Abdul Qadir	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15461 30.10.12	M Alik TolaMaunath Bhanjan Mau
26063	Zia-ul Islam Mehboob Islam	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15088 27.06.12	Moh Dhosian Vill. Salempur Khas PO Gadhi Kanth Muradabad
26064	Zia-ul-Haq Khan Abdul Haq Khan	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15530 11.12.12	H No.425/116, Nr Ambarganj Lucknow
26065	Zia-ul-Haque Kaimul Haque	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2009	15297 19.09.12	VPO PiroBhojpur Bihar
26066	Zia-ur Rehman Aziz-ur Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15555 24.12.12	Balda Rose Z Alil ka Hotel Pir Batawan Barabanki
26067	Ziauddin Arifi Fariduddin Arifi	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15081 22.06.12	VPO GodhanaPawai Azamgarh
26068	Ziaur Rehman Khan Habibur Rehman	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15588 27.01.13	435/25Razzabganj Lucknow
26069	Zishan Mohd.Shamim	BUMS CSM Univ., Kanpur 2013	15623 18.02.13	Vill.Kurkhila PO Harai Barabanki
26070	Zishan Ahmad Khan Nawab Sher Khan	BUMS Jamia Hamdard, Delhi 2012	15375 01.10.12	VPO GoraTehsil Puranpur Pilibhit
26071	Zishan Hyder Rizvi Syed Sardar Hussain	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15540 14.12.12	VPO Shivli Nizamabad Azamgarh
26072	Zoheb Siddiqui Zaved Siddiqui	BUMS CSM Univ., Kanpur 2011	15538 12.12.12	139, Panjabiyan Khurd Bulandshahar

26073	Zohra Zabi Wasim	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15167 09.08.12	Mohalla Pathanpura Nazizabad Bijnor
26074	Zuber Ahmad Abdul Rauf	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2011	15080 22.06.12	Vill.Dumaria PO Nandori Balrampur
26075	Zuber Alam J Alil Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15318 21.09.12	Vill.Amkhed PO Dang Pilibhit
26076	Zuber Alam Hafiz Muzffar Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2010	15361 27.09.12	A-13/199, GhasiariTola, Bhadaun Chungi Varanasi
26077	Zulfeqar Habib Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2012	15571 31.12.12	Buxar Main RdSimbhav Ali Meerut
26078	Zuned Ahmad Shamshadul Haque	BUMS Rajasthan Ay. Univ. Jodhpur 2010	15214 04.09.12	HNo64, Moh Salatin Kasba Kithor Mawana Meerut
26079	Zuned Ahmad Farooq Ahmad	BUMS CSM Univ., Kanpur 2007	15177 24.08.12	Muh Purani Bazar PO Nanpara Pilibhit
26080	Zurrin Jamal Jamaluddin	BUMS Muslim Univ., Aligarh 2010	15161 08.08.12	C/o Smt.Zinat Jamal Farsoti Tola Badayun